

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2025—माघ 4, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

क्र. ई-5-769-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2024 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का प्रभार श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2025

क्र. 10-2425231-2024-ब-2-दो-ब-2.दो—राज्य शासन, एतद्वारा, सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को मिड-केरियर, ट्रेनिंग प्रोग्राम (M.C.T.P.) प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक (Menter) नियुक्त किये जाने पर प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15 व 21-22 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित U.K. की विदेश यात्रा (Ex-India) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025

क्र. एफ 1 (ए) 152-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 13 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक, सैतालीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 जनवरी व 1-3 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में सपरिवार सहित भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत चेन्नई (तमिलनाडू) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री मनीष शंकर शर्मा — स्वयं
2. श्रीमती आरती शर्मा — पत्नी
3. श्री तेजस्वी शंकर शर्मा — पुत्र

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, पी. टी. आर. आई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

क्र. एफ-1(ए) 212-1996-ब-2-दो—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग / आर. टी. आई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को महानिदेशक, सी. आई. एस. एफ., नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2024 द्वारा स्वीकृत अवकाश दिनांक 29 अगस्त से 27 अक्टूबर 2024 तक, साठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 12 दिवस ज्वार्निंग टाईम में से उपभोग किये जाने के बाद शेष छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं बारह दिवस ज्वार्निंग टाईम को अवकाश खाते में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनु भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

पंजी. क्र. 5030-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर को लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक

सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनकी सेवाएं, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2025

फा. क्र. 168-इक्कीस-ब (एक).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री प्रदीप मित्तल, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

F. No. 168-XXI-B (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Pradeep Mittal, District Judge (Inspection), High Court of Madhya Pradesh, Gwalior Zone, Gwalior as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. 1106-2613-इक्कीस-अ(स्था.)-गोप.-2025.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनिल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त स्टॉफ आफीसर, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को सेवानिवृत्ति उपरांत पुनः दिनांक 1 सितम्बर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, विधि विभाग में स्टॉफ आफीसर के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 5-1-2017-एक-3, दिनांक 28 सितम्बर 2017 एवं संशोधित परिपत्र क्र. सी. 5-1-2017-3-एक, दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन, संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्र. 11 आदेश दिनांक 7 जनवरी 2025 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2025

पंजी. क्र. 236-2025-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रसन्ना सिंह भरावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर की सेवाएं पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, देवास के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु, एतद्द्वारा, श्रम विभाग, मंत्रालय को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2025

क्र. 922-3892-इक्कीस-अ(स्था).—कार्यालय, उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल असाधारण राजपत्र क्र. 250, दिनांक 27 अगस्त 2024 का मुद्रण (855 प्रतियां) कार्य देयक क्र. 18879, दिनांक 4 दिसम्बर 2024 जिसकी कुल राशि रुपये 2,442/-अनुसार कराया गया है।

अतः कार्यालय, उप-नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के पक्ष में (सी. जी. एस. टी. एवं एस. जी. एस. टी. राशि रुपये 2,070+372=2,442) सहित राशि रुपये 2,442/- (रु. दो हजार, चार सौ बयालीस केवल) की भुगतान स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या-29-2052-00-090-9999-योजना-9057-विधि एवं विधायी कार्य की मद-22-कार्यालय व्यय की उपमद-012-मुद्रण एवं प्रकाशन में से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. यूडीएच-3-0073-2024-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत उमरिया विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-18-2005-बत्तीस भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2005 को निरस्त करते हुये निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है :—

अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1)	पद / व्यक्ति का नाम	संस्था / पता	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका, उमरिया	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, उमरिया	सदस्य
(ग)	लोक सभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र, शहडोल	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, बांधवगढ़	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	साडा / नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत-करकेली, उमरिया	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत-भरौला (ग्राम भरौला, भरौली, लौंगा, टिकरिया)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत-घघरी (ग्राम-डबरौहा, सेवई, घघरी, महिमार)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत-तमन्नारा (ग्राम-लालपुर कुआँ)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत-पिपरिया (ग्राम-बिलाईकॉफ, पिपरिया)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत किरनताल कलों (ग्राम-किरनताल, भगडा)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत-उफरी (उफरी, उजनिया)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, कोईलारी (ग्राम कोईलारी)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, चंदवार (ग्राम चंदवार)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, उमरिया	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, उमरिया, जिला उमरिया.	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला उमरिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला उमरिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट आफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता	सदस्य
(झ)	समिति के संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा समिति संयोजक	

यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 9 जनवरी 2025

प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020]

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 36-भू-सर्वेक्षण-2024.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दमोह	दमोह	मूल ग्राम -बालाकोट मजरा ग्राम-खजूरा	23	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

FORM XII
(See rule 10)

[The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020]

Commencement of Land Survey

No. 36-Land Survey-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in Column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :—

SCHEDULE

S. No.	District	Tahsil	Village / Town	Patwari Halka No. / Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Damoh	Damoh	Mool Village—Balakot MajaraTola—Khajura	23	Village Total area (Except Abadi)

प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020]

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 37-भू-सर्वेक्षण-2024.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दमोह	पथरिया	मूल ग्राम -बांसाकला मजरा ग्राम-सजियाहार	09	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

FORM XII
(See rule 10)

[The Madhya Pradesh (Bhu-Rajasva Sanhita Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020]

Commencement of Land Survey

No. 37-Land Survey-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :—

SCHEDULE

S. No.	District	Tahsil	Village / Town	Patwari Halka No. / Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Damoh	Patharia	Mool Village—Bansakala MajaraTola—Sajiyahaar	09	Village Total area (Except Abadi)

प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020]

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 38-भू-सर्वेक्षण-2024.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दमोह	पथरिया	मूल ग्राम -नंदरई मजरा ग्राम-चौपरा	08	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

FORM XII
(See rule 10)

[The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020]

Commencement of Land Survey

No. 38-Land Survey-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :—

SCHEDULE

S. No.	District	Tahsil	Village / Town	Patwari Halka No. / Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Damoh	Pathriya	Mool Village—Nandrai Majara Tola—Chopra	08	Village Total area (Except Abadi)

प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020]

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 39-भू-सर्वेक्षण-2024.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दमोह	दमोह	मूल ग्राम -पायरा मजरा ग्राम-खैरी	12	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

FORM XII
(See rule 10)

[The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020]

Commencement of Land Survey

No. 39-Land Survey-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :—

SCHEDULE

S. No.	District	Tahsil	Village / Town	Patwari Halka No. / Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Damoh	Damoh	Mool Village—Payra Majra Tola—Khairi	12	Village Total area (Except Abadi)

ग्वालियर, दिनांक 14 जनवरी 2025

प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020]

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 52-भू-सर्वेक्षण-2024.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नीमच	जीरन	मूल ग्राम -चल्दु मजरा ग्राम-सिमखेड़ा	0021	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

FORM XII
(See rule 10)

[The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020]

Commencement of Land Survey

No. 52-Land Survey-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :—

SCHEDULE

S. No.	District	Tahsil	Village / Town	Patwari Halka No. / Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Neemuch	Jeeran	Mool Village—Chaldu Majara Tola—Simkheda	0021	Village Total area (Except Abadi)

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2025

क्र. एफ-3-3-0001/2022/बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) के नियम 1 का उपनियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 17 जनवरी, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम के नियम 3 की अनुसूची के सरल क्रमांक-8 में अंकित मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 में किया गया संशोधन प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2025

क्र. एफ-3-3-0001/2022/बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-3-0001/2022/बी-ग्यारह.— दिनांक 17 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

Bhopal, the 17th January 2025

No. F-3-3-0001-2022-B-XI.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 1 of the Madhya Pradesh Jan Vishwas (amendment in provisions) Adhinyam, 2025 (No. 1 of 2025), the State Government, hereby, declare 17th January, 2025 as the date on which the amendment made in the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973, specified in serial number 8 of the Schedule to rule 3 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHASWAT SINGH MEENA, Dy. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम, (1927 क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संबोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला- शिवपुरी
वनमंडल- शिवपुरीतहसील- पोहरी
वनपरिक्षेत्र-पोहरी

क्रमांक	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे० में	
1	सिकन्दपुरा (2)	सिकन्दपुरा	राजस्व भूमि	67/1	44.96	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 23 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से मुनारा क्रमांक 31 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				227	7.35	
				योग	52.31	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-08/2016/एफ.सी. दिनांक 06.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना (केन वेतवा लिंक प्रोजेक्ट) में प्रभावित 968.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 52.31 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक क्रमशः 51/2017-18/अ/20(3) नजूल आदेश दिनांक 18.12.2017

से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा - 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र.61-2025-दस(FOR) :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 61-2025-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division :- Shivpuri

Tahsil :- Pohari
Forest Range :- Pohari

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Sikandpura (2)	Sikandpura	Revenue Land	67/1, 227	44.95 07.35	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 19 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 19 to Pillar No. 23 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 23 to Pillar No. 31 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 31 to Pillar No. 1 of Proposed Protected Forest Block.
				Total	52.31	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-08/2016/FC dated 06-05-2021 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower or Major Irrigation Project (Ken Betwa link project) of project Manager Or river Pmu Bamorkala Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 52.31 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 51/2017-18/A -20 (3)NAZUL Order dated 18-12-2017 of 52.31 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Pohari (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Hights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - सिवनी

तहसील - घंसौर

वनमंडल - उत्तर सिवनी

वन परिक्षेत्र - घंसौर

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	बिनौरी	बिनौरी	शासकीय	360/2 (s)	8.24	<p>उत्तर - संरक्षित वनखंड पहाड़ी के मुनारा क्रमांक 34 एवं 35 के मध्य स्थित प्रस्तावित वनखंड बिनौरी के मुनारा क्रमांक 34/1 से मुनारा क्रमांक 1 एवं 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पूर्व - प्रस्तावित वनखंड बिनौरी के मुनारा क्रमांक 6 से आरक्षित वनखण्ड रोटी-4 (बी) के मुनारा क्रमांक 3 व 4 के मध्य स्थित प्रस्तावित वनखण्ड बिनौरी के मुनारा क्रमांक 23 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड बिनौरी के मुनारा क्रमांक 23 से संरक्षित वनखंड पहाड़ी के मुनारा क्रमांक 37 तक की वन सीमा।</p> <p>पश्चिम - संरक्षित वनखंड पहाड़ी के मुनारा क्रमांक 37 से 35 तक एवं मुनारा क्रमांक 35 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड बिनौरी के मुनारा क्रमांक 34/1 तक की वन</p>
				योग	8.24	सीमा।

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB-022/2022/BHO दिनांक 21.10.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई जबलपुर की स्वीकृत परियोजना सिवनी जिले के उत्तर वनमंडल सिवनी में पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.1187 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.24 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.24 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में तहसीलदार, घंसौर जिला सिवनी आदेश क्रमांक/53/बी-121/2020-21 दिनांक 24.02.2022 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - नहीं।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार घंसौर जिला सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 53/बी-121/2020-21 दिनांक 24.02.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1) व्यक्तिगत अधिकार - निरंक

(2) सामुदायिक अधिकार - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र.62-2025-दस(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 62-2025-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Seoni

Forest Division - North Seoni

Tahsil - Ghansor

Forest Range - Ghansor

S. N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of proposed forest block	Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Binauri	Binauri	Govt.	360/2 (s)	8.24	North- Artificial Forest boundary from Pillar No. 34/1 of proposed protected forest block, which is situated between Pillar No. 34 and 35 of protected forest block Pahari to Pillar No. 1 and 6 of proposed protected forest block. East- Artificial Forest boundary from Pillar No. 6 to 23 of proposed protected forest block Binauri. South - Forest boundary from Pillar No. 23 of proposed protected forest block Binouri to Pillar No. 37 of protected forest block Pahari. West - Forest boundary from Pillar No. 37 to 35 of protected forest block Pahari to Pillar No. 34/1 proposed protected forest block Binouri.
Total :-					8.24	

A. Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6MPB-022/2022/BHO dated 21-10-2023 and in lieu of 4.1187 hectare of affected forest land for laying of pipe line under the Payli Rural Group Water Supply Scheme in North Seoni forest division of General Manager, Madhya Pradesh Jal Nigam Limited, Project Implementation Unit, Jabalpur, the above mentioned Revenue Forest Land of 8.24 hectare transferred or mutated in favor of Government of Madhya Pradesh, Forest Department by order no. 53/B-121/2020-21 dated 24/02/2022 of Tehsildar, Ghansor, District- Seoni for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 53/B-121/2020-21 dated 24/02/2022 of Tehsildar, Ghansor, Dist- Seoni are as under :-

(1) Rights of individuals - Nil

(2) Rights of Communities - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N 24°13'55" से N 24°14'32.9" उत्तर अक्षांश तथा E 75°40'58" से E 75°41'55.9" पूर्व देशांश के मध्य स्थित हैं, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरोठ को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला :- मन्दसौर

तहसील :- शामगढ

वनमंडल :- मन्दसौर

वनपरिक्षेत्र :- गरोठ

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि हैं तो उसका मद	यदि संरक्षित वन हैं तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	हनुमंतिया	35	हनुमंतिया	263/1 461/1 514/1 515/1पे 515/1पे 515/2	263/1 461/1 514/1 515/1पे 515/1पे 515/2	5.190 3.900 18.880 13.780 32.400 21.232	-	एफ 25 -24 /2016/ 10- 3 दि० 25.4.16	13.05.2016	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड हनुमंतिया के मुनारा क्र. 02 से 10 तक की संरक्षित वन सीमा पूर्व - संरक्षित वनखण्ड हनुमंतिया के मुनारा क्र. 10 से 25 तक की

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										संरक्षित वन सीमा दक्षिण संरक्षित वनखण्ड हनुमंतिया के मुनारा क्र. 25 से 31 तक की संरक्षित वन सीमा पश्चिम संरक्षित वनखण्ड हनुमंतिया के मुनारा क्र. 31 से 02 तक की संरक्षित वन सीमा
योग						95.382				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र. 63-2025-दस(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0004-2025-Sec-3-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 4 of The Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby :- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N24°13'55" to N24°14'32.9" North Latitude and E75°40'58" to E75°41'55.9" East Longitude specified in the.

(B) appoints Sub Divisional Officer (Revenue) Garoth to perform the duties of the forest settlement officer under the said Act.

SCHEDULEDistrict :- **Mandsour**Tehsil :- **Shamgarh**Forest Division :- **Mandsour**Forest Range :- **Garoth**

No.	Proposed RF Forest Block	Patwar Halka No.	Village/ P F Block	Khasra		Area (Hect.)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Hanumantiya	35	Hanumantiya	263/1 461/1 514/1 515/1 Pe 515/1 Pe 515/	263/1 461/1 514/1 515/1 Pe 515/1 Pe 515/	5.190 3.900 18.880 13.780 32.400 21.232	-	F 25-24/2016/ 10-3 Date 25-4-16	13-05-2016	North- Protected Forest Boundary From Pillar No. 02 to 10 of Protected forest Block Hanumantiya. East- Protected Forest Boundary From Pillar No. 10 to 25 of Protected forest Block Hanumantiya. South- Protected Forest Boundary From Pillar No. 25 to 31 of Protected forest Block Hanumantiya. West- Protected Forest Boundary From Pillar No. 31 to 02 of Protected forest Block Hanumantiya.
Total						95.382				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल -पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल

तहसील - भीमपुर

वन परिक्षेत्र -तावड़ी

क्र.	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सिंगारचावड़ी (अ)	सिंगारचावड़ी	बड़े झाड़ का जंगल	1/1/1	25.00	उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से मुनारा क्र. 39 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 39 से मुनारा क्र. 4 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.4 से मुनारा क्र. 22 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से मुनारा क्र. 25 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग				01	25.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./ 8-227/89/एफ.सी दिनांक 06/08/1990 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग सीहोर की स्वीकृत सिहोर जिले के रामपुराखुर्द (मध्यम) सिंचाई परियोजना के निर्माणार्थ संरक्षित वनभूमि व्यपर्वतन के प्रकरण में प्रभावित 286.570 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 55.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर, बैतूलके आदेश क्रमांक 22 /अ-19 (3)/2018-19/439 दिनांक 15/01/2019 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार भीमपुर के प्रतिवेदन क्रमांक 638 (1) दिनांक 25/04/2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र.64-2025-दा(FOR) :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. -FOR-9-0004-2025-Sec-3-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Betul

Tehsil Bhimpur

Forest Division - West Betul(T) Division

Forest Range - Taodi(T)

S. No.	Name of proposed Forest Block	Details of land Included				Area (Hec.)	Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Singarchavadi (A)	Singarchavadi	Big Tree Forest	1/1/1	25.00	North- Artificial Forest boundary From Pillar No. 25 to Pillar No. 39 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest boundary From Pillar No. 39 to Pillar No. 4 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest boundary From Pillar No. 4 to Pillar No. 22 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest boundary From Pillar No. 22 to Pillar No. 25 of Proposed Protected Forest Block.	
Total					25.00		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No. 8-227/89/F.C. dated 06/08/1990 And in lieu of 286.570 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer, Water Resources Department Division sehore of RampuraKhurd (Medium) Irrigation Project the above mentioned Non Forest Land of 25.000 Hectare transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.22/A-19(3)2018-19/439 dated 15/01/2019 of Collector Betul the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 638(i) Dated 25/04/2019 of Tahsildar Bhimpur are as under.

(A) Rights of individuals :- There are no Individual right on the said land.

(B) Rights of communities:- There are no Communities right on the said land

Therefor, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बैतूल

तहसील - भीमपुर

वनमंडल -पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल

वन परिक्षेत्र -तावड़ी

क्र.

वनखंड की भूमि का विवरण

वनखंड की सीमाएं

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्ट.)

1

2

3

4

5

6

7

1

सिंगारचावडी (ब)

सिंगारचावडी

बड़े झाड का जंगल

60/1

20.00

उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से मुनारा क्र. 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 4 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से मुनारा क्र. 20 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 20 से मुनारा क्र. 23 तक कृत्रिम वन सीमा।

योग

01

20.00

(अ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./ 8-227/89/एफ.सी दिनांक 06/08/1990 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग सीहोर की स्वीकृत सिहोर जिले के रामपुराखुर्द (मध्यम) सिंचाई परियोजना के निर्माणार्थ संरक्षित वनभूमि व्यवर्तन के प्रकरण में प्रभावित 286.570 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 55.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर, बैतूल के आदेश क्रमांक 22/अ-19 (3)/2018-19/439 दिनांक 15/01/2019 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार भीमपुर (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 638 (1) दिनांक 25/04/2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र.64-2025-दस(FOR) :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0004-2025-Sec-3-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Betul		Tehsil -Bhimpur				
Forest Division - West Betul(T) Division		Forest Range - Taodi(T)				
S. No.	Name of proposed Forest Block	Name of Village	Details of land Included Present head of land	Khasra No.	Area (Hec)	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	Singarchavadi (B)	Singarchavadi	Big Tree Forest	60/1	20.00	North- Artificial Forest boundary From Pillar No. 23 to Pillar No. 1 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest boundary From Pillar No. 1 to Pillar No. 4 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest boundary From Pillar No. 4 to Pillar No. 20 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest boundary From Pillar No. 20 to Pillar No. 23 of Proposed Protected Forest Block.
Total				01	20.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No. 8-227/89/F.C. dated 06/08/1990 And in lieu of 286.570 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer, Water Resources Department Division sehore of RampuraKhurd(Medium) Irrigation Project the above mentioned Non Forest Land of 20.000 Hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.22/A-19(3)2018-19/439 dated 15/01/2019 of Collector Betul the purpose of compensatory afforestation.

2 Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 638(3) Dated 25/04/2019 of Tahsildar Bhimpur (Designation of Competent Revenue officer) are as under:-

(A) Rights of individuals :- There are no Individual right on the said land.

(B) Rights of communities :- There are no Communities right on the said land

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बैतूल		तहसील - भीमपुर	
वनमंडल -पश्चिम बैतूल (सा.)	वनमंडल	वन परिक्षेत्र -तावड़ी	वनखंड की सीमाएं
क्र.	वनखंड की भूमि का विवरण	क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मूल
2	सिंगारचावडी (स)	सिंगारचावडी	बड़े झाड़ का जंगल
3			खसरा क्रमांक
4			क्षेत्रफल (हेक्ट.)
5			उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 2 से मुनारा क्र. 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
6			पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 3 तक कृत्रिम वन सीमा।
7			दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से मुनारा क्र. 14 तक कृत्रिम वन सीमा।
			पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 4 से मुनारा क्र. 2 2 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग		01	10.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./ 8-227/89/एफ.सी दिनांक 06/08/1990 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग सीहोर की स्वीकृत सिहोर जिले के रामपुराखुर्द (मध्यम) सिंचाई परियोजना के निर्माणार्थ संरक्षित वनभूमि व्यपर्वलन के प्रकरण में प्रभावित 286.570 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 55.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर, बैतूल के आदेश क्रमांक 22 /अ-19 (3)/2018-19/439 दिनांक 15/01/2019 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के करण ।

2. अन्य करणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार भीमपुर (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 638 (1) दिनांक 25/04/2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विसृत विवरण निम्नानुसार है -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र.64-2025-दस(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0004-2025-Sec-3-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Betul **Tehsil - Bhimpur**
Forest Division - West Betul(T) Division **Forest Range - Taodi(T)**

S. No.	Name of proposed Forest Block	Name of Village	Details of land Included Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	Singarchavadi (C)	Singarchavadi	Big Tree Forest	49/1/1	10.000	North- Artificial Forest boundary From Pillar No. 22 to Pillar No. 1 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest boundary From Pillar No. 1 to Pillar No. 3 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest boundary From Pillar No. 3 to Pillar No. 14 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to Pillar No. 22 of Proposed Protected Forest Block.
Total				01	10.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No. 8-227/89/F.C. dated 06/08/1990 And in lieu of 286.570 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer, Water Resources Department Division sehore of RampuraKhurd(Medium) Irrigation Project the above mentioned Non Forest Land of 10-000 Hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.22/A-19(3)2018-19/439 dated 15/01/2019 of Collector Betul the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 638(2) Dated 25/04/2019 of Tahsildar Bhimpur are as under.

(A) Rights of individuals :- There are no Individual right on the said land.

(B) Rights of communities :- There are no Communities right on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बैतूल		वनखंड की भूमि का विवरण				तहसील - चिचोली	
वनखंड - पश्चिम बैतूल (सा.) वनखंडल						वनपरिक्षेत्र - चिचोली	
क्र.						वनखंड की सीमाएं	
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्ट.)			
1	2	3	4	5	6	7	
1	बिघवा	बिघवा	बड़े झाड का जंगल	285	20.00	उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 4 से मुनारा क्र. 1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 4 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से मुनारा क्र. 10 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से मुनारा क्र. 14 तक कृत्रिम वन सीमा।	
योग				01	20.00		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./ 8-643/85/FRY(CONS) दिनांक 31/05/1985 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग भोपाल की सिहोर एवं भोपाल जिले के कोलार वाटर के मध्य निर्माणार्थ संरक्षित वनभूमि व्यपर्वतन के प्रकरण में प्रभावित 2810.25 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर, बैतूल के आदेश क्रमांक 24 /अ-19 (3)/2018-19/441 दिनांक 15/01/2019 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के करण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार चिचोली (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 492 दिनांक 04/06/2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र.64-2025-दस(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-FOR-9-0004-2025-Sec-3-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Betul

Tehsil - Chicholi

Forest Division - West Betul(T) Division

Forest Range -Chicholi(T)

S. No.	Name of proposed Forest Block	Name of Village	Details of land Included			Forest Block Boundaries
			Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bighwa	Bighwa	Big Tree Forest	285	20.00	<p>North- Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to Pillar No. 1 of Proposed Protected Forest Block.</p> <p>East- Artificial Forest boundary From Pillar No. 1 to Pillar No. 4 of Proposed Protected Forest Block.</p> <p>South- Artificial Forest boundary From Pillar No. 4 to Pillar No. 10 of Proposed Protected Forest Block.</p> <p>West- Artificial Forest boundary From Pillar No. 10 to Pillar No. 14 of Proposed Protected Forest Block.</p>
Total				01	20.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No. letter No.lb8-643/84-F.R.Y(C.O.N.S) dated 31/05/1985 in lieu of 2810.25 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer , water resources department Division Sehore and Bhopal of Kolar water(Medium) irrigation project the above mentioned Non Forest land of 20.000 Hectare transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.23/A-19(3)/2018-19/440 dated 15/01/2019 of Collector Betul the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 492 Dated 04/06/2019 of Tahsildar Chicholi (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

(A) Rights of individuals :- There are no Individual right on the said land.

(B) Rights of communities :- There are no Communities right on the said land

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक/FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल -पश्चिम बैतूल(सा.) वनमंडल

तहसील - चिचोली

वन परिक्षेत्र - चिचोली

क्र.	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	जोगली	जोगली	बड़े झाड का जंगल	765	25.00	उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 9 से मुनारा क्र. 1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 12 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 2 से मुनारा क्र. 1 6 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 16 से मुनारा क्र. 19 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग				01	25.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./ 8-643/85/FRY(CONS) दिनांक 31/05/1985 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग भोपाल की सिहोर एवं भोपाल जिले के कोलार वाटर के मध्य निर्माणार्थ संरक्षित वनभूमि व्यपर्वतन के प्रकरण में प्रभावित 2810.25 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति यनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर, बैतूल के आदेश क्रमांक 24/अ-19(3)/2018-19/441 दिनांक 15/01/2019 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार चिचोली (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 492 दिनांक 04/06/2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विसृज्त् विवरण निम्नानुसार है

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र.64-2025-दस(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र-FOR-9-0004-2025-Sec-3-दस(FOR) दिनांक 20 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 20th January, 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Betul

Tehsil - Chicholi

Forest Division - West Betul(T) Division

Forest Range - Chicholi(T)

S. No.	Name of proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jogli	Jogli	Big Tree Forest	765	25.00	North- Artificial Forest boundary From Pillar No. 19 to Pillar No. 1 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest boundary From Pillar No. 1 to Pillar No. 12 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest boundary From Pillar No. 12 to Pillar No. 16 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest boundary From Pillar No. 16 to Pillar No. 19 of Proposed Protected Forest Block.
Total				01	25.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India New Delhi order No. Ib.8-643/84-F.R.Y(C.O.N.S) dated 31/05/1985 and in lieu of 2810.25 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer , water resources department Division Bhopal of Kolar water(Medium) irrigation project the above mentioned Non Forest land of the 25.00 Hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government., Forest Department by order No.23/A-19(3)2018-19/440 dated 15/01/2019 of Collector Betul the purpose of compensatory afforestation .
- Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 494 Dated 04/06/2019 of Tahsildar Chicholi (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

A. Rights of individuals :- There are no Individual right on the said land.

B. Rights of communities:- There are no Communities right on the said land

Therefor, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्रमांक/क्रमांक: 69/2025/PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-रीवा

वनमण्डल-रीवा

तहसील-त्योंथर

वन परिक्षेत्र सिरमौर

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	जनकहई	जनकहई	शासकीय राजस्व भूमि	831/2/2 765/2	3.132 3.000	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से आरक्षित वनखण्ड गोड़ापहाड़ के मुनारा क्रमांक 46/2 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड गोड़ापहाड़ के मुनारा क्रमांक 46/2 से 45/1 तक वनसीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड गोड़ापहाड़ के मुनारा क्रमांक 45/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वनसीमा।
योग:-					6.132	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.आर. 019/2022-BHO

दिनांक 31.03.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ.स.) सम्भाग क्रमांक 1, रीवा मध्य प्रदेश शासन को क्यौंटी-जनकहाई (पनियारी घाट) मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.132 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.132 हे. गैर वनभूमि उपरोक्त वर्णित भूमि 6.132 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर रीवा का मामला क्रमांक 13/अ-74/मूल/2023-24 पारित आदेश दिनांक 12.09.2023 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कार्रणों का विवरण - क्यौंटी-जनकहाई (पनियारी घाट) मार्ग परियोजना के संबंध में प्रभावित वनभूमि 6.132 हेक्टेयर के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम जनकहाई के खसरा नम्बर 831/2/2 रकबा 3.132 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 765/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर कुल 6.132 हेक्टेयर राजस्व भूमि प्रदाय की गई है।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अनुविभाग त्योथर जिला रीवा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्र.69-2025-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-69-2025-PCCF दिनांक 22 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 22nd January, 2025

No./क्रमांक: 69/2025/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas. Specified in the schedule below, Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that state Government from time to time.

SCHEDULE**District -REWA****Forest Division -REWA****Tehsil -Teonthar****Forest Range - SIRMOUR**

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Janakahai	Janakahai	Govt. Revenue Land	831/2/2	3.132	North- The boundary of proposed Protected forest block Pillar no. 1 to 3. East - The proposed forest boundary of proposed Protected forest block Pillar no. 3 upto Reserved Forest block Gondapahad Pillar no 46/2. South- The forest boundary of Reserved Forest block Gondapahad Pillar no 46/2 to 45/1. West- The forest boundary of Reserved Forest block Gonadpahad Pillar no. 45/1 to proposed Protected forest block Pillar no. 1.
				765/2	3.000	
				Total	6.132	

A. Reason for Publication of Notification :-

1 - In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPR 019/2022-BHO Dated 31-03-2023 and in lieu of 6.132 hectare out of 6.132 hectare sanctioned. Affected forest land under the sanctioned project of Executive (Engineer, Public Works Division No. 1) in Rewa District of Madhya Pradesh, the above mentioned Non Forest Land of 6.132 Hectare Transferred or muted in favor of m.p. forest Department by order no. 13/A-74/MUL/2023-24 Date 12-09-2023 Collector Rewa for the Purpose of Compensatory afforestation.

2- **Detail of other Reasons** - In Lieu of 6.132 Ha affected forest land by Keoti-Janakahai Road (Paniyari Ghat) Project Received Non Forest Land in Village Janakahai Khasra No 831/2/2 area 3.132 Ha and Khasra No 765/2 area 3.000 Ha Total Area 6.132 Ha .

The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Teonthar District Rewa are as Under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

1	सेमली से नेवा नलती मार्ग	FP/MP/ROA D/ 420872/2 023 Dated-1 2.11.2023	3.630	क्रमंक/3365/ रीडर/भूमि आंक्ट न/2023 बडवानी स.प्र.क्र.0070/अ- 20(3)/2022-23	सेमली	325	49.520	325/2(S)	26.700
2	पिपरकुण्ड- रेनकुफल्या से अमली मार्ग	FP/MP/ROA D/ 420818/2 023 Dated-2 6.04.2024	4.650						
3	केली से सु कलघाट उ मरवेडा मा र्ग	FP/MP/ROA D/ 421362/2 023 Dated-0 3.05.2024	4.840						
4	रामकोला से चाचरिय र्ग मार्ग	FP/MP/ROA D/ 421368/2 023 Dated-1 4.05.2024	4.430						
5	बोकराटा से खेतिया मार्ग से इ न्दलबारा देवगड मा जनी मार्ग	FP/MP/ROA D/ 420805/2 023 Dated-2 3.07.2024	3.750						
6	आमड़ीरी से शिवनि या मार्ग	FP/MP/ROA D/ 421848/2 023 Dated-1 1.11.2024	4.306						
		Total	25.606						

2. अन्य कारणां का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पाटी के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक
2. समुदायिक अधिकार-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्र.68-2025-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-68-2025-PCCF दिनांक 22 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 22nd January, 2025

No./क्रमांक: 68/2025/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals of communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District - Barwani****Tehsil - Pati****Forest Division- Barwani****Forest Range -****Pati**

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Semli	Village Semli (P.H.No.6)	Government Revenue land(Non-Forest Land)	325/2(S)	26.700	North-Artificial forest boundary form Pillar No. 1 to 5 of proposed protected forest block . East-Artificial forest boundary form Pillar No. 5 to 11 of proposed protected forest block. South-Artificial forest boundary from Pillar No. 11 to 24 of protected forest Block. West- Artificial forest boundary from Pillar No. 24 to 27 and Pillar No. 1 of proposed protected forest block.
				Total	26.700	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Bawani district, In the construction of the proposed roads by the Executive Engineer, Public Works Department Division Barwani, In lieu of the affected forest land, equivalent non-forest land is to be declared as protected forest due to being transferred or renamed in favour of the Forest Department, the details are as follows:-

S.N.	Project Name	Government of India sanctioned Number/ Dated	Affected Area	Order Number/Date Collector Sidhi	Village Name	Original khasra number	Superficie total de sarampionen hectare	Khasra Number emitido
1.	Semli to Newa Nalti Road	FP/MP/ROAD/420872/2023 Dated- 12.11.2023	3.630	RC.No.0070/A20(3)/2022-23) dated 23-05-2023	Semli	325	49.520	325/2(S)
2	Piparkund- Renkufaliya to Amli Road	FP/MP/ROAD/420818/2023 Dated- 26.04.2024	4.650					
3	Keli to Sukalghat Umarbeda Road	FP/MP/ROAD/421362/2023 Dated- 03.05.2024	4.840					
4	Ramkola to Chachriya Road	FP/MP/ROAD/421368/2023 Dated- 14.05.2024	4.430					
5	Bokrata to Khetiya Road Indalbada to Manjni Road	FP/MP/ROAD/420805/2023 Dated- 23.07.2024	3.750					
6	Amjhiri to Shivnya Road	FP/MP/ROAD/421848/2023 Dated- 11.11.2024	4.306					
		Total	25.606					

2. Details of Other Reason - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Pati are as under.

1. Individual Right - Nil
2. Community Rights -Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of India Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्रमांक/1/205059/2025 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - मण्डला

तहसील - बिछिया

वनमण्डल - पूर्व सामान्य वनमण्डल

वन परिक्षेत्र - बिछिया

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	भीमा	भीमा	घास चारागाह	121/2	5.70	उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
			योग	01	5.70	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निम्न प्रकरण:-

क्र.	ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक	प्रभावित वनभूमि	कलेक्टर का आदेश	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक
1	FP/MP/ROAD/143616/2021	5.70 हेक्टेयर	न्यायालय कलेक्टर मण्डला के आदेश क्रमांक 27(अ-20/3) 2021-22 दिनांक 27.09.2021 से 5.70 हेक्टेयर गैर वनभूमि प्रदाय की गई है।	26-06-2023

उक्त प्रकरण में सम्भागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास प्राधिकरण जबलपुर (म.प्र.) के मार्ग उन्नयन कार्य में प्रभावित 5.70 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.70 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर मण्डला के आदेश क्रमांक 27(अ-20/3)2021-22 दिनांक 27.09.2021 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया के प्रतिवेदन क्रमांक/1093/अ.वि.अ./प्रवा-2/2023 दिनांक 10.02.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसराचार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्र.-I-205059-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-I-205059-2025 दिनांक 22 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 22nd January, 2025

No./205059/2025 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

Schedule

District - **Mandla**

Tehsil - **Bichhiya**

Forest Division - **East (T) Forest Division, Mandla**

Forest Range - **Bichhiya**

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Bhima	Bhima	Grazing Grass	121/2	5.70	<p>North - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 1 to 7 of Proposed Forest Block.</p> <p>East - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 7 to 10 of Proposed Forest Block.</p> <p>South - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 10 to 13 of Proposed Forest Block.</p> <p>West - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 13 to 1 of Proposed Forest Block.</p>

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Govt. of India, Ministry of

Environment, Forest and Climate change :-

S.No.	Case No.	Affected Forest Land	Collector Order	Govt. of India Sanction
1	FP/MP/ROAD/143616/2021	5.70 Hectare	By Collector District Mandla Order No. 27(अ-20/3) 2021-22 dated 27-09-2021, 5.70 hectares of Non-Forest land has been provided	26-06-23

In lieu of 5.70 hectares affected forest land in above sanctioned case of Padmi-Ramnagar-Ghughri-Salwah Road Upgradation Project of Divisional Manager, M.P. Road Development Company Limited, Jabalpur. For Compensatory Afforestation 5.70 hectares of Non-Forest land has been transferred/muted in favour of Forest Department Madhya Pradesh vide Collector District Mandla Order No. 27(A-20/3)2021-22 dated 27-09-2021.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no./1093/अ.वि.अ./प्रवा-2/2023 dated 10-02-2023 of Competent Revenue Officer Tehsildar Bichhiya are as under :-

1. Individual Rights - There are no Individual Rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Community Rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्रमांक/1/205076/2025 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - गुना

तहसील - गुना

वनमंडल - गुना

वन परिक्षेत्र का नाम - गुना दक्षिण

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मूदा	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	ओखरीखेड़ा	ओखरीखेड़ा	शासकीय मध्यप्रदेश शासन	1/2/1 (भाग)	5.833	उत्तर- आरक्षित वन खण्ड बजरंगढ़ के मुनारा क्र. 308/1 से प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 1 एवं 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड ओखरीखेड़ा के नवीन स्थापित मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्र. 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड ओखरीखेड़ा के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4 एवं आरक्षित वन खण्ड बजरंगढ़ के मुनारा क्रमांक 309/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- आरक्षित वन खण्ड बजरंगढ़ के मुनारा क्रमांक 309/1 से मुनारा क्रमांक 309 एवं 308/1 तक की वन सीमा।
				1/1	0.961	
			योग	02	6.794	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. (क) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक (1) 6-एमपीबी 142/2008-बीएचओ/2722 दिनांक 10.11.2008 (2) 6-एमपीबी 140/2008-बीएचओ/2763 दिनांक 17.11.2008 एवं (3) क्रं/6-एमपीबी 057/2008-बीएचओ/730 दिनांक 22.09.2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना म.प्र.(आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना 1 सुआटोर से रेहपुरा मार्ग 2 करनावटा से सुआटोर मार्ग 3 बाराखम्भा से करनावटा मार्ग के मार्ग निर्माण हेतु (परियोजना का नाम) में प्रभावित क्रमशः 1.310, 3.918, 1.586 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.794 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/17/अ-19/2007-2008 दिनांक 04-02-2008 एवं आदेश क्रमांक 43/अ-19/2008-2007 दिनांक 04-06-2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - nil

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गुना (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक nil दिनांक 11.06.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्र.-I-205076-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-I-205076-2025 दिनांक 22 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 22nd January, 2025

Dated 22-01-2025

No./205076/2025 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Guna
Forest Division: - Guna

Tahsil :- Guna
Forest Range: - Guna South

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Okhri kheda	Okhrikheda	government land of MP Govt.	1/2/1(part) 1/1	5.833 0.961	North- From reserve forest block bajrangarh Munara no. 308/1 to munara no. 1 & up to munara no 2 of proposed Protected Forest Block.Okhrikheda Artificial forest line. East- From Munara NO. 2 to Munara no.3 in the proposed Protected Forest Block. Okhrikheda Artificial forest line. South- in the proposed Protected Forest Block. Okhrikheda Munara No. 3 to Munara No.4 & up to munara no 309/1 on exiting boundary of reserve forest block bajrangarh Artificial forest line. West- From Munara NO. 309/1 to munara no. 308/1 on exiting boundary of reserve forest block bajrangarh forest line.
				Total	6.794	

(A) Reason for publication of Notification

- (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest, and climate change , government of India, new delhi order No 6-MPB 142/2008-BHO/2722 dated 10.11.2028 and 6-MPB 140/2008-BHO/2763 dated 17.11.2008 and 6-MPB 057/2008-BHO/730 dated 22.09.2017 in lieu of 1.310 and 3.918 and 1.566 hectare Total 6.794 hectare of affected forest land under the sanctioned project of suator to rehpara, karnawta to suator and barakhambha to karnawta roads (Name of Project) of Madhya, Pradesh Gramin sadak vikas pradhikarna PIU Dist. Guna (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 6.794 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Guna order No-17/A-19/2007-2008 guna Date 04.02.2008 And order no. 43/A-19/2006-07 dzted 04-06-2007 6.794 hectare transferred or muted for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons- NIL

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated 11.06.2016 of Tehsildar Guna (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

- Individual Rights - NIL
- Community Rights - NIL

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian forest Act 1927

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. भू-अर्जन-2024-4232-प्र. क्र. 13-अ-82-2024-25.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्सन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन, से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम पिपलियाराघो	183	0.09
		पटवारी हल्का क्रमांक 25	196	0.08
			208/1	0.09
			257	0.07
			274	0.27
			289/1	0.02
			256	0.02
			277	0.01
			197/2	0.10
		कुल योग . .		

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. भू-अर्जन-2024-4233-प्र.क्र. 12-अ-82-24-25.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्सन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन, से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम कोकलाखेडी पटवारी	98/1	0.08
		हल्का क्रमांक 26	100/4	0.28
			98/4	0.05
			98/2	0.08
			100/1	0.03
कुल योग..				0.52

प्रारूप "घ"

[नियम 6 देखिए]

क्र. भू-अर्जन-2024-4226-प्र.क्र.10-अ-82-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-2024-25 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 द्वारा राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से ग्राम कसंगावदा तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपभोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 नवम्बर 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम जमालपुरा, पटवारी हल्का क्रमांक 26	314/1	0.65
कुल योग ..				0.65

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 जनवरी 2025

प.क्र. 73- भू-अर्जन-2025.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन - (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील - बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम - ऐंझी

(घ) क्षेत्रफल - 0.0310 हेक्टेयर

खसरा क्र.	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
156/2/3	0.0310	—
योग ..		0.0310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-173-भू-अर्जन-प्र.क्र.0001-अ-82-2024-25

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी, 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस अनुसूची के खाने (1) से (7) वर्णित भूमि को उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है। म.प्र. शासन कि आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना क. एफ-12-2-2014- सात-2-1 दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 14.11.2014 कि कंडिका 11(1) के अनुसार 07 दिवस की अवधि में अपनी अपत्ति अधौहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है, इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि ऐसी भूमि धारक (1) मुकेश भारती पिता शंकर भारती (2) यशोदा बाई पति रमेश (3) गोपालदास पिता पारूलम। सभी निवासी ग्राम-लम्हेटा। कुल 09 भूमि धारको में से 03 भू धारको की सहमति एवं शासकीय आबादी भूमि खसरा नं. 25 एवं 167 की भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के स्वामी (1) किशन पिता नोखेलाल यादव (2) महेशपुरी पिता दयापुरी गोस्वामी (3) ईश्वरपुरी पिता शिवपुरी गोस्वामी (4) जितेन्द्र,ओमकार,विमला,रमेश पिता छकोडी (5) रामबाई पति गंगाराम (6) मुकेश भारती पिता शंकर भारती सभी हितग्राही मौजा लम्हेटा के निवासी है। कुल 14 परिसम्पत्ति धारको में से 06 की सहमति प्राप्त होने से लम्हेटा केबल स्टे ब्रिज का निर्माण हेतु भू-अर्जन आपसी कय नीति प्रकरण के तहत लम्बाई 936 मी. निर्माण के लिये राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत भूमि का कय मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर के नाम से संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग (पुल) उपसंभाग कं.-1 जबलपुर के द्वारा कय किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि में उचित दस्तावेजों सहित अधौहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति 07 दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (पुल) उपसंभाग कं.-1 जबलपुर, द्वारा जबलपुर लम्हेटा केबल स्टे ब्रिज निर्माण किये जाने भू-अर्जन हेतु ग्राम लम्हेटा तहसील गोरखपुर जिला जबलपुर के अंतर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है।

अनुसूची

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण
 ग्राम-लम्हेटा प.ह.न. 12 रा.नि.मं.- गोरखपुर
 तहसील- गोरखपुर, जिला-जबलपुर (क्षेत्रफल- 0.3301 वर्गमीटर (0.3301)
 में से 0.1511 हेक्ट.

क्रं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा वर्ग मी	भैतिक संरचना / अन्य संपत्ति	"ख" प्रपत्र में सहमति या असहमति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मुकेश भारती पिता शंकर भारती	166 / 1	0.040	0.0075	-	सहमति प्राप्त
2	यशोदा बाई पति रमेश	184 / 1	0.022	0.0081	-	सहमति प्राप्त
3	गोपालदास पिता पारूलम	184 / 3	0.200	0.0389	-	सहमति प्राप्त
		184 / 2	0.200	0.0461	-	
		185	0.150	0.0505	-	
	कुल	5	0.689	0.1511		

शासकीय आबादी भूमि पर बनी परिसंपत्तियों का विवरण

क्रं.	शासकीय आबादी भूमि पर परिसंपत्ति स्वामी का नाम	भूमि की जानकारी	"ख" प्रपत्र में सहमति या असहमति का विवरण
1	(7) किशन लाल / नोखेलाल यादव (A) 11.00 X 3.00 M , कच्चा मकान (B) 6.5 X 1.30 M , बाउंड्री वॉल	खसरा नं.- 25 रकबा - 1.13 हेक्ट. मद आबादी	सहमति प्राप्त
2	3) महेश पूरी गोस्वामी पिता गयापुरी गोस्वामी (A) 5.00 M X 7.00 M X 3.5 M , कच्चा मकान	खसरा नं.- 25 रकबा - 1.13 हेक्ट. मद आबादी	सहमति प्राप्त

	(B) 9.00 M X 3.70 M , बाउंड्री वॉल		
3	1)इसवार पूरी गोस्वामी पिता शिवपुरी गोस्वामी (A) 3.40 MX 4.00X3.33 ,RCCपक्की दुकान (B)7.00 X 1.00 M , वाउन्ड्री वॉल	खसरा नं.- 25 रकबा - 1.13 हेक्ट. मद आबादी	सहमति प्राप्त
4	(8) जितेंद्र ओमप्रकाश विमला रमेश दुबे पिता छकोडी प्रसाद दुबे 11.70 M X 11.50 M ,अर्धपक्का मकान	खसरा नं.- 167 रकबा - 1.30 हेक्ट. मद आबादी	सहमति प्राप्त
5	(7) राम बाई पति गंगाराम दुबे 5.70 M X 4.50 M ,कच्चा मकान	खसरा नं.- 167 रकबा - 1.30 हेक्ट. मद आबादी	सहमति प्राप्त
	5) राम बाई पति गंगाराम दुबे (A) 7.10 M X 10.00 M RCC , पक्का मकान (B) 3.00 M X 10.00 M RCC , पक्की दुकान (C) 9.50 M 13.00 M RCC , पक्का मकान	खसरा नं.- 167 रकबा - 1.30 हेक्ट. मद आबादी	सहमति प्राप्त
6	(2)मुकेश भारती पिता शंकर भारती (A) 8.20 M X 8.00 M , RCC मकान (B) 4.50 M X 3.00 M , कच्ची दुकान	खसरा नं.- 167 रकबा - 1.30 हेक्ट. मद आबादी	सहमति प्राप्त

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी (गोरखपुर) तहसील- गोरखपुर जिला- जबलपुर के कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (पुल) उपसंभाग कं. -01 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-0005-अ-82-2023-24-चिखल्दा खुर्द-11999

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	शाहपुर	चिखल्दा खुर्द	0.934 हे.	इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण, देवनारायण, जीवनलाल पिता बाबूलाल, प्रेमवती, मीरा, गीता पुत्री बाबूलाल	92/1	0.091	0.010
2	कैलाश पिता शंकरलाल	94/1	0.111	0.063
3		96/1	1.005	0.100
4	सूर्यकांत पिता मिश्रीलाल	116/1	2.902	0.022
5	संगीता पत्नी सुनील सलाम	118/1	0.228	0.011
6	लुथिया बाई बेवा भैयालाल, इद्रवती, उर्मिला पिता भैयालाल	120/1	0.073	0.015

7	प्रहलाद पिता बालमुकुंद, रज्जो, मर्रा, जयवती पुत्री बालमुकुंद	121/1/1	0.495	0.042
8	अज्जादी बेवा मुकुंदी महेश, दिनेश पिता मुकुंदी, सुशीला पुत्री मुकुंदी	121/2/1	0.495	0.042
9	सेवकराम पिता नानकराम, आशा पुत्री नानकराम, सुरज, पिता कांतीलाल, मोहनी पिता कांतीलाल	132/2/1	0.196	0.031
10	भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण, देवनारायण,	132/1/2	0.073	0.073
11	जीवनलाल पिता बाबूलाल, प्रेमवती, मीरा, गीता पुत्री बाबूलाल	132/1/1	0.024	0.023
12	अरुण कुमार पिता चंद्रगोपाल	133	0.271	0.045
13	यशोदा बेवा श्रीराम, भूरी, दुर्गा प्रियंका पुत्री श्रीराम	131/6	1.136	0.026
14	गणेश पिता रामप्रसाद	131/7	1.137	0.027
15	मथुराबाई पिता काशीराम	135/3	0.405	0.036
16	कौशल्य पति दशरथ	134	0.539	0.368
कुल योग			9.181	0.934

(2) चूंकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-05-अ-82-2024-25-मालापुर-12001

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	मालापुर	2.425 हे.	गढ़ा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र एवं निर्माण हेतु निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	शिवपाल पिता भादया कुन्बी सा. कुम्हारिया	13/1	0.268	0.121
2	दयाराम पिता तुलसीराम, काशीबाई बेवा तुलसीराम, जयराम, शिवपाल पिता तुलसीराम, फूलवती पुत्री तुलसीराम, अनिता पुत्री रामपाल, ताराबाई बेवा रामपाल, तारेन्द्र, अरुण पिता रामपाल, सावित्री, सुभद्रा, बंदना पुत्री रामपाल, अविनाश पिता मुन्नालाल कुन्बी सा. कुम्हारिया	55/2/1/1	0.203	0.203
3	गुरुदयाल पिता भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया	56/2/1	0.020	0.020
4	जैयवन्ती पिता गुरुदयाल, नितेश पिता गोकुल, सुदामा, नकुल पिता गुरुदयाल, रामबाई बेवा गोकुल, रूपेश पिता गोकुल, अनिता पिता गोकुल, अंगद पिता भारत, दुर्गा पुत्री भारत नाई सा. कोदारोटी	65/1	2.000	2.000
5	गोमा, रामा, छोटू पिता मंगरू, मीराबाई बेवा नानहू कुन्बी सा. कुम्हारिया	42/4/1	2.667	0.041
6	हीरू उर्फ हीराचंद पिता रामदास, रघुनाथ पिता रामदास सा. कुम्हारिया	13/2	0.202	0.040
	योग	6	5.360	2.425

(2) चूंकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं ब्रिज निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0009-अ-82-2021-22-बिसनूर-74

बैतूल, दिनांक 2 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पट्टन	बिसनूर	3.100 हे.	पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची- 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख .नं.	कुल रकबा (.मे.हे)	अर्जित रकबा (में.हे)
1	2	3	4	5
1	कांती पति कुंवरलाल, लता, प्रेमलता, स्नेहलता पिता कुंवरलाल किराड सा.पचधार	16/3	0.405	0.390
2	लक्ष्मीनारायण पिता कुंवरलाल जाति किराड सा.पचधार	16/1	1.740	0.080
3	रामेश्वर वल्द दशरथ किराड सा. पचधार	17/3	1.376	0.420
4	बुधराव पिता दादू गज्जू बे. दादू मनु, शीला, लीला पिता दादू सा.देह	575/4	1.720	0.080
5	कला पिता नामदेव सा. देह	575/5	1.315	0.060
6	गेन्दु पिता सखाराम, गोपाल, नागोराव पिता	577/2	3.077	0.450
	मिठू, फुला पिता मिठू तारा बेवा मिठू, जोगीराम,	577/1/1	1.675	0.550
	गोधी पिता सद्दू, रामदयाल पिता मारोती, कमला	577/1/2	1.675	0.210
	पिता मारोती, भभीचंद पिता भद्दू, मुन्नी पिता	577/1/3	1.675	0.300
	भद्दू, रामरती बेवा इठोबा, देवीलाल, मनोज पिता	577/1/4	1.675	0.030
	इठोबा, कमला उर्फ विमला, संगीता उर्फ वंदना पिता इठोबा किराड सा.पचधार	577/1/5	1.676	0.310
		578/2	1.215	0.180
		578/1/3	2.142	0.040
योग		13	21.366	3.100

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना हेतु से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-11-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-बरखेड़ा-454

बैतूल, दिनांक 10 जनवरी 2025

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	बरखेड़ा	0.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	घाटबिरोली लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पंढरीदेव मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
1	पिरम उर्फ प्रेमलाल पुत्र टुटकू जाति नाई नि. बरखेड़ा	634/1	0.808	0.150
2	गहना उर्फ रामरती पिता घुसी, लंकी पिता घुसी जाति पवार निवासी बरखेड़ा	634/2	1.500	0.270
3	गुलाबराव पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़ा	634/3	0.269	0.070
4	गोपाल पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़ा	634/4	0.269	0.080
5	सन्तोष पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़ा	634/5	0.270	0.090
6	नन्धू पिता टाटरू नि. बरखेड़ा	637/1	1.289	0.060
7	चिन्धी बेवा कुंवरलाल, संतोष, अनिल, अशोक पिता कुंवरलाल, सविता, गीता, बबली पिता कुंवरलाल नि. बरखेड़ा	633/1	0.607	0.100
8	गंगाराम पिता बिरज नि. बरखेड़ा	633/2	0.607	0.100
	योग	8	5.619	0.920

1 - चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घाटबिरोली लघु जलाशय परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प.क्र.-1012-भू-अर्जन-2024

रीवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम-अमिलिया, राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर, पटवारी हल्का-अमिलिया, तहसील-त्योथर, जिला-रीवा, रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला - रीवा (म.प्र.) (ख) तहसील - त्योथर
(ग) नगर/ग्राम - अमिलिया (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.352 हेक्टेयर

क्र.	खसरा नं.	खसरा एवं रकवा का विवरण भूमि स्वामियों का नाम	अर्जित रकवा (हे. मे)
1	100/1	शकुंतला बेवा आनंद प्रसाद, हरिदर्शन प्रसाद पिता आनंद प्रसाद	0.060
2	100/2	चन्द्रभूषण पिता रंगदास	0.060
3	99/1	ललित कुमार पिता नवलकिशोर, शुभम कुमार पिता नवलकिशोर, गायत्रीदेवी पति नवलकिशोर, कमला पति कौशल किशोर, रामायण पिता कौशल किशोर, रवीन्द्र प्रसाद पिता कौशल किशोर, अरुणेन्द्र प्रसाद पिता कौशल किशोर, मूलचन्द्र पिता जगदीश प्रसाद, विमलचन्द्र पिता जगदीश प्रसाद, कलावती पति जगदीश प्रसाद	0.172
4	98	ललित कुमार पिता नवलकिशोर, शुभम कुमार पिता नवलकिशोर नावली मां गायत्री देवी, मु. गायत्रीदेवी पति नवलकिशोर, मु. कमला देवी पति कौशलकिशोर, रामायण प्रसाद, रविनेन्द्र प्रसाद, अरुणेन्द्र प्रसाद पिता कौशल किशोर, कलावती पति भैयालाल, मूलचन्द्र, विमलचन्द्र पिता भैयालाल, निर्मला देवी पिता भगौती प्रसाद	0.060
कुल योग 04 किता			0.352 हे.

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 01-अ-82-2024-25

राजगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2025

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-सड़ली के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-सड़ली

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		रकबा	(3)
(1)	(2)		
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-सड़ली की शेष भूमि की आवश्यकता।	1.124	
	कुल योग :	1.124	

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	विरेंद्रसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुजर पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	156/1/3	0.253	0.062
		कुल 1 किता	0.253	0.062
2	रोडजी पिता मोहनलाल जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	55/1	0.268	0.013
		कुल 1 किता	0.268	0.013
3	मथुरालाल पिता रामचरण जाति लोधा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	54/2	0.253	0.025
		कुल 1 किता	0.253	0.025
4	पर्वतसिंह पिता रामचरण जाति लोधा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	54/3	0.253	0.069
		कुल 1 किता	0.253	0.069
5	धीरपसिंह पिता रामचरण जाति लोधा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	54/4	0.253	0.030
		कुल 1 किता	0.253	0.030

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
6	बीरमसिंह पिता खेमजी जाति सौधिया पता भंवास सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	53/2/1	0.253	0.013
		कुल 1 किता	0.253	0.013
7	रामचरण पिता परसराम हि. 1/3 भाग, रोशन पिता परसराम हि. 1/3 भाग, अमरसिंह पिता परसराम हि. 1/3 भाग, जाति लोदा पता सडली सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	51/1	0.678	0.072
		कुल 1 किता	0.678	0.072
8	विरेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुजर पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	156/1/2/2	2.276	0.120
		कुल 1 किता	2.276	0.120
9	मोडसिंह पिता दयाराम हिस्सा 1/2 भाग, भारतसिंह पिता अमरसिंह हिस्सा 1/8 भाग, रमेश पिता अमरसिंह हिस्सा 1/8 भाग, छोटिया पिता अमरसिंह हिस्सा 1/8 भाग, उमरावबाई बेवा अमरसिंह हिस्सा 1/8 भाग, जाति गुजर पता सडली सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	105/1	3.370	0.200
		कुल 1 किता	3.370	0.200
10	मोडसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	105/2	3.370	0.160
		कुल 1 किता	3.370	0.160
11	राजेन्द्र पिता नारायणसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	156/1/2/1	0.471	0.030
		कुल 1 किता	0.471	0.030
12	चन्द्रबाई पति फूलसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	156/2/3	0.726	0.230
		कुल 1 किता	0.726	0.230
13	रामकुंवरबाई पत्नी सूरजसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	156/2/4	0.726	0.100
		कुल 1 किता	0.726	0.100
	महायोग :-	कुल 13 किता	13.150	1.124

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 09-2024-25-अ-82-भू-अर्जन-सि.ला.था.क्वा-जौराखुर्द-267

मुरैना, दिनांक 8 जनवरी 2025

राज्य सरकार-समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम जौराखुर्द तहसील नगर मुरैना के परामर्श से निम्न भूमि का पुलिस थाना सिविल लाईन मुरैना के पीछे निर्मित शासकीय क्वाटरों से सम्बंधित निज स्वामित्व की भूमि हेतु स्थायी अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है अध्ययन के कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 03 एवं 04 के प्रावधानों एवं म0प्र0 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 03 (सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन) एवं 04 (सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये अधिसूचना) अनुसार किया जावेगा जिसका विवरण इस प्रकार है।

1	परियोजना विकासक का नाम	पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना।
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन के प्रयोजन	पुलिस थाना सिविल लाईन मुरैना के पीछे निर्मित शासकीय क्वाटरों से सम्बंधित निज स्वामित्व की भूमि
3	अध्ययन कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के दिवरण	1. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुरैना 2. उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुरैना अथवा (नामांकित अधिकारी) 3. आयुक्त नगर निगम मुरैना अथवा (नामांकित अधिकारी) 4. तहसीलदार (नगरीय) मुरैना 5. राजस्व निरीक्षक वृत्त जौराखुर्द तहसील मुरैना 6. मौजा पटवारी ग्राम जौराखुर्द 7. पार्षद वार्ड क्रमांक 09 नगर निगम मुरैना
4	भूमि का विवरण	खसरा न0 186/1 रकवा 0.062 हेक्टेयर
5	जिला	मुरैना
6	तहसील	मुरैना नगरीय
7	ग्राम	जौराखुर्द
8	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.062 हेक्टेयर
9	अर्जित होने वाले क्षेत्र	खसरा न0 186/1 रकवा 0.062 हेक्टेयर
10	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	पुलिस थाना सिविल लाईन मुरैना के पीछे निर्मित शासकीय क्वाटरों से सम्बंधित निज स्वामित्व की भूमि
11	परियोजना क्षेत्र और प्रस्तावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.062 हेक्टेयर
12	क्या ग्राम सभाओं या भूमि धारकों की सहमति अपेक्षित है	परामर्श से
13	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

अंकित अस्थाना, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प.क्र.-74-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 9 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013(क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (मोप्रशासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- कोटर

(ग) ग्राम :- कोटर

(घ) क्षेत्रफल :- 0.6480 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा क्र.	निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	3676 / 1	0.1730	
2	3679	0.0000	0.0100
3	3680 / 1 / 2	0.0640	
4	3680 / 2	0.1600	
5	3682	0.0780	
6	3684	0.0000	0.0100
7	3685	0.0000	0.0080
8	3694	0.0000	0.0080
9	3697 / 1 / 1	0.0940	
10	3698 / 1 / 1	0.0430	
	3698 / 1 / 2		
	3698 / 1 / 3		
	3698 / 1 / 3 / 1		
	3698 / 1 / 3 / 2		
	3698 / 1 / 3 / 3		
	3698 / 2 / 1		
	3698 / 2 / 2 / 1		
	3698 / 2 / 2 / 2		
	3698 / 3		
3698 / 4			
	3698 / 5 / 1		
	3698 / 5 / 2		
	3698 / 5 / 3		
	योग	0.6120	0.0360
	महायोग	0.6480	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-75-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013(क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- कोटर

(ग) ग्राम :- उमरी

(घ) क्षेत्रफल :- 2.6910 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा क्र.	निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	146	0.0830	
2	147/1/1	0.0000	0.5990
3	147/2/2	0.1580	
4	181/1/1	0.0200	
5	181/2	0.0410	
6	184/2	0.0520	
7	185	0.0000	0.0220
8	186	0.0180	
9	187/1	0.0060	
10	191/1/1	0.0190	
11	192/1/1	0.0180	
12	192/1/2	0.0170	
13	192/1/3	0.0170	
14	192/1/4	0.0170	
15	192/2	0.0180	

16	192/3	0.0180	
17	193/1/1	0.0370	
18	193/1/2	0.0370	
19	193/1/3	0.0370	
20	193/1/4	0.0370	
21	196/1/1	0.0350	
22	196/1/2	0.0360	
23	196/1/3	0.0350	
24	196/1/4	0.0360	
25	198/2	0.1360	
26	199/1/1	0.1460	
27	199/1/2	0.1470	
28	199/2	0.2110	
29	206/1	0.2850	
30	206/2	0.2110	
31	207	0.0000	0.0130
32	208	0.0000	0.0200
33	209/2	0.0020	
34	209/3/1/ 2	0.1070	
	योग	2.0370	0.6540
	महायोग	2.6910	

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवॉ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-76-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- गुढ़वा

(घ) क्षेत्रफल :- 0.1750 हेक्टेयर

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिदयत सकूनत	खसरा क्र.	निजी भूमि
1	सुग्रीव प्रसाद पिता काशीप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	13/1/3	0.1240
2	रामबल तनय जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	13/1/4	0.0100
3	जानकी बाई बेवा अवधेश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. झोंटा भूमि स्वामी सुखेन्द्र पिता अवधेशप्रसाद रंगलाल पिता अवधेश प्रसाद ,प्रमोद पिता अवधेश प्रसाद साधना पिता अवधेश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. झोंटा भूमि स्वामी	127/1/1	0.0110
4	राजाभइया पिता रामायण प्रसाद व रामायण प्रसाद पिता रामप्रसाद व रामभान पिता शिवप्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	237/3	0.0120
5	श्रीमती शान्ती पत्नी समयलाल जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	239/2/1	0.0120
6	मु. शीला बेवा दीनानाथ1/4, विजय पिता दीनानाथ 1/4,प्रियंका पिता दीनानाथ 1/4, अनामिका पिता दीनानाथ1/4 जाति ब्रा0 पता सा. देह	425	0.0060
योग रकबा हे0 मे			0.01750

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगर्वी शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-81-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 10 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- कोटर

(ग) ग्राम :- पटनाखुर्द

(घ) क्षेत्रफल :- 1.5350 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिदयत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	निकेतन गौतम पिता राजेश कुमार गौतम पता पटना खुर्द भूमि स्वामी	380/2	0.0160
2	निकेतन गौतम पिता राजेश कुमार गौतम पता पटना खुर्द भूमि स्वामी	381/2	0.0400
3	शिवदत्त पिता लक्ष्मीदीन तिवारी पता सा0 कलबलिया भूमि स्वामी	384/2	0.0580
4	चन्द्रवती पत्नी रामलाल तिवारी पता सा0 कलबलिया भूमि स्वामी 1/2 शिवकेश पिता रामलाल तिवारी सा0 कलबलिया भूमि स्वामी	384/3	0.0140
5	अम्बिका प्रसाद पिता बालकृष्ण ब्रा0 पता सा0 कलबलिया भूमि स्वामी	385/2	0.0240
6	अम्बिका प्रसाद पिता बालकृष्ण ब्रा0 पता सा0 कलबलिया भूमि स्वामी	387/1	0.0360
7	अम्बिका प्रसाद पिता बालकृष्ण ब्रा0 पता सा0 कलबलिया भूमि स्वामी	388/1	0.1040
8	शिवकुमार पिता सत्यनारायण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	391/1/2	0.0160
9	ददन प्रसाद पिता रामाधार बढई पता पटनाखुर्द भूमि स्वामी	392/1	0.0480
10	मोतीलाल पिता रामाधार बढई पता सा. देह भूमि स्वामी	392/2	0.0960
11	रामशरण पिता रामाधार बढई पता सा. देह भूमि स्वामी	392/3	0.0960
12	ददन प्रसाद पिता रामाधार बढई पता पटनाखुर्द भूमि स्वामी	392/4	0.0480
13	शान्ती बेवा रामाधार 1/5, भास्कर पिता रामाधार 1/5, अशोक कुमार पिता रामाधार 1/5, अमित पिता रामाधार 1/5, मुकेश पिता रामाधार 1/5 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	395/1/1	0.0560
14	शान्ती बेवा रामाधार 1/5, भास्कर पिता रामाधार 1/5, अशोक कुमार पिता रामाधार 1/5, अमित पिता रामाधार 1/5, मुकेश पिता रामाधार 1/5 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि	395/1/2	0.0840
15	राजेंद्र प्रसाद पिता शिवकुमार पाठक पता पटना खुर्द भूमि स्वामी	395/1/3/1	0.0520
16	पवन कुमार पिता शिवकुमार पाठक पता पटना खुर्द भूमि स्वामी	395/1/3/2	0.0640

ग्राम पटनाखुर्द तहसील - कोटर पेज नं. 2			
17	शान्ती बेवा रामाधार 1/5, भास्कर पिता रामाधार 1/5, अशोक कुमार पिता रामाधार 1/5, अमित पिता रामाधार 1/5, मुकेश पिता रामाधार 1/5 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि	395/2/1	0.0540
18	शिवकुमार पिता सत्यनारायण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	395/2/2	0.0540
19	शान्ती बेवा रामाधार 1/5, भास्कर पिता रामाधार 1/5, अशोक कुमार पिता रामाधार 1/5, अमित पिता रामाधार 1/5, मुकेश पिता रामाधार 1/5 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि	395/2/3	0.0200
20	शिवकुमार पिता सत्यनारायण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	395/2/4	0.0200
21	सनत कुमार पिता जैकरन प्रसाद ब्रा0 सा0 पटना खुर्द भूमि स्वामी	408	0.0960
22	बृजेश कुमार पिता सत्यनारायण ब्रा0 सा0 पटना खुर्द भूमि स्वामी	409	0.0800
23	गोपिका प्रसाद पिता रामनिरंजन ब्रा0 सा0 पटना खुर्द भूमि स्वामी	416/1	0.0880
24	शिवनाथ पिता राममनोहर कलार सा0 पटना खुर्द भूमि स्वामी	417	0.0230
25	महरनिया बेवा कलुआ तेली पता पटना खुर्द भूमि स्वामी 1/2 मिठाईलाल पिता कलुआ तेली पता पटना खुर्द भूमि स्वामी 1/2	419/1	0.0640
26	जयगोपाल पिता शिवनाथ जयसवाल पता पटना खुर्द भूमि स्वामी	419/2	0.0900
27	उमार्शंकर पिता नन्दकशोर ब्रा0 सा0 पटना खुर्द भूमि स्वामी	420	0.0380
28	नीलकंठ पिता शिवनाथ कलार पता सा0 देह भूमि स्वामी	422/1/1	0.0530
29	सनत कुमार पिता रामप्रपन्न जाति ब्रा0 पता सा0 देह भूमि स्वामी	392/464/1 /2	0.0030
योग रकबा हे0 मे			1.5350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क्र.3 देवलोंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-82-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- बेरहना

(घ) क्षेत्रफल :- 1.8550 हेक्टेयर

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिद्यत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकवा हे0में0
1	दयाशंकर पिता भानुप्रताप जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	7/1	0.0220
2	मु.बिटुलिया बेवा शंकरप्रसाद ,प्रकाशनारायण ,चन्द्रप्रकाश ,राकेश राजेश पिता शंकरप्रसाद जाति ब्रा. सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	7/2	0.0180
3	जीवन लाल पिता रामसुन्दर जाति ब्रा. सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	7/3	0.0180
4	दयाशंकर पिता भानुप्रताप जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	11	0.0380
5	दयाशंकर पिता भानुप्रताप जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	13	0.0270
6	दयाशंकर पिता भानुप्रताप जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	14/1	0.0130
7	मु.बिटुलिया बेवा शंकरप्रसाद ,प्रकाशनारायण ,चन्द्रप्रकाश ,राकेश राजेश पिता शंकरप्रसाद जाति ब्रा. सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	14/2	0.0070
8	जीवन लाल पिता रामसुन्दर जाति ब्रा. सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	14/3	0.0070
9	दयाशंकर पिता भानुप्रताप जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	15/1	0.0150
10	मु.बिटुलिया बेवा शंकरप्रसाद ,प्रकाशनारायण ,चन्द्रप्रकाश ,राकेश राजेश पिता शंकरप्रसाद जाति ब्रा. सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	15/2	0.0070
11	जीवन लाल पिता रामसुन्दर जाति ब्रा. सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	15/3	0.0070

ग्राम बेरहना तहसील – बिरसिंहपुर पेज नं. 2			
12	शैलदेवी बेवा रामराज कल्पनासिंह, अर्चनासिंह पुत्री रामराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	42/1	0.0160
	गीता सिंह बेवा चुनवाद सिंह, विनयसिंह पिता चुनवाद सिंह, धीरेन्द्रसिंह पिता चुनवाद सिंह सा. बेरहना, अमरजीत पिता गणेश सिंह सा. बेरहना भूमि स्वामी	42/2	
	अमरजीत सिंह पिता गणेश सिंह सा. बेरहना भूमि स्वामी	42/3	
	गीता सिंह बेवा चुनवाद सिंह, विनयसिंह पिता चुनवाद सिंह, धीरेन्द्रसिंह पिता चुनवाद सिंह सा. बेरहना, अमरजीत पिता गणेश सिंह सा. बेरहना भूमि स्वामी	42/4	
	श्रीनिवाससिंह पिता गंगासिंह सा. बेरहना भूमि स्वामी	42/5	
	गीता सिंह बेवा चुनवाद सिंह, विनयसिंह पिता चुनवाद सिंह, धीरेन्द्रसिंह पिता चुनवाद सिंह सा. बेरहना, अमरजीत पिता गणेश सिंह सा. बेरहना भूमि स्वामी	42/6	
13	वीरेन्द्र सिंह पिता मणिराज सिंह पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	43	0.0450
14	किशोरीलाल पिता गंगाप्रसाद ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	48	0.0090
15	जयराम पिता रामचन्द्र ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	49/1	0.0160
16	लक्ष्मीबाई बेवा कामता प्रसाद पाण्डेय, सुशील पाण्डेय पिता कामता प्रसाद, अशोक पाण्डेय पिता कामताप्रसाद पाण्डेय, पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	50	0.0890
17	लक्ष्मीबाई बेवा कामता प्रसाद पाण्डेय, सुशील पाण्डेय पिता कामता प्रसाद, अशोक पाण्डेय पिता कामताप्रसाद पाण्डेय, पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	51/2	0.0020
18	श्रीमती विद्यादेवी पति रामप्रसाद ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	53/1	0.0750
19	रामप्रसाद पिता बाबूराम ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	53/2	0.0510
20	भागवत प्रसाद, दशरथप्रसाद पिता राममिलन जाति ब्रा. पता सा 0 बम्हौरी भूमि स्वामी	54	0.0260
21	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा 0 बम्हौरी भूमि स्वामी	99/1/1	0.0910
	रामप्रसाद पिता बाबूराम ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	99/1/2	
	बारेलाल पिता भइयाराम पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	99/2/1	
	कमलाप्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	99/2/2	
	गणेश प्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	99/2/3	
	महेन्द्र कुमार पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	99/2/4	

ग्राम बेरहना तहसील – बिरसिंहपुर पेज नं. 3			
22	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा.पता सा.बम्हौरी भूमि स्वामी	100/1	0.0230
	बारेलाल पिता भइयाराम पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	100/2/1	
	कमलाप्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	100/2/2	
	गणेश प्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	100/2/3	
	महेन्द्र कुमार पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	100/2/4	
23	भगवान प्रसाद पिता रुद्रप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	101	0.0420
24	अमरजीत पिता गणेश सिंह पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	105	0.0290
25	प्रशान्तसिंह पिता अमरजीत सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	106	0.0190
26	रश्मि पाण्डेय पत्नी रघुवर दयाल पाण्डेय पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	107	0.0070
27	रश्मि पाण्डेय पत्नी रघुवर दयाल पाण्डेय पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	108	0.0290
28	कुन्जविहारी पिता भगवान प्रसाद पाण्डेय पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	109	0.0400
29	युधिष्ठिर प्रसाद पाण्डेय देशलाल पाण्डेय पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	120/1	0.0250
30	पूनम पाण्डेय पत्नी गोविन्दप्रसाद पाण्डेय जाति ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	121	0.0170
31	लेखराज पिता रामकुमार ब्रा.पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	122/1/1	0.0040
	रामप्रसाद पिता बाबूराम ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	122/1/2	
	बारेलाल पिता भइयाराम पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	122/2/1	
	कमलाप्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	122/2/2	
	गणेश प्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	122/2/3	
	महेन्द्र कुमार पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	122/2/4	
32	बारेलाल पिता भइयाराम पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	128/1/1	0.0650
	कमलाप्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	128/1/2	
	गणेश प्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	128/1/3	
	महेन्द्र कुमार पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	128/1/4	
	लक्ष्मीबाई बेवा कामता प्रसाद पाण्डेय, सुशील पाण्डेय पिता कामता प्रसाद,अशोक पाण्डेय पिता कामताप्रसाद पाण्डेय ,पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	128/2	

ग्राम बेरहना तहसील – बिरसिंहपुर पेज नं. 4			
33	बारेलाल पिता भइयाराम पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	129/1/1	0.0020
	कमलाप्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	129/1/2	
	गणेश प्रसाद पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	129/1/3	
	महेन्द्र कुमार पिता भइयाराम . पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	129/1/4	
	लक्ष्मीबाई बेवा कामता प्रसाद पाण्डेय, सुशील पाण्डेय पिता कामता प्रसाद,अशोक पाण्डेय पिता कामताप्रसाद पाण्डेय ,पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	129/2	
34	रामविश्वास पिता रामहित सिंह पता बिरसिंहपुर सतना भूमि स्वामी	130	0.0450
35	गीता सिंह बेवा चुनवाद सिंह ,विनयसिंह पिता चुनवाद सिंह,धीरेन्द्रसिंह पिता चुनवाद सिंह सा.बेरहना भूमि स्वामी	134	0.0450
36	शोखीलाल उर्फ मिठाईलाल पिता भोलाराम जाति ब्रा. सा.बेरहना भूमि स्वामी	142	0.0040
37	शोखीलाल उर्फ मिठाईलाल पिता भोलाराम जाति ब्रा. सा.बेरहना भूमि स्वामी	143	0.0360
38	शोखीलाल उर्फ मिठाईलाल पिता भोलाराम जाति ब्रा. सा.बेरहना भूमि स्वामी	144	0.0970
39	लक्ष्मीबाई बेवा कामता प्रसाद पाण्डेय, सुशील पाण्डेय पिता कामता प्रसाद,अशोक पाण्डेय पिता कामताप्रसाद पाण्डेय ,पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	145	0.0190
40	लक्ष्मीबाई बेवा कामता प्रसाद पाण्डेय, सुशील पाण्डेय ,पिता कामता प्रसाद,अशोक पाण्डेय पिता कामताप्रसाद पाण्डेय ,पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	146	0.0230
41	गीता सिंह बेवा चुनवाद सिंह ,विनयसिंह पिता चुनवाद सिंह,धीरेन्द्रसिंह पिता चुनवाद सिंह सा.बेरहना भूमि स्वामी	158	0.0140
42	रामऔतार,रामविश्वास पिता ढनगनिया सा.बेरहना भूमि स्वामी ,फुलझरिया बेवा ददुल्ला,देवलाल ,रामलाल,श्यामलाल ,छोटा,लल्ली ,मनीषा नीशा,अनीता पिता ददुल्ला डोहर ,पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	159	0.0240
43	श्यामा बेवा चन्द्रिका प्रसाद प्रमोदनारायण रवि उर्फ पारसनाथ,जानकी,शीला ,मुन्नी,पुष्पलता,प्रेमलता पिता चन्द्रिकाप्रसाद ,रामकिशोर पिता रामाधार ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	166	0.0670
44	मानिकलाल पिता विहारी ,चन्द्रभान पिता बिहारी पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	178	0.0240
45	मानिकलाल पिता विहारी ,चन्द्रभान पिता बिहारी पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	181	0.0070

ग्राम बेरहना तहसील - बिरसिंहपुर पेज नं. 5			
46	रावेन्द्रसिंह पिता शंकर सिंह पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	182	0.0060
47	रावेन्द्रसिंह पिता शंकर सिंह पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	183	0.0340
48	जयराम पिता रामचन्द्र ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	186	0.0280
49	जयराम पिता रामचन्द्र ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	188/1	0.0360
50	जयराम पिता रामचन्द्र ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	190	0.0110
51	रामबेटा तनय राजकिशोर ना.वा.सर.बाबा चूड़ामणि ब्रा. पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	417/1/1	0.0560
52	चन्द्रपाल पिता रामगोपाल ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	418	0.0360
53	उदयराजसिंह पिता मंगल सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	419	0.0400
54	उदयराजसिंह पिता मंगल सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	420	0.0530
55	उदयराजसिंह पिता मंगल सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	421	0.0020
56	माण्डवीशरण पिता रामगोपाल ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	422/1	0.0370
57	श्रीनिवास सिंह पिता गंगा सिंह पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	449	0.0220
58	श्रीनिवास सिंह पिता गंगा सिंह पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	450	0.0200
59	माण्डवीशरण पिता रामगोपाल ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	451/1	0.0020
60	शैलदेवी बेवा रामराज कल्पनासिंह,अर्चनासिंह पुत्री रामराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	452/2	0.1030

ग्राम बेरहना तहसील – बिरसिंहपुर पेज नं. 6			
61	शैलदेवी बेवा रामराज कल्पनासिंह, अर्चनासिंह पुत्री रामराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	453/2	0.0020
62	चन्द्रपाल पिता रामगोपाल ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	455	0.0570
63	राजकिशोर पिता चूड़ामणि जाति ब्रा. पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	457/1/1	0.0040
	लल्लूप्रसाद पिता मोतीलाल ब्रा. पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	457/1/2	
	सुमित्रादेवी बेवा भइयालाल, रामनारायण जयनारायण पिता भइयालाल ब्रा. पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	457/1/3	
	मीरा पत्नी चन्द्रपाल व सन्तोष पत्नी मालती ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	457/2	
योग रकबा हे0मे			1.8550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-83-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- सेमरा

(घ) क्षेत्रफल :- 2.3080 हेक्टेयर

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लियत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	गणेशप्रसाद पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	77	0.0020
2	रामतुला पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	78/1	0.0410
3	गणेशप्रसाद पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	78/2	0.0350
4	गणेशप्रसाद पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	79	0.0270
5	गणेशप्रसाद पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	80	0.0850
6	मानिकलाल पिता रमाकान्त ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	81	0.0020
7	मानिकलाल पिता रमाकान्त ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	82	0.1420
8	सुशीला सिंह पत्नी राजकिशोर सिंह जाति ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	83	0.1060
9	श्रीधर पिता रघुवरशरण ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	84	0.0860
10	मनोज, संदीप पिता रामभजन ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	105	0.0040
11	रामतुला पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	106	0.1020
12	कमली बेवा शिवलाल मु.पुष्पा पत्नी बंदीप्रसाद बिकाश, रुद्रप्रसाद, पिता बंदीप्रसाद ब्रा. सा. नयागांव भूमि स्वामी	108	0.0190
13	सबिता पत्नी धर्मेन्द्र कुमार ब्रा. सा. खुटहा भूमि स्वामी	111/3	0.0590
14	सबिता पत्नी धर्मेन्द्र कुमार ब्रा. सा. खुटहा भूमि स्वामी	121/3	0.0100
15	सबिता पत्नी धर्मेन्द्र कुमार ब्रा. सा. खुटहा भूमि स्वामी	122	0.2430
16	श्रीमती शिवलली पत्नी चिरौजीलाल ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	123/1	0.0460

ग्राम सेमरा तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 2			
17	रामचरे पिता जगद्धेव जाति ब्रा. पता सा.गोरसरी भूमि स्वामी	134/1	0.0750
18	राजेन्द्र प्रसाद उमाकान्त ,विमला किरण पिता रामयस मिश्रा विष्णुप्रसाद चन्द्रकली इन्द्रकली सत्यभामा पिता रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा.गोरसरी भूमि स्वामी	134/2	0.1240
19	नरेन्द्र पिता इन्द्रपाल उर्फ पंचम गर्ग पता सा.खुटहा भूमि स्वामी	135/1	0.0060
20	विनय पिता रघुनन्दन गर्ग पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	135/2	0.0060
21	रामशिरोमणि पिता बांकेलाल जाति ब्रा.पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	139/2	0.0100
22	सुन्दरलाल पिता भागवतराम जाति ब्रा0 पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	173/1	0.1150
23	मु.बेवा कौशल्या पत्नी गिरजाप्रसाद शारदाप्रसाद ,रामनारायण तनय गिरजा प्रसाद जाति ब्रा0 पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/1/1	0.1060
	श्यामसुन्दरगर्ग पिता इन्द्रजीत गर्ग जाति ब्रा0 पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/1/2/1	
	महेन्द्रगर्ग पिता इन्द्रजीत गर्ग जाति ब्रा0 पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/1/2/2	
	सुरेशगर्ग पिता इन्द्रजीत गर्ग जाति ब्रा0 पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/1/2/3	
	नारायण पिता इन्द्रजीत गर्ग जाति ब्रा0 पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/1/2/4	
	मु.गीता बेवा सतेन्द्रनाथ,ओंकारनाथ तनय सतेन्द्रनाथ जाति ब्रा0 पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/1/3	
	मु. कुसुमकली बेवा ब्रजमोहन जाति ब्रा0 पता सा. खुटहा भूमि स्वामी,रामाश्रय पिता जमुना प्रसाद ब्रा.,राजकुमारी गर्गबेवा रामहित गर्ग,भारतप्रसाद पिता रामहित गर्ग,राजेश गर्ग पिता रामहित,विजयनारायण पिता रामहित गर्ग शकुन्तला बेवा बृजेन्द्रकुमार गर्ग,संदीप पिता बृजेन्द्रकुमार गर्ग जाति ब्रा0 पता सभी सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/1/4/1	
	दमोदर गर्ग पिता इन्द्रपाल उर्फ पंचम गर्ग सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/2/1	
	कामेश्वर गर्ग पिता इन्द्रपाल उर्फ पंचम गर्ग सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/2/2	
	नरेन्द्र गर्ग पिता इन्द्रपाल उर्फ पंचम गर्ग सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/2/3	
राजकुमारी गर्ग पत्नी रघुनन्दन गर्ग सा. खुटहा भूमि स्वामी	183/2/4		
24	सुइया पिता सुदर्शन जाति लोहार पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	281/1	0.0080
25	रामलखन पिता चन्द्रिका प्रसाद लोहार पता सा.देह भूमि स्वामी	282/1	0.0320

ग्राम सेमरा तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 3			
26	रामाधार पिता तिलकधारी जाति लोहार पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	282/2	0.0330
27	गोरेलाल पिता लल्ली जाति लोहार पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	283/2	0.0180
28	रामप्रसन्न पिता लल्ली जाति लोहार पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	283/3	0.0030
29	गोरेलाल पिता लल्ली जाति लोहार पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	284/2	0.0020
30	नारायणदास पिता चूड़ामणि जाति ब्रा.सा. सेमरा भूमि स्वामी	286	0.0070
31	नारायणदास पिता चूड़ामणि जाति ब्रा.सा. सेमरा भूमि स्वामी	287	0.0670
32	नारायणदास पिता चूड़ामणि जाति ब्रा.सा. सेमरा भूमि स्वामी	288	0.0890
33	शुभम द्विवेदी पिता रामगोपाल द्विवेदी पता सा. बेम्हौरी भूमि स्वामी	291/1	0.0040
34	शुभम द्विवेदी पिता रामगोपाल द्विवेदी पता सा. बेम्हौरी भूमि स्वामी	294/2	0.0490
35	राजेन्द्रप्रसाद पिता रामकृष्ण गुप्ता पता सा. देह भूमि स्वामी	295	0.0660
36	राजेन्द्रप्रसाद पिता रामकृष्ण गुप्ता पता सा. देह भूमि स्वामी	296	0.0610
37	राजाराम ,ददोली, ददन, रामनिवास सुरेन्द्र रामराज गीता ,चन्द्रवती पिता रामनिरंजन काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	297/1	0.0340
	रामखेलावन पिता हीरालाल काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	297/2	
	पैसलाल पिता हीरालाल काछी सा. देह भूमि स्वामी	297/3	
	रामनरेश पिता मंगलदीन काछी सा. देह भूमि स्वामी	297/4/1	
	राजनारायण पिता मंगलदीन काछी सा. देह भूमि स्वामी	297/4/2	
	शिवकली बेवा मिठाईलाल ,अजय पिता मिठाईलाल काछी सा. देह भूमि स्वामी	297/5	
38	राजाराम ,ददोली, ददन, रामनिवास सुरेन्द्र रामराज गीता ,चन्द्रवती पिता रामनिरंजन काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	298	0.0190
39	रामप्रकाश पिता सुन्दरलाल ब्रा.पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	309/1	0.0240
40	राजेन्द्रप्रसाद पिता रामकृष्ण गुप्ता पता सा. देह भूमि स्वामी	309/2/2	0.0220
41	अनूप कुमार पिता चूड़ामणि जाति ब्रा. सा.सेमरा भूमि स्वामी	310	0.0380
42	मु. बेवा मुन्नी बाई पत्नी चूड़ामणि जाति ब्रा. सा.सेमरा भूमि स्वामी	315	0.0040
43	मु. बेवा मुन्नी बाई पत्नी चूड़ामणि जाति ब्रा. सा.सेमरा भूमि स्वामी	317	0.0430
44	मु. बेवा मुन्नी बाई पत्नी चूड़ामणि जाति ब्रा. सा.सेमरा भूमि स्वामी	318	0.0300

ग्राम सेमरा तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 4			
45	मु. बेवा मुन्नी बाई पत्नी चूड़ामणि जाति ब्रा. सा.सेमरा भूमि स्वामी	319	0.0050
46	कमलादेवी बेवा इन्द्रप्रसाद ,पुष्पेन्द्र कुमार ,पंकज पिता इन्द्रप्रसाद शेषमणि पिता भूषण विश्वकर्मा पता सा.सेमरा भूमि स्वामी	333/1/1	0.0100
47	बिटुलिया पत्नी शंकर प्रसाद ब्रा. सा.बेम्हौरी भूमि स्वामी	333/1/2	0.0100
48	टेकराम ,रामलोटन पिता रामगोपाल विश्वकर्मा पता सा.देह भूमि स्वामी	333/2	0.0200
49	कमलादेवी बेवा इन्द्रप्रसाद ,पुष्पेन्द्र कुमार ,पंकज पिता इन्द्रप्रसाद शेषमणि पिता भूषण विश्वकर्मा पता सा.सेमरा भूमि स्वामी	334/1/1	0.0020
50	अन्नपूर्णा सिंह पत्नी नीरज सिंह पता बेरहना भूमि स्वामी, अनुरमा सिंह पत्नी पंकज सिंह पता बेरहना भूमि स्वामी,रामकिशोर पिता स्वामीदीन जाति ब्रा.पता सा. मझगावां भूमि स्वामी	335/1/1	0.0220
51	भागवतसिंह पिता सरदार सिंह पता बेरहना भूमि स्वामी,	335/1/2	0.0110
52	श्रीमती विमला सिंह पत्नी भागवत सिंह चन्देल पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	335/2	0.0200
53	भागवतसिंह पिता सरदार सिंह पता बेरहना भूमि स्वामी,	336/1/2	0.0220
54	श्रीमती विमला सिंह पत्नी भागवत सिंह चन्देल पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	336/2	0.0190
55	भागवतसिंह पिता सरदार सिंह पता बेरहना भूमि स्वामी,	337/1/2	0.0190
56	रामप्रसन्न पिता लल्ली लोहार पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	338/2	0.0020
57	रामप्रसन्न पिता लल्ली लोहार पता सा. सेमरा भूमि स्वामी	339/2	0.0320
58	रावेन्द्र सिंह पिता शंकर सिंह पता सा. बेरहना भूमि स्वामी	342/2	0.0100
रकबा हे०मे			2.3080

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगावां शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-84-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- कोटर

(ग) ग्राम :- लखनवाह

(घ) क्षेत्रफल :- 7.6630 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिद्यत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	कमलभानसिंह पिता हनुमान दीन सिंह बरगाही सा. लखनवाह भूमि स्वामी	8/1	0.0100
2	राजभान सिंह पिता भेला सिंह बरगाही सा. लखनवाह भूमि स्वामी	10/1	0.0360
3	बलवीर सिंह पिता अजयभान सिंह बरगाही सा. लखनवाह भूमि स्वामी	10/2	0.0410
4	कमलभानसिंह पिता हनुमान दीन सिंह बरगाही सा. लखनवाह भूमि स्वामी	10/3	0.0160
5	राजभान सिंह पिता हनुमान दीन सिंह बरगाही सा. लखनवाह भूमि स्वामी	12/2/2	0.0450
6	राजभान सिंह पिता हनुमान दीन सिंह बरगाही सा. लखनवाह भूमि स्वामी	13	0.0550
7	छेदीलाल पिता भूरा ब्रा0 सा0 घोरकटी भूमि स्वामी	14/1	0.0400
8	रामबल पिता भइयालाल ब्रा. सा .रजरवार भूमि स्वामी	14/2	0.0120
9	रामबल पिता भइयालाल ब्रा. सा .रजरवार भूमि स्वामी	15	0.0990
10	लीलादेवी पति रामगुलाम ब्रा0 सा0 बठियाखुर्द भूमि स्वामी	46/1	0.0530
11	लीलादेवी पति रामगुलाम ब्रा0 सा0 बठियाखुर्द भूमि स्वामी	47/1	0.0880
12	छेदीलाल पिता भूरा ब्रा0 सा0 घोरकटी भूमि स्वामी	47/2	0.0220
13	अशोक कुमार,विनोद कुमार पिता हीरालाल बृषभानलली,सत्यभामा देवी,सुमित्रादेवी,रुकमनीदेवी,पुत्री हीरालाल मु0शान्तीदेवी बेवा हीरालाल ब्रा0 सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	85	0.0020

ग्राम लखनवाह तहसील- कोटर पेज नं. 2			
14	अरुणेंद्र पिता अशोक कुमार तिवारी सा० लखनवाह भूमि स्वामी	86/1/1	0.0190
15	अशोक कुमार तिवारी पिता हीरालाल तिवारी सा० लखनवाह भूमि स्वामी	86/1/2	0.2370
16	अरुणेंद्र पिता अशोक कुमार तिवारी सा० लखनवाह भूमि स्वामी	86/2/1	0.0190
17	अमित पिता अशोक कुमार तिवारी सा० लखनवाह भूमि स्वामी	86/2/2	0.0380
18	रामकलेश पिता बृजबासी गडरिया सा० लखनवाह भूमि स्वामी	91/1/1	0.0400
19	बृजबासी पिता शिवचरण गडरिया सा० लखनवाह भूमि स्वामी	91/1/2	0.0460
20	बृजबासी पिता शिवचरण गडरिया सा० लखनवाह भूमि स्वामी	92/1	0.1560
21	प्रशान्त सिंह तनय ब्रजेश प्रताप सिंह विजया सिंह उर्फ प्रेमा सिंह पत्नी ब्रजेश प्रताप सिंह बघेल पता लखनवाह भूमि स्वामी	93/2	0.0110
22	किरण सिंह पुत्री विष्णुप्रताप सिंह पता लखनवाह भूमि स्वामी	244/1/1	0.2970
	रामविलास पिता रामविश्वास जाति कुशवाहा पता सा० बेम्हौरी भूमि स्वामी	244/1/2	
	शिवाधार पिता ददोली काछी पता लखनवाह भूमि स्वामी	244/1/3	
	रामाधार पिता मंगल जाति काछी पता बम्हौरी भूमि स्वामी	244/1/4	
	लक्ष्मीप्रसाद पिता मंगल जाति काछी पता सा० बेम्हौरी भूमि स्वामी	244/1/5/1	
	लक्ष्मीप्रसाद पिता मंगल जाति काछी पता सा० बेम्हौरी भूमि स्वामी	244/1/5/2	
23	किरण सिंह पुत्री विष्णुप्रताप सिंह पता लखनवाह भूमि स्वामी	244/2	0.1920
किरण सिंह पुत्री विष्णुप्रताप सिंह पता लखनवाह भूमि स्वामी	245/1		
24	रामनरेश पिता जगदीश प्रसाद ब्रा० सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/1/1/1	0.1780
	अशोक कुमार पिता रामजियावन लोहार सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/1/1/2/1	
	विश्वनाथ पिता रामजियावन लोहार सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/1/1/2/2	
	दिनकर प्रसाद पिता रामजियावन लोहार सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/1/1/2/3	
	कमलभान सिंह पिता हनुमानदीन सिंह बरगाही सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/1/2/1	
	राजभान सिंह पिता हनुमानदीन सिंह बरगाही सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/1/2/2	
	रामनरेश पिता जगदीश प्रसाद ब्रा० सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/2	
	रामनरेश पिता जगदीश प्रसाद ब्रा० सा० लखनवाह भूमि स्वामी	247/3	

ग्राम लखनवाह तहसील- कोटर पेज नं. 3			
25	दददू पिता लेदरा गडरिया सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	248	0.0290
26	रामनरेश पिता जगदीश प्रसाद ब्रा0 सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	250/1	0.0220
27	दददू पिता लेदरा गडरिया सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	252	0.0890
28	रामभगत चन्द्रिका प्रसाद प्रेमलाल रोहिणी कुमार लक्ष्मीनारायण पिता रामऔतार ब्रा0 सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	269	0.0580
29	रामसोहावन पिता,रामकृपाल,रामभगत,पिता रामऔतार ब्रा0 सा0 बेम्होरी भूमि स्वामी	292	0.0290
30	कलावती बेवा भूरा श्यामजी राजी,रामरहीस पिता भूरा नावा.सर.मा कलावती यादव सा. देह भूमि स्वामी	293	0.1250
31	रामभगत चन्द्रिका प्रसाद प्रेमलाल रोहिणी कुमार लक्ष्मीनारायण पिता रामऔतार ब्रा0 सा0 बेम्होरी भूमि स्वामी	294/1	0.2380
32	लक्ष्मीदीन पिता रामचरण दजी सा. बेम्होरी भूमि स्वामी	297/1	0.2450
33	श्री खम्भवाबा लॉजिस्टिक्सएंड मिनरल प्रा.लि.पिता डायरेक्टर श्री भास्कर सिंह तिवारी पिता भागवत सिंह तिवारी जाति ब्रा0पाता मनकहरी रामपुर बघेलान भूमि स्वामी	302/1	0.1490
34	रामसलोने पिता नैना बारी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	302/2/1	0.0450
35	बिहारी लाल पिता नैना बारी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	302/2/2	0.1010
36	बिहारी लाल पिता नैना बारी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	302/2/3	0.0840
37	राम विश्वास पिता लाला यादव सा. लखनवाह भूमि स्वामी	311/1/1/1	0.3700
	राम विश्वास पिता लाला यादव सा. लखनवाह भूमि स्वामी	311/1/2	
	विक्रम सिंह पिता राजबहादुर सिंह कछवाह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/1/2/1	
	विक्रान्तप्रताप सिंह पिता राजबहादुर सिंह कछवाह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/1/2/2	
	विवेकप्रताप सिंह पिता राजबहादुर सिंह कछवाह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/1/2/3	
	त्रिवेणी प्रसाद पिता भोलवा धोबी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/2/1	
	सरजू पिता भोलवा धोबी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/2/2	
	जगदीश पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/3/1/1	
	रामदीन पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/3/1/2	
	जगन्नाथ पिता ददानी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/3/2/1	
	लोली उर्फ रामनाथ पिता ददानी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/3/2/2	
	छोटेलाल पिता धर्मदास चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/3/2/3	
	कौशिल्या सिंह पति कमलभान सिंह बरगाही सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/3/2/4	
	रामनिहोर पिता हरछटिया चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/4/1	
	शिवकली बेवा ददोलिया,लल्लू,हरीलाल,अशोक,लोकेश,फुलझरिया पुत्री रामबूटाई पिता ददोलिया चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/4/2	
	निहरवा . ददोलिया बल्द हरछटिया मनगिरिया बेवा हरछटिया चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/5	
	संतोष सिंह पत्नी सुग्रीव सिंह प्रियंका सिंह पुत्री सुग्रीव सिंह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/7/1	
राममिलन पिता दुर्गा चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/8/1		
लालबहादुर सिंह पिता रामसिंह कछवाह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	311/8/2		

ग्राम लखनवाह तहसील- कोटर पेज नं. 4			
38	सुदामा पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	313/1/1	0.0020
	जगदीश पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	313/1/2	
	लोली उर्फ रामनाथ पिता ददानी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	313/2/1	
	छोटेलाल पिता धर्मदास चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	313/2/2	
	कौशिल्या सिंह पति कमलभान सिंह बरगाही सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	313/2/3	
39	धर्मदास पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	314/1/1	0.0700
	सुदामा पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	314/1/2	
	जगतपाल पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	314/1/3	
	जगन्नाथ पिता ददानी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	314/2/1	
	लोली उर्फ रामनाथ पिता ददानी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	314/2/2	
	छोटेलाल पिता धर्मदास चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	314/2/3	
40	सरजू पिता भोलवा धोबी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	315	0.0600
41	सरजू पिता भोलवा धोबी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	316	0.0430
42	विशरनिया प्रजापति पति छोटेलाल प्रजापति सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	317/1/1	0.0030
	रामदीन पिता दुर्जन चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	317/1/2	
	गिरधारी पिता दुलारे चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	317/2	
43	रामदीन पिता दुर्जन चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	319/1/1	0.0180
	पुरषोत्तम ,पूनम, पूजा पिता रामदेव चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	319/1/2	
44	गिरधारी पिता दुलारे चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	319/2	0.1070
	विशेषर पिता मूड़ी ,रामाधार पिता रामेश्वर हरिजन सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	320/1	
	चुनकी बेवा कन्छेदी, ज्वालाप्रसाद ,चमेलिया,सुक्खी पिता कन्छेदी हरिजन सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	320/2	
	ददोला ,चुनकौना ,पिता महादेव ,चौरसिया बेवा सुखलाल,संतोष,विजय पिता सुखलाल चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	320/3	
	राजू पिता भगवत मु0 चचाईवाली बेवा चुनकावन लवकुश संतोष तनय चुनकावन चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	320/4	
	साधू पिता चुनवादी चमार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	320/5	

ग्राम लखनवाह तहसील- कोटर पेज नं. 5			
45	रामविश्वास पिता लाला यादव सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	329/1/1	0.1440
	विक्रम सिंह पिता राजबहादुर सिंह कछवाह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	329/1/2/1	
	विक्रान्त प्रताप सिंह पिता राजबहादुर सिंह कछवाह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	329/1/2/2	
	विवेक प्रताप सिंह पिता राजबहादुर सिंह कछवाह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	329/1/2/3	
	नवनीत सिंह विनीतसिंह पिता सुरेन्द्रप्रताप सिंह मु0गीतासिंह बेवा सुरेन्द्रप्रताप सिंह सोलंकी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	329/2/1/1	
	रामविश्वास पिता लाला यादव सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	329/2/1/2	
	कलावती बेवा भूरा श्यामजी, राजी, रामरहीस, पिता भूरा नावा.सर.मां कलावती सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	329/2/2	
46	रामविश्वास पिता लाला यादव सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	330/1/1	0.0120
47	रामविश्वास पिता लाला यादव सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	330/2/1	0.0070
48	कुसुमकली बेवा रोशन सिंह आशासिंह पुत्री रोशन सिंह अमित सिंह पिता रोशन सिंह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	331/1	0.2020
49	तरवत पिता कलुआ कलार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	332/2/1	0.1020
50	जगदीश पिता बैजनाथ सिंह राजपूत सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	333	0.1890
51	रामलाल सिंह पिता बच्चू सिंह कुर्म. सा. सा0 अबर भूमि स्वामी	337/1/2	0.0800
52	तरवत पिता कलुआ कलार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	353/1/1	0.0220
	तरवत पिता कलुआ कलार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	353/1/2/1	
	प्रहलाद पिता कलुआ कलार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	353/1/2/2	
	शंखधरसिंह, चक्रधरसिंह पिता भारत सिंह क्षत्रिय सा0 देह भूमि स्वामी	353/2/1	
53	कुसुमकली बेवा रोशन सिंह आशासिंह पुत्री रोशन सिंह अमित सिंह पिता रोशन सिंह लालबहादुर सिंह, मेजर सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता राम सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	353/2/2	0.0410
	तरवत पिता कलुआ कलार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	354	

ग्राम लखनवाह तहसील- कोटर पेज नं. 6			
54	कुसुमकली बेवा रोशन सिंह आशासिंह पुत्री रोशन सिंह अमित सिंह पिता रोशन सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	356/1	0.1250
55	गोरेलाल पिता कर्णछेदीलाल तेली सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	356/2	0.0930
56	रामाऔतार पिता शम्भू काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/1/1/1	0.0510
	रामाधार पिता शम्भू काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/1/1/2	
	रामखेलावन पिता शंकरप्रसाद काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/1/2/3	
	ऊषा बेवा रामनिवास अमित, आशीष, अनूप, सरिता, गुडिया पिता रामनिवास काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/1/2/4	
	रामनरेश पिता शंकरप्रसाद काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/1/2/5	
	श्यामसुन्दर पिता शंकरप्रसाद काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/1/2/6	
	छेदीलाल पिता ददोलवा अहीर सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/1/3	
	रामाधार पिता शम्भू काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/2/1/2	
	शंखधरसिंह, चक्रधरसिंह पिता भारत सिंह क्षत्रिय सा0 देह भूमि स्वामी	357/2/2	
	दुअसिया पुत्री शंकरप्रसाद काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/2/2/1	
	किशोरे पुत्री शंकरप्रसाद काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/2/2/2	
	शैला पुत्री शंकरप्रसाद काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/2/2/3	
	पप्पू पुत्री शंकरप्रसाद काछी सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/2/2/4	
	मु0 तुलसा बाई बेवा रामसेवक शंकरलाल राजेन्द्र प्रसाद, सूरजप्रसाद, सुरेशप्रसाद, महेशप्रसाद, अवधेशप्रसाद मीराबाई, ललिता, रेखाबाई पिता रामसेवक कायस्थ सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	357/3	
57	मु0 तुलसा बाई बेवा रामसेवक शंकरलाल राजेन्द्र प्रसाद, सूरजप्रसाद, सुरेशप्रसाद, महेशप्रसाद, अवधेशप्रसाद मीराबाई, ललिता, रेखाबाई पिता रामसेवक कायस्थ सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	358/1/1	0.0310
58	ऋषिलाल पिता गल्लूराम, पारसनाथ पिता समयलाल कलार सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	358/1/2	0.0190
59	मु0 तुलसा बाई बेवा रामसेवक शंकरलाल राजेन्द्र प्रसाद, सूरजप्रसाद, सुरेशप्रसाद, महेशप्रसाद, अवधेशप्रसाद मीराबाई, ललिता, रेखाबाई पिता रामसेवक कायस्थ सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	360	0.0280
60	कुसुमदेवी बेवा कृष्णमोहन के, अनुरागके, तृष्णा पिता कृष्णमोहन पाठक सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	361	0.0210
61	कुसुमदेवी बेवा कृष्णमोहन के, अनुरागके, तृष्णा पिता कृष्णमोहन पाठक सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	362/1	0.2020
	विनोद कुमार पाठक पिता श्रीधर पाठक सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	362/2	
62	विनोद कुमार पाठक पिता श्रीधर पाठक सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	363/1	0.0810
	संतोषकुमार पाठक पिता श्रीधर पाठक सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	363/2	

ग्राम लखनवाह तहसील- कोटर पेज नं. 7			
63	शंखधरसिंह पिता भारत सिंह, चक्रधरसिंह पिता भारत सिंह सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	364/1/1	0.1060
	कुसुमकली बेवा रोशन सिंह आशासिंह पुत्री रोशन सिंह अमित सिंह पिता रोशन सिंह लालबहादुर सिंह, मेजर सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता राम सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	364/1/2	
	रावेन्द्र सिंह पिता भागीरथ सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	364/2/1	
	मेजर सिंह पिता रामसिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	364/2/2	
64	शंखधरसिंह, चक्रधरसिंह पिता भारत सिंह क्षत्रिय सा0 देह भूमि स्वामी	365/1/1/1	0.1640
	कुसुमकली बेवा रोशन सिंह आशासिंह पुत्री रोशन सिंह अमित सिंह पिता रोशन सिंह लालबहादुर सिंह, मेजर सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता राम सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	365/1/1/2	
	कुसुमकली बेवा रोशन सिंह आशासिंह पुत्री रोशन सिंह अमित सिंह पिता रोशन सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	365/1/2	
	मेजर सिंह पिता रामसिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	365/2/2	
65	मु0ममता सिंह पति हर्षप्रताप सिंह कनिष्कसिंह पिता हर्षप्रताप सिंह कणिकासिंह पुत्री हर्षप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	722	0.0290
66	कणिकासिंह पिता हर्षप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	729	0.0430
67	लक्ष्मी सिंह पत्नी रामाश्रयसिंह कुर्म.सा0 कोटर भूमि स्वामी	730	0.1110
68	लक्ष्मी सिंह पत्नी रामाश्रयसिंह कुर्म.सा0 कोटर भूमि स्वामी	731	0.0020
70	विजया सिंह उर्फ प्रेमासिंह बेवा बृजेश प्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	733/1	0.1110
71	कार्तिकेय सिंह पिता युवराजप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	733/2/1	0.0730
72	ऋषभसिंह पिता युवराजप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	733/2/2	0.0680
73	कार्तिकेय सिंह पिता युवराजप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	734/1/1/2	0.0590
74	भूपेन्द्र प्रताप सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	735	0.4100
75	भूपेन्द्र प्रताप सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	736	0.0480
76	श्रीमती मितालिका सिंह पति सिद्धार्थदेव सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	739/1	0.0260
77	शिवाथप्रताप सिंह पिता भूपेन्द्रप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	739/2	0.0260
78	श्रीमती मितालिका सिंह पति सिद्धार्थदेव सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	750/1	0.1430
79	शिवाथप्रताप सिंह पिता भूपेन्द्रप्रताप सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	750/2	0.1430
80	श्रीमती मितालिका सिंह पति सिद्धार्थदेव सिंह क्षत्रिय सा0 लखनवाह भूमि स्वामी	754	0.1420

ग्राम लखनवाह तहसील- कोटर पेज नं. 8			
81	नकछेदी पिता शिवनारायण मु० बिट्टी सिंह बेवा जानकी सिंह अजयसिंह,अजीतसिंह,कामता सिंह पिता जानकी सिंह चन्देल सा. देह भूमि स्वामी	789/1	0.0230
82	अजीतसिंह पिता जानकी सिंह चन्देल सा. देह भूमि स्वामी	789/2	0.0280
83	लक्ष्मी सिंह पत्नी रामाश्रयसिंह कुर्म.सा० कोटर भूमि स्वामी	794/1	0.0120
84	शीलासिंह बेवा वंशधारीसिंह,हीरासिंह,रामानंद सिंह,ममतासिंहपिता वंशधारी सिंह राजपूत सा० लखनवाह भूमि स्वामी ,उर्मिला सिंह पति राजकुमार सिंह चन्देल सा० लखनवाह भूमि स्वामी	794/2/1/1	0.0490
85	राजकुमार पिता बृजलाल सिंह राजपूत सा० लखनवाह भूमि स्वामी	794/2/1/1/1	0.0040
86	श्रीमती कीर्ती सिंह पत्नी सुखेन्द्रसिंह कुर्म० सा० अबर भूमि स्वामी	794/2/1/2	0.0160
87	श्रीमती कीर्ती सिंह पत्नी सुखेन्द्रसिंह कुर्म० सा० अबर भूमि स्वामी	794/2/2	0.0480
88	कनिष्कसिंह पिता हर्षप्रताप सिंह क्षत्रिय सा० लखनवाह भूमि स्वामी	795	0.0990
89	उमेशप्रताप सिंह पिता भगवानदीन सिंह कुर्म.सा० अबर भूमि स्वामी	802/1	0.1920
90	तिलकधारी पिता पियरिया धोबी सा० लखनवाह भूमि स्वामी	807	0.1320
91	सुन्दर सिंह पिता शिवदास सिंह कुर्म० सा० लखनवाह भूमि स्वामी	811/2/1	0.0250
92	दिनेश सिंह पिता शिवदास सिंह कुर्म० सा० लखनवाह भूमि स्वामी	811/2/2	0.0250
93	राजेश कुमार पिता राजबली कुर्म० सा० बिहरा भूमि स्वामी	814	0.0290
94	राजेश कुमार पिता राजबली कुर्म० सा० बिहरा भूमि स्वामी	815	0.0340
95	शीला सिंह पिता तेजबली सिंह कुर्म० सा० बिहरा भूमि स्वामी	816/1	0.0200
96	शीला सिंह पिता तेजबली सिंह कुर्म० सा० बिहरा भूमि स्वामी	817/1	0.0680
97	हरीश प्रताप सिंह पिता तेजबली सिंह कुर्म० सा० बिहरा भूमि स्वामी	817/2	0.0050
योग रकबा हे० मे			7.6630

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है -- कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-85-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- उजैनी

(घ) क्षेत्रफल :- 1.0630 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिदयत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	रामरूप पिता रामप्रसाद जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	4/1/1	0.0020
	राजकुमारी पत्नी राजरूप, जयप्रकाश पयासी पिता राजरूप पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	4/1/2	
	बालमुकुन्द पाण्डेय पुत्र लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी माधवप्रसाद पिता लालजी, छेदीलाल पिता लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	4/2	
2	बालमुकुन्द पाण्डेय पुत्र लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी माधवप्रसाद पिता लालजी, छेदीलाल पिता लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	5	0.0400
3	केदार प्रसाद पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	6/1	0.0400
4	रोहणी प्रसाद पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	6/2	0.0250
5	रामकरण पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	15/1/1	0.0300

ग्राम उजैनी तहसील – बिरसिंहपुर पेज नं. 2			
6	गिरजा प्रसाद शुक्ला पिता अवधबिहारी जाति ब्रा. पता बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/1/1/1/ 1	0.0360
	यमुना प्रसाद शुक्ला पिता अवधबिहारी जाति ब्रा. पता बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/1/1/1/ 2	
	जगदीश पिता शिवनारायण जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/1/1/2	
	म0प्र0 शासन	16/1/2	
	मनोज कुमार शुक्ला पिता सुखेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा. पता बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ,लक्ष्मी प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/1/3/1	
	भगवनिया बेवा जगनंदन जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/1/3/2	
	म0प्र0 शासन	16/2	
7	बालमुकुन्द पाण्डेय पुत्र लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी माधवप्रसाद पिता लालजी, छेदीलाल पिता लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	17/1	0.0280
8	रामकरण पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	18/2	0.0510
9	मनरंजन प्रसाद पिता गयाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	19	0.0860
10	बालमुकुन्द पाण्डेय पुत्र लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी माधवप्रसाद पिता लालजी, छेदीलाल पिता लालजी जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	20/1	0.0240
11	सुरेश प्रसाद पिता कमलाप्रसाद पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	27/1	0.0980
12	सुरेश प्रसाद पिता कमलाप्रसाद ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	28	0.0180
13	रामबिहारी पिता शिवनारायण जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	31	0.0070
14	रामकरण पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	34/3	0.0080
15	उमेश प्रसाद रमेश प्रसाद राजेश प्रसाद पिता रामखेलावन पिता चंदी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	49/1	0.0040
16	सीता पिता बाकेबिहारी जाति ब्रा.पता बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	49/2	0.0090

ग्राम उजैनी तहसील - बिरसिंहपुर पेज नं. 3			
17	उमेश प्रसाद रमेश प्रसाद राजेश प्रसाद पिता रामखेलावन पिता चंदी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	50	0.0280
18	उमेश प्रसाद रमेश प्रसाद राजेश प्रसाद पिता रामखेलावन पिता चंदी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	51/2/1	0.0160
19	सीता पिता बाकेबिहारी जाति ब्रा.पता बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	51/2/2	0.0160
20	अनुपमा पत्नी प्रमोद कुमार मिश्रा जाति ब्रा. पता उजैनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	206/2/1/57	0.0250
21	अशोक कुमार पिता जगनन्दन जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	206/3/2/57	0.0240
22	छेदीलाल पुत्र लालजी ,माधवप्रसाद ,बालमुकुन्द पिता लालजी जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	60	0.0480
23	रामकरण पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/1/3	0.0050
24	रोहणी प्रसाद पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	107/1/1	0.0300
25	शारदाप्रसाद पिता सुग्रीव प्रसाद जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	107/2/2	0.0260
26	रोहणी प्रसाद पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	109/1	0.0100
27	केदार प्रसाद पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	109/2/1	0.0070
28	म0प्र0 शासन	110/1	0.0140
	दयाराम पाण्डेय पिता सुन्दरलाल जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	110/2/1	
	मु0 उर्मिला बेवा भाईलाल जितेन्द्र,पुष्पेन्द्र पिता भाईलाल ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	110/2/2	
	रामकरण पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	110/3	
29	मनरंजन प्रसाद पिता गयाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	110/4	
30	मु0 उर्मिला बेवा भाईलाल जितेन्द्र,पुष्पेन्द्र पिता भाईलाल ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	111/2	0.1510
	नरोत्तम पिता वासुदेव जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	116/1	0.0220
	भागवत प्रसाद पिता नन्दकुमार जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	116/2/1	
मु0 कुन्ती पत्नी रामेश्वर प्रसाद बट्टी,आशीष पिता रामेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	116/2/2		
31	शिवकुमार पिता अयोध्या प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	117	0.0220

ग्राम उजैनी तहसील – बिरसिंहपुर पेज नं. 4			
32	शिवकुमार पिता अयोध्या प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	118	0.0100
33	रोहणी प्रसाद पिता सूर्यबल जाति ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	119/1	0.0080
34	छेदीलाल पिता सुग्रीव प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	119/2	0.0160
35	मु0 उर्मिला बेवा भाईलाल जितेन्द्र, पुष्पेन्द्र पिता भाईलाल ब्रा. पता ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	120	0.0050
36	शिवकुमार पिता अयोध्या प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	127/1	0.0740
	नरोत्तम पिता वासुदेव जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	127/1/2	
	गिरजा प्रसाद शुक्ला पिता अवधबिहारी जाति ब्रा. पता बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	127/2/1	
	यमुना प्रसाद शुक्ला पिता अवधबिहारी जाति ब्रा. पता बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	127/2/1/2	
	सुखेन्द्र पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	127/2/2/1	
	लक्ष्मीप्रसाद पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 ऊजेनी बिरसिंहपुर सतना मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	127/2/2/2	
योग रकबा हे0 मे			1.0630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-86-भू-अर्जन-प्रकाशन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- बम्हौरी

(घ) क्षेत्रफल :- 4.2650 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्दियत सकूनत	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.में
1	रामगणेश पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी	2/1/1	0.0880
	सत्यनारायण पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी	2/1/2	
	मुकेश कुमार पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी	2/1/3	
	रामनरेश पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी 1/4, चन्द्रिकाप्रसाद पिता रामकिशोर जाति ब्रा. 1/4, सत्यनारायण पिता रामकिशोर जाति ब्रा0, 1/4, मुकेश कुमार पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 1/4 पता सा. गोरसरी भूमि स्वामी	2/1/4	
	चन्द्रिकाप्रसाद पिता रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा. गोरसरी भूमि स्वामी	2/2/1	
	रामगणेश पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी	2/2/2	
	चन्द्रिकाप्रसाद पिता रामकिशोर जाति ब्रा. पता सा. गोरसरी भूमि स्वामी	19/1	
रामगणेश पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी	19/2		
सत्यनारायण पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी	19/3		
मुकेश कुमार पिता रामकिशोर जाति ब्रा0 सा. गोरसरी भूमि स्वामी	19/4		
3	मु. सियादुलारी बेवा भैयालाल, बारेलाल, ललितकिशोर, प्रेमलाल पिता भैयालाल, भागवत तनय स्वामीदीन, देवशरण तनय रामसजीवन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	20	0.0520
4	मु. सियादुलारी बेवा भैयालाल, बारेलाल, ललितकिशोर, प्रेमलाल पिता भैयालाल, भागवत तनय स्वामीदीन, देवशरण तनय रामसजीवन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	21	0.0260
5	मु. सियादुलारी बेवा भैयालाल, बारेलाल, ललितकिशोर, प्रेमलाल पिता भैयालाल, भागवत तनय स्वामीदीन, देवशरण तनय रामसजीवन जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	22	0.1300

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 2			
6	विद्यासागर पिता पिता अमृतलाल जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	29/4	0.0890
7	ब्रजेश कुमार रविन्द कुमार पिता देवमणि किरण पुत्री देवमणि ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	30	0.1060
8	राजभान पिता झुन्नीलाल ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	35/1/1	0.0060
	मु. प्रेमबाई पत्नी राजनारायण ,मनोज ,प्रदीप पिता राजनारायण ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	35/1/2	
	मंजुल पिता राजकिशोर ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	35/1/3	
	मु. सिया गर्ग पत्नी जयनारायण ,नागेन्द्र, बन्दना पिता जयनारायण जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	35/1/4	
	चन्द्रशेखर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	35/2	
9	राजभान पिता झुन्नीलाल ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	36/1/1	0.0110
10	मु. प्रेमबाई पत्नी राजनारायण ,मनोज ,प्रदीप पिता राजनारायण ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	36/1/2	0.0110
11	मंजुल पिता राजकिशोर ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	36/1/3	0.0110
12	मु. सिया गर्ग पत्नी जयनारायण ,नागेन्द्र, बन्दना पिता जयनारायण जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	36/1/4	0.0120
13	राजभान पिता झुन्नीलाल ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	36/2/1	0.0120
14	मु. प्रेमबाई पत्नी राजनारायण ,मनोज ,प्रदीप पिता राजनारायण ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	36/2/2	0.0110
15	मंजुल पिता राजकिशोर ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	36/2/3	0.0110
16	मु. सिया गर्ग पत्नी जयनारायण ,नागेन्द्र, बन्दना पिता जयनारायण जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	36/2/4	0.0110
17	राजभान पिता झुन्नीलाल ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	37/1/1	0.0180
18	मु. प्रेमबाई पत्नी राजनारायण ,मनोज ,प्रदीप पिता राजनारायण ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	37/1/2	0.0940
19	महेन्द्र गौतम पिता नरेन्द्र प्रसाद गौतम जाति ब्रा. पता सा. गोरसरी भूमि स्वामी	37/1/3	0.0180
20	मु. सिया गर्ग पत्नी जयनारायण ,नागेन्द्र, बन्दना पिता जयनारायण जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	37/1/4	0.0180
21	अवधेश प्रसाद पिता कौशल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	37/2/2	0.0200
22	अर्चना पत्नी सन्तोष कुमार जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	38/1/1	0.0640
23	त्रिभुवन नारायण पिता हरिहर प्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	38/2	0.0680
24	रामनरेश पिता रामप्रशन्न जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	39	0.0400

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 3			
25	मु.राजकुमारी बेवा अरुणकुमार नीलेश कुमार,मिथलेश कुमार पिता अरुण कुमार ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	40/2	0.0140
26	रामेश्वर पिता गंगाप्रसाद ब्रा.1/4, कुशुमवती बेवा गंगाप्रसाद ब्रा.1/4,जागेश्वर पिता गंगाप्रसाद ब्रा.1/4,उमेश्वर पिता गंगाप्रसाद ब्रा.1/4, पता सा0 बम्हौरी भूमि स्वामी	43/1/1	0.0040
27	रामनरेश पिता रामप्रशन्न जाति ब्रा. पता सा.बम्हौरी भूमि स्वामी	43/1/2	0.0040
28	मु.राजकुमारी बेवा अरुणकुमार नीलेश कुमार,मिथलेश कुमार पिता अरुण कुमार ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	43/1/3	0.0040
29	अनुभव:शर्मा पिता शिवार्चन: शर्मा फूलकुमारी पत्नी शिवार्चन शर्मा जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	43/2	0.0120
30	घनश्याम प्रसाद पिता रामखेलावन जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	43/3	0.0120
31	रामविश्वास पिता रामऔतार जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	44/1	0.0160
32	ब्रजेश कुमार रबिन्द कुमार पिता देवमणि किरण पुत्री देवमणि ब्रा.पता सा.देह भूमि स्वामी	44/2	0.0080
33	घनश्याम प्रसाद पिता रामखेलावन जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	47/1/1	0.0040
34	राजाभैया पिता पारसनाथ जाति कुशवाहा पता सा.खुटहा भूमि स्वामी	47/1/2	0.0040
35	मु.लक्ष्मी बेवा राममिलन ,छेदीलाल,लालमणि,रामलाल,रामविश्वास,लोल्ली पिता राममिलन काछी पता सा.खुटहा भूमि स्वामी	47/2	0.0050
36	दरबारीलाल पिता धन्तालीराम जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	141/1	0.0270
37	बृजबिहारी उर्फ बिरजा पिता हीरालाल काछी पता सा.खुटहा भूमि स्वामी	141/3	0.0280
38	दरबारीलाल पिता धन्तालीराम जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	142	0.0250
39	राजेन्द्रप्रसाद पिता कामता प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.लखहा भूमि स्वामी	144	0.0070
40	राजेन्द्रप्रसाद पिता कामता प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.लखहा भूमि स्वामी	145	0.0240
41	मु.बेवा ब्रजमोहन प्रसाद ,नन्दकिशोर ,जुगलकिशोर,रामचरण ,शिवचरण पिता ब्रजमोहन प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	146	0.0020
42	मु.बेवा ब्रजमोहन प्रसाद ,नन्दकिशोर ,जुगलकिशोर,रामचरण ,शिवचरण पिता ब्रजमोहन प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	147	0.0480
43	गयाप्रसाद,दददी प्रसाद1/2 मु.गीतादेवी बेवा राजनारायण मु. राजकुमारी बेवा सीताराम,राजेश पुत्र ऊषा, गीता, गुड्डी ,रीता ,मीरा पुत्री सीताराम गयाप्रसाद पिता दददी प्रसाद ,प्रमोद कुमार पिता गयाप्रसाद 1/2 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	148	0.0030
44	गया प्रसाद,दददी प्रसाद1/2 मु.गीतादेवी बेवा राजनारायण मु. राजकुमारी बेवा सीताराम,राजेश पुत्र ऊषा, गीता, गुड्डी ,रीता ,मीरा पुत्री सीताराम गयाप्रसाद पिता दददी प्रसाद ,प्रमोद कुमार पिता गयाप्रसाद 1/2 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	149	0.0530

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 4			
45	मु. बेवा ब्रजमोहन प्रसाद, नन्दकिशोर, जुगलकिशोर, रामचरण, शिवचरण पिता ब्रजमोहन प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	170/1	0.0040
46	गयाप्रसाद, दददी प्रसाद 1/2 मु. गीतादेवी बेवा राजनारायण मु. राजकुमारी बेवा सीताराम, राजेश पुत्र ऊषा, गीता, गुडडी, रीता, मीरा पुत्री सीताराम गयाप्रसाद पिता दददी प्रसाद, प्रमोद कुमार पिता गयाप्रसाद 1/2 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	172	0.0550
47	गयाप्रसाद, दददी प्रसाद 1/2 गीता देवी बेवा राजनारायण मु. राजकुमारी बेवा सीताराम, राजेश पुत्र ऊषा, गीता, गुडडी, रीता, मीरा पुत्री सीताराम गयाप्रसाद पिता दददी प्रसाद, प्रमोद कुमार पिता गयाप्रसाद 1/2 जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	173	0.0070
48	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	174	0.0360
49	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	175	0.0450
50	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	176	0.0200
51	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	177	0.0290
52	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	178	0.0060
53	लेखराज पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	269/2	0.0260
54	कृष्णकुमार पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी 1/2, पुष्पेन्द्र कुमार पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी 1/2,	270	0.0190
55	कृष्णकुमार पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी 1/2, पुष्पेन्द्र कुमार पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी 1/2,	271	0.0220
56	कृष्णकुमार पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी 1/2, पुष्पेन्द्र कुमार पिता रघुवंश प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी 1/2,	272	0.0030
57	सुशील कुमार, भूपेन्द्र कुमार पिता माधौप्रसाद मु. बुटुआ बेवा माधौ प्रसाद ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	293	0.0220
58	सुशील कुमार, भूपेन्द्र कुमार पिता माधौप्रसाद मु. बुटुआ बेवा माधौ प्रसाद ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	294	0.0420
59	सुशील कुमार, भूपेन्द्र कुमार पिता माधौप्रसाद मु. बुटुआ बेवा माधौ प्रसाद ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	295	0.0650
60	सुशील कुमार, भूपेन्द्र कुमार पिता माधौप्रसाद मु. बुटुआ बेवा माधौ प्रसाद ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	296	0.1130
61	रामभद्र पिता सुधाकर मिश्रा 1/6, श्रीनिवास पिता सुधाकर मिश्रा 1/6 अंशुमान पिता सुधाकर मिश्रा 1/6 पता सा. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी रमा देवी बेवा जयनारायण पता बिरसिंहपुर, विश्वनाथ पिता जयनारायण, भुवनेश्वर पिता जयनारायण, ममतातिवारी पिता जयनारायण पता बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	298	0.0250
62	रामभद्र पिता सुधाकर मिश्रा 1/6, श्रीनिवास पिता सुधाकर मिश्रा 1/6 अंशुमान पिता सुधाकर मिश्रा 1/6 पता सा. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी रमा देवी बेवा जयनारायण पता बिरसिंहपुर, विश्वनाथ पिता जयनारायण, भुवनेश्वर पिता जयनारायण, ममतातिवारी पिता जयनारायण पता बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	299	0.0020

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 5			
63	शिवप्रसाद पिता चित्रकूटी जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	323	0.0100
64	लालजी पिता गैवीराम जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	325	0.0030
65	लालजी पिता गैवीराम जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	326	0.0060
66	लालजी पिता गैवीराम जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	327	0.0030
67	राजेन्द्र प्रसाद पिता कामता प्रसाद ब्रा. पता सा. लखहा भूमि स्वामी	331	0.0160
68	सुरेन्द्र प्रसाद पिता मालिकराम जाति ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	494/1	0.1140
69	शोभनाथ पिता मालिकराम जाति ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	494/2	0.0320
70	सुरेन्द्र प्रसाद पिता मालिकराम जाति ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	495	0.0070
71	मुन्ना पिता वंशरूप जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी	501	0.0450
72	सुखमंती पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	502/1	0.0340
73	देववती पत्नी सन्त प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	502/2	0.0250
74	सुखमंती पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. तेलनी भूमि स्वामी	505/1	0.0400
75	रामलालसिंह पिता अमरजीत सिंह पता बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	506/1	0.0250
76	जयसिंह पिता दिनकर सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	506/2	0.0260
77	प्यारेलाल, ललितकिशोर, प्रेमलाल पिता भैयालाल भगवत प्रसाद पिता स्वामीदीन ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	510	0.0080
78	जयसिंह पिता दिनकर सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	511/1	0.0940
79	लक्ष्मणसिंह पिता सिद्धगोपाल सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	511/2	
	मु. बेवा स्वामीदीन, भगवतप्रसाद, पिता स्वामीदीन, प्यारेलाल, ललितकिशोर, प्रेमलाल पिता भैयालाल 1/4 रामखेलावन सुधनी, रामप्रकाश, ब्रजबिहारी, जयप्रकाश पुत्र बुट्टन गायत्री रुकमनिया पिता देवशरण मु. बेवा राजन भोला ललनिया पिता राजन 3/4 ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	512	0.0030
80	मु. बेवा स्वामीदीन, भगवतप्रसाद, पिता स्वामीदीन, प्यारेलाल, ललितकिशोर, प्रेमलाल पिता भैयालाल 1/4 रामखेलावन सुधनी, रामप्रकाश, ब्रजबिहारी, जयप्रकाश पुत्र बुट्टन गायत्री रुकमनिया पिता देवशरण मु. बेवा राजन भोला ललनिया पिता राजन 3/4 ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	513	0.0320
81	अयोध्यासिंह पिता हल्के सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	514	0.0640
82	अयोध्यासिंह पिता हल्के सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	515	0.0030

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 6			
83	रामलाल सिंह पिता अमरजीत सिंह पता बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	521/1	0.0320
84	जयसिंह पिता दिनकर सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	521/2	0.0280
85	रामबालक पिता रामसुत जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	527	0.0160
86	बालाप्रसादपिता वशिष्ठ प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	528	0.0200
87	राजाभइया पिता राजरूप सिंह 1/3, सुबिरन पिता राजरूप सिंह 1/3, मु.राजाबेटी बेवा धनराशि सिंह, रिंकी पुत्री धनराशि सिंह, सतेन्द्र पुत्र धनराशि सिंह 1/3, पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	695	0.0740
88	रामलाल सिंह पिता अमरजीत सिंह पता बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	696	0.0670
89	पुनीत सिंह पिता हल्के सिंह जाति दिखित पता सा. देह भूमि स्वामी	697	0.0530
90	समयलाल सिंह पिता शिवराम सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	709	0.0340
91	नारायण सिंह पिता पंजाब सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	710	0.0530
92	राजा सिंह पिता शिवराम सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	716	0.0340
93	गजाधर सिंह पिता रामबिहारी सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	717	0.0340
94	पार्वती सिंह बेवा मुरली सिंह 1/3, पुष्पेन्द्रसिंह पिता मुरली सिंह 1/3, संदीपसिंह पिता मुरली सिंह 1/3 पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	719	0.0300
95	गजाधर सिंह पिता रामबिहारी सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	720	0.0050
96	गजाधर सिंह पिता रामबिहारी सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	721	0.0260
97	सुरेश सिंह पिता रामसहाय सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	723	0.0050
98	मु.बिमला बेवा महेश सिंह, शिवम, सत्यम पिता महेश सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	724/1	0.0300
	सुरेश सिंह पिता रामसहाय सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	724/2	
99	सुरेश सिंह पिता रामसहाय सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	725	0.0230
100	सुरेश सिंह पिता रामसहाय सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	726	0.0080
101	सुरेश सिंह पिता रामसहाय सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	727	0.0240
102	सुल्तानसिंह पिता पंजाब सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	805	0.0550
103	रामकली सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह जाति राजपूत पता सा. गलबल भूमि स्वामी	806/1	0.1220
	पंजाब सिंह पिता भगवान दीन सिंह जाति राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	806/2	

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 7			
104	रामकली सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह जाति राजपूत पता सा. गलबल भूमि स्वामी	807/1	0.1180
	पंजाब सिंह पिता भगवान दीन सिंह जाति राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	807/2	
105	शैलेन्द्र प्रताप सिंह पिता शिवमुगल सिंह जाति राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	811/2	0.0120
106	शैलेन्द्र प्रताप सिंह पिता शिवमुगल सिंह जाति राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	812/2	0.0020
107	ललिता बेवा शिवप्रसाद, दुर्गाप्रसाद तनय शिवप्रसाद श्रीवास्तव पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	814	0.0610
108	मु.रामवती बेवा माधौप्रसाद पता सा.बिरसिंहपुर भूमि स्वामी, गजेन्द्र पिता माधौप्रसाद, मुकेश पिता माधौप्रसाद, मु. सरला बेवा रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अनामिका पुत्री रावेन्द्र कुमार, चित्रांशु पिता रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पता सा.देह भूमि स्वामी	815	0.0850
109	मु. रन्नु बेवा शंकर 1/4, धीरेन्द्र पिता शंकर 1/4, नीरज पिता शंकर 1/4, आरती पिता शंकर सिंह राजपूत 1/4 पता सा. देह भूमि स्वामी	860	0.0450
110	शिवमंगल सिंह पिता रामबिहारी सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	862/2	0.0580
111	मनोज सिंह पिता गजाधर सिंह नाबा.बली सर मां नीला सिंह पति गजाधर सिंह दिखित पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	863/2	0.0740
112	मूरत सिंह पिता रामबिहारी सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	866	0.0550
113	मूरत सिंह पिता रामबिहारी सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	867	0.0230
114	ज्ञान सिंह पिता दिवाकर सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	869	0.0040
115	ज्ञान सिंह पिता दिवाकर सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	870	0.0310
116	मु.रामवती बेवा माधौप्रसाद पता सा.बिरसिंहपुर भूमि स्वामी, गजेन्द्र पिता माधौप्रसाद, मुकेश पिता माधौप्रसाद, मु. सरला बेवा रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अनामिका पुत्री रावेन्द्र कुमार, चित्रांशु पिता रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पता सा.देह भूमि स्वामी	871/1/1	0.0060
117	पुनीत सिंह पिता हल्के सिंह जाति दिखित पता सा. देह भूमि स्वामी	871/1/2	0.0035
118	अयोध्या सिंह तनय हल्के सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	871/1/3	0.0035
119	अयोध्या सिंह तनय हल्के सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	871/2	0.0060
120	ललिता बेवा शिवप्रसाद, दुर्गाप्रसाद तनय शिवप्रसाद श्रीवास्तव पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	872/1/1	0.0170
121	अयोध्या सिंह तनय हल्के सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	872/2	0.0090

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 8			
122	मु.रामवती बेवा माधौप्रसाद पता सा.बिरसिंहपुर भूमि स्वामी गजेन्द्र पिता माधौप्रसाद ,मुकेश पिता माधौप्रसाद ,मु. सरला बेवा रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ,अनामिका पुत्री रावेन्द्र कुमार चित्रांशु पिता रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पता सा.देह भूमि स्वामी	873/1/1	0.0020
	ललिता बेवा शिवप्रसाद ,दुर्गाप्रसाद तनय शिवप्रसाद श्रीवास्तव पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	873/1/2	
	मु. सावित्री बेवा विश्वनाथ विनोद कुमार ,प्रमोद कुमार ,पिता विश्वनाथ श्रीवास्तव पता सा.देह भूमि स्वामी	873/1/3	
	अयोध्या सिंह तनय हल्के सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	873/2	
123	समयलाल वल्द शिवराम सिंह राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	874	0.0120
124	मु.रामवती बेवा माधौप्रसाद पता सा.बिरसिंहपुर भूमि स्वामी गजेन्द्र पिता माधौप्रसाद ,मुकेश पिता माधौप्रसाद ,मु. सरला बेवा रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ,अनामिका पुत्री रावेन्द्र कुमार चित्रांशु पिता रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पता सा.देह भूमि स्वामी	882	0.0060
125	मु.रामवती बेवा माधौप्रसाद पता सा.बिरसिंहपुर भूमि स्वामी गजेन्द्र पिता माधौप्रसाद ,मुकेश पिता माधौप्रसाद ,मु. सरला बेवा रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ,अनामिका पुत्री रावेन्द्र कुमार चित्रांशु पिता रावेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पता सा.देह भूमि स्वामी	883/1	0.0300
126	ललिता बेवा शिवप्रसाद ,दुर्गाप्रसाद तनय शिवप्रसाद श्रीवास्तव पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	883/2	0.0290
127	अमृता पिता अयोध्या सिंह पता सतना भूमि स्वामी	884	0.0310
128	रामलाल सिंह पिता अमरजीत सिंह पता बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	975/2	0.0090
129	सुधर सिंह पिता अमरजीत सिंह पता सतना भूमि स्वामी	975/3	0.0220
130	अमरजीत सिंह पिता तपसी सिंह पता बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	977/1	0.0020
131	धर्म सिंह पिता अमरजीत सिंह पता सतना भूमि स्वामी	977/2	0.0590
132	जयसिंह पिता दिनकर सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	981	0.0060
133	जयसिंह पिता दिनकर सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	982	0.0380
134	पार्वती सिंह बेवा मुरली सिंह 1/3 ,पुष्पेन्द्र सिंह पिता मुरली सिंह 1/3 ,संदीप सिंह पिता मुरली सिंह 1/3 पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	983	0.0230
135	मु. रन्नु बेवा शंकर 1/4,धीरेन्द्र पिता शंकर 1/4,नीरज पिता शंकर 1/4 ,आरती पिता शंकर सिंह राजपूत 1/4 पता सा. देह भूमि स्वामी	984/1	0.0120
136	शिवम सिंह पिता महेश सिंह 1/3 ,मु. विमला पत्नी महेश सिंह 1/3, सत्यम पिता महेश सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	984/2	0.0330
137	जयराम सिंह पिता दिनकर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	986	0.0060
138	जयराम सिंह पिता दिनकर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	987	0.0230

ग्राम बम्हौरी तहसील बिरसिंहपुर पेज नं. 9			
139	शिरोमण सिंह पिता बाल्मीक सिंह राजपूत पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	1006	0.0070
140	राजाभइया पिता राजरूप सिंह 1/3, सुबिरन पिता राजरूप सिंह 1/3, मुराजाबेटी बेवा धनराशि सिंह, रिंकी पुत्री धनराशि सिंह, सतेन्द्र पुत्र धनराशि सिंह 1/3, पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	1014/2	0.0080
141	राजाभइया पिता राजरूप सिंह 1/3, सुबिरन पिता राजरूप सिंह 1/3, मुराजाबेटी बेवा धनराशि सिंह, रिंकी पुत्री धनराशि सिंह, सतेन्द्र पुत्र धनराशि सिंह 1/3, पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	1015	0.0630
142	गीता सोनी पत्नी रमेश प्रसाद सोनी पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	1017/1/1	0.0170
143	संगीता देवी पत्नी इन्द्रेश कुमार दुबे, रीतादेवी पत्नी अजय कुमार दुबे जाति ब्रा. पता सा. बड़ीपाटिन कर्बी उ.प्र. भूमि स्वामी	1017/1/2	0.0410
144	मुन्नी पाल पत्नी रामलाल पाल, प्रेमलाल पाल पिता जगन्नाथ पाल पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	1017/2	0.0120
		योग	4.2650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2618-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 28 नवम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - पैकोरा

(घ) क्षेत्रफल- 0.8600 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2	3	4
1	ज्ञानीदत्त पिता केदार प्रसाद पता सा० पैकोरी	187	0.0290
2	ज्ञानीदत्त पिता केदार प्रसाद पता सा० पैकोरी	189	0.0150
3	कृष्ण कुमारी पत्नी रामरूप पता खड़ौरी	188	0.1700
4	विजयकरण पिता वंशगोपाल पता खड़ौरी पैकोरा	192	0.2110
5	रामनरेश पिता विशेषर काछी पता सा० पैकोरी	190/1/1	0.0410
6	गयाप्रसादस रामचरण चंद्रवती पिता रामस्वरूप कुशवाहा जाति काछी	190/2	0.2090
7	गिरजा प्रसाद पिता दशरथ पता सा० देह सतना	190/3	0.1830
8	गिरजा प्रसाद पिता दशरथ पता सा० देह सतना	191/3	0.0020
	योग		0.8600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 4/1/...../भू-अर्जन/24 दि0 07/01/2025
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	पिपरीकला	1.1400	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-7 सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोंडी गरादा माइनर नं-1 के निर्माण हेतु
क्र0	खसरा नं.			अर्जित रकवा हे. में	
(1)	(2)			(3)	
1	1058			0.0360	
2	1057			0.0100	
3	1061			0.0420	
4	1062			0.0310	
5	1064			0.0150	
6	1107/1/1			0.0100	
7	417			0.1250	
8	416/1			0.0040	
9	17/2/1			0.3270	
10	1927/2/2/1			0.0630	
11	2050/2/1			0.0100	
12	2073/1			0.0200	
13	2073/2				
14	1533			0.0800	

15	1900/2	0.0300
16	1900/3	
17	1900/4	
18	1911/1	0.0270
19	1911/2	
20	1911/3	
21	1169/1	0.0900
22	1169/2	
23	1169/3	
24	1169/4	
25	1169/5	
26	1133/1	0.0300
27	1133/2	
	योग रकबा हे.में-	0.9500
	बीस प्रतिशत अतिरिक्त भूमि हे.में	0.1900
	कुल रकबा हे.में -	1.1400

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-43-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 7 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - शाह

(घ) क्षेत्रफल- 3.1460 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हे.में.
1	2	3	5
1	राजेन्द्र पिता बाला प्रसाद जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/2	0.021
2	रामकरण पिता हीरालाल जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/3	0.060
3	रामनारायण तिवारी पिता विश्वनाथ तिवारी पता खुटहा रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84/4	0.005
4	विमलादेवी पुत्री रामकृपाल उर्फ कालूराम जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	79	0.154
5	चन्दा बेवा आशीष जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	90	0.010
6	केसव प्रसाद पिता रामकृपाल जाति ब्राहमण पता रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88	0.002
7	चन्दा बेवा आशीष जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	91/1	0.045
8	नंदनी प्रसाद पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91/2	0.044
9	चन्दा बेवा आशीष जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	112/1	0.004
10	नंदनी प्रसाद पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	112/2	0.005
11	चन्दा बेवा आशीष जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	111/1	0.076
12	नंदनी प्रसाद पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	111/2	0.075
13	चन्दा बेवा आशीष जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	110/1/1	0.068

14	नंदनी प्रसाद पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/1/2	0.068
15	कमलभान पिता हीरालाल जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/1	0.030
16	रामभुवन पिता हीरालाल जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2	0.031
17	चन्दा बेवा आशीष जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	122/1	0.009
18	नंदनी प्रसाद पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122/2	0.009
19	मु उषा देवी बेवा हीरालाल जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	117	0.142
20	देवेन्द्र केवट पिता बैजनाथ केवट जाति मुड़हा,पता शाह शाह अमरपाटन सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/1	0.006
21	रामनरेश पिता रामभरोषा जाति पाल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	118/1	0.041
22	दिनेश पिता रामभरोसा जाति पाल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	118/2	0.040
23	रामनरेश पिता रामभरोषा जाति पाल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120/1	0.006
24	दिनेश पिता रामभरोसा जाति पाल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120/2	0.006
25	दिनेश पिता रामभरोसा जाति पाल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	415	0.003
26	रामनरेश पिता रामभरोषा जाति पाल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	163/1	0.003
27	अजय कुमार पिता प्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह साकिन शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	411	0.014
28	सीताराम पिता रामधनी जाति गड़रिया पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166/1	0.022
29	रामखेलावन पिता रामधनी जाति गड़रिया पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166/2	0.021
30	सीताराम पिता रामधनी जाति गड़रिया पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	167/1	0.028
31	रामखेलावन पिता रामधनी जाति गड़रिया पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	167/2	0.028
32	रामखेलावन पिता रामधनी जाति गड़रिया पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/2	0.002
33	ऋषभ पिता विनोद कुमार शुक्ल जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	169	0.125
34	देवेन्द्र केवट पिता बैजनाथ केवट जाति मुड़हा पता शाह शाह अमरपाटन सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	170	0.020

35	संध्या पत्नी विनोद कुमार शुक्ल जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	171	0.029
36	संध्या पत्नी विनोद कुमार शुक्ल जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	174	0.056
37	रामसजीवन केवट पिता जमुना केवट पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/1/1	0.024
38	कुसुमकली-बेवा-रामावतार-केवट सुरेश-राजकुमार केवट पिता रामावतार केवट पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/1/2	0.005
39	ईश्वरदीन पिता सुखलाल केवट पता सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/4	0.036
40	मंगल पिता रामसेवकसा जाति मुडहा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	176	0.104
41	रामसजीवन केवट पिता जमुना केवट पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/1/1	0.010
42	रामबहोर अर्जुन-प्रसाद-केवट केवट पिता रामसिया केवट जाति मुडहा पता साकिन शाह शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/3	0.027
43	अजय कुमार पिता प्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह साकिन शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	179	0.038
44	अजय कुमार पिता प्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह साकिन शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	180	0.222
45	रामसुधार साकेत पिता रामसखा साकेत पता साकिन करहिया नंबर 1 तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/4/2	0.014
46	शासकीय	158/1	0.040
47	शारदा पिता रामकुमार जाति कुर्मी पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	158/2	0.125
48	अजय कुमार पिता प्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह साकिन शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	158/3	0.010
49	इन्द्रमान पिता गनपत जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/1/2	0.030
50	छोटेलाल पिता रामस्वरूप जाति पटेल पता रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/2/1/1	0.016
51	शिवलाल पिता रामस्वरूप जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/2/2	0.017
52	गिरजा प्रसाद पिता रामस्वरूप जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187/2/3	0.017
53	केसव प्रसाद पिता रामकृपाल जाति ब्राह्मण पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	157/1	0.062
54	छकौडी पिता रामदत्त जाति मुडहा पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	157/2	0.062
55	भैयालाल पिता गनपत जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/1	0.174

56	द्वारिका प्रसाद पटेल पिता गणपत पटेल पता साकिन शाह शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/2/1	0.030
57	रामानंद पटेल पिता भैयालाल पटेल पता साकिन बिगौड़ी बिगौड़ी अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	155/3/2	0.010
58	रमाकांत मिश्रा पिता जानकी प्रसाद मिश्रा जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	153/2/2	0.014
59	शिवलाल पिता रामस्वरूप जाति पटेल पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	154/1	0.268
60	बेवा सुखमन्ती पति सीताराम जाति कुर्मी पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	149/1/1/4	0.208
61	रामखेलावन पिता रामधनी जाति गड़रिया पता शाह रामपुर बाघेलान सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	143/2	0.264
62	अजय कुमार पिता प्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण पता साकिन शाह साकिन शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	145	0.011
	योग-		3.146

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा की बैजनाथ टेल माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-44-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - जमुनिया 159

(घ) क्षेत्रफल- 1.8450 हे०

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवाहे. में
1	2	3	4
1	सुशीलादेवी पत्नी शम्भू प्रसाद जाति ब्रा पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	312/3	0.0220
2	मातली सिंह बेवा सदाबहादुर सिंह कृष्णा कुमार सिंह पिता सदाबहादुर सिंह वदन बहादुर सिंह पिता शिव प्रसाद सिंह बैजनाथ सिंह पिता शीतल सिंह पता सा० त्योंधरी भूमिस्वामी	313	0.0100
3	मालती सिंह बेवा सदाबहादुर सिंह कृष्ण कुमार सिंह पिता सदाबहादुर सिंह बदनबहादुर सिंह पिता शिवप्रसाद सिंह बैजनाथ सिंह पिता शीतल सिंह पता सा० त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	314	0.0660
4	सुशीलादेवी पत्नी शम्भू प्रसाद जाति ब्रा पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	317/2	0.1080
5	पुष्पेन्द्र सिंह पिता समरजीत सिंह पता सा० त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	309/1/1	0.0060
6	मोतीबाई बेवा केदार प्रसाद विश्वनाथ विष्णुदत्त धनेश प्रसाद पिता केदार प्रसाद जाति ब्रा० पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	310/1	0.0160
7	सुखेन्द्र प्रसाद पिता शंभू प्रसाद जाति ब्रा० पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	310/2	0.1400
8	सुखेन्द्र प्रसाद पिता शंभू प्रसाद जाति ब्रा० पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	311/1/2	0.0380
9	दिनेश प्रसाद पिता शंभू प्रसाद जाति ब्रा० पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	311/1/5	0.1070
10	साहब बहादुर सिंह पिता कमलजीत सिंह जाति बघेल पता सा० त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	297/1	0.0380
11	रामबहादुर सिंह पिता दलजीत सिंह जाति बघेल पता सा० त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	297/2	0.0880
12	पुष्पेन्द्र सिंह पिता समरजीत सिंह पता सा० त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	294/1/1	0.0320
13	राजपती सिंह बेवा रामबाबू मनोज राहुल पिता रामबाबू सिंह जाति बघेल पता सा० त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	295	0.1370

14	गायत्रीदेवी पत्नी जगतप्रताप सिंह अमरप्रकाश सिंह ओमप्रकाश सिंह पिता जगतप्रताप सिंह शिवसागर प्रशांत सिंह पुष्पेन्द्र सिंह अमरजीत जाति बघेल पता सा0 त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	290/1	0.0930
15	पुष्पेन्द्र सिंह पिता समरजीत सिंह पता सा0 त्योंधरी सतना भूमिस्वामी	290/2	0.0140
16	राजेश प्रताप सिंह पिता रमेश प्रताप सिंह जाति राठौर पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	288	0.1580
17	कलावती सिंह बेवा अमरराज सिंह राठौर पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	287/1	0.1430
18	राजकुमार सिंह पिता बलवान सिंह मदौरिया पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	276/1	0.0050
19	आशीष सिंह राठौर पिता महेन्द्र प्रताप सिंह राठौर पता सा0 देह	280	0.0650
20	चन्द्रवती सिंह पिता राबेन्द्र सिंह जाति राठौर पता सतना भूमिस्वामी	285	0.0560
21	महेन्द्र प्रताप सिंह पिता गिरजा बक्स सिंह राठौर पता सा0 देह	284	0.0490
22	इन्द्रपाल सिंह वगैर पिता शिव बक्स सिंह एवं बासमती बेवा गिरजा, बक्स सिंह महेन्द्र प्रताप सिंह पिता गिरजा बक्स सिंह, श्यामदुलारी पत्नी कामता सिंह छोटेलाल सिंह पिष्पेन्द्र सिंह पिता कामता सिंह, नरेश प्रताप सिंह सुरेश प्रताप सिंह एवं महेश प्रताप सिंह जीवेश प्रताप सिंह व मनोज प्रताप सिंह पिता अनरिद्ध सिंह सुरेन्द्र सिंह बीरेन्द्र सिंह पिता जानकी बक्स सिंह वगैरह जाति राठौर पता सा0 देह सतना भूमिस्वामी	283	0.1560
23	पंचवती देवी बेवा रमेश प्रताप सिंह राजेश प्रताप सिंह संजय सिंह प्रदीप सिंह जयदीप सिंह प्रवीण कुमारी नाबालिक पिता रमेश प्रताप सिंह जाति राठौर पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	222	0.1430
24	इन्द्रपाल सिंह वगैर पिता शिव बक्स सिंह एवं बासमती बेवा गिरजा, बक्स सिंह महेन्द्र प्रताप सिंह पिता गिरजा बक्स सिंह, श्यामदुलारी पत्नी कामता सिंह छोटेलाल सिंह पिष्पेन्द्र सिंह पिता कामता सिंह, नरेश प्रताप सिंह सुरेश प्रताप सिंह एवं महेश प्रताप सिंह जीवेश प्रताप सिंह व मनोज प्रताप सिंह पिता अनरिद्ध सिंह सुरेन्द्र सिंह बीरेन्द्र सिंह पिता जानकी बक्स सिंह वगैरह जाति राठौर पता सा0 देह सतना भूमिस्वामी	221	0.0080
25	मडकी पत्नी विसरा बोडडी सुकवरिया पिता सतइया लाला देमान पिता सतइया जाति कोल पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	92	0.0940
26	मडकी पत्नी विसरा बोडडी सुकवरिया पिता सतइया लाला देमान पिता सतइया जाति कोल पता जमुनिया 159 रामपुर बाघेलान सतना भूमिस्वामी	93	0.0080
27	राजेश प्रताप सिंह पिता रमेश प्रताप सिंह जाति राठौर पता जमुनिया 159	94	0.0450
	योग		1.8450

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरिका की करही कोठार माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. •

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-142-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 17 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमिश्की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (म0प्र0शासन/निजी खाता)
(क) जिला :- सतना
(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम :- कुम्हरीला
(घ) क्षेत्रफल :- 1.2080 हेक्टेयर

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिदयतसकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	बेटाईलाल उर्फ उमादत्त रामऔतार जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	8/2	0.0080
2	अजयकुमार पिता मोहन लाल जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	12	0.0380
3	अजयकुमार पिता मोहन लाल जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	13	0.0060
4	लक्ष्मीप्रसाद पिता रामराज जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	15/2	0.0140
5	अजयकुमार पिता मोहन लाल जाति ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	17/1	0.0470
6	मु.सुन्दरिया बेवा होरिल प्रसाद ,मनोज कुमार ,गोकरण प्रसाद पिता होरिल प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	17/2	0.0400
7	मु.सुन्दरिया बेवा होरिल प्रसाद ,मनोज कुमार ,गोकरण प्रसाद पिता होरिल प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	18	0.0360
8	अरविन्द कुमार पिता केदार प्रसाद . पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	19	0.0540
9	अरविन्द कुमार पिता केदार प्रसाद . पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	21	0.0100
10	राजेन्द्र प्रसाद पिता ददोली प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	22	0.1270
11	राजेन्द्र प्रसाद पिता ददोली प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	23	0.0100
12	महेश प्रसाद पिता रामाधार ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	24/2	0.0220
13	अभिषेक कुमार पिता महेश प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी ,महेश प्रसाद पिता रामाधार ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	24/241	0.0240
14	अभिषेक कुमार पिता महेश प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी ,महेश प्रसाद पिता रामाधार ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	25	0.0610
15	चन्द्रशेखर ब्रसाद पिता कौशल प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	26	0.0280
16	चन्द्रशेखर ब्रसाद पिता कौशल प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	27	0.0060
17	चन्द्रशेखर ब्रसाद पिता कौशल प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	28	0.0080
18	चन्द्रशेखर ब्रसाद पिता कौशल प्रसाद ब्रा. पता सा. बम्हौरी भूमि स्वामी	29	0.0360
19	गिरजाप्रसाद पिता गजाधर प्रसाद ब्रा. पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	37/1	0.0640
	मुकेश कुमार पिता रामखेलावन पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	37/2	
	संजय कुमार पिता रामशिरोमणि ब्रा. पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	37/3	

ग्राम कुम्हरोला तहसील - बिरसिंहपुर पेज नं. 2			
20	रमेशकुमार वल्द गिरजा प्रसाद ब्रा. सा मझगवां भूमि स्वामी	37/249/1/1	0.0510
	मुकेश कुमार पिता रामखेलावन पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	37/249/2/1	
	धनंजय शर्मा पिता रामप्रसन्न शर्मा पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	37/249/2	
21	शरद कुमार पिता देवेन्द्र कुमार पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	38	0.0530
22	रामकिशोर पिता रामनिहोर जाति ब्रा. पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	39/1	0.0140
23	शरद कुमार पिता देवेन्द्र कुमार पता सा. मझगवां भूमि स्वामी	39/2	0.0270
24	उम्मीद पिता केदार प्रसाद . पता सा. बम्होरी भूमि स्वामी	41	0.0190
25	राजाराम तनय लक्ष्मण प्रसाद ब्रा. पता सा. गड़री भूमि स्वामी	63/1	0.0080
26	राजाराम तनय लक्ष्मण प्रसाद ब्रा. पता सा. गड़री भूमि स्वामी	64/1	0.0360
27	राजाराम तनय लक्ष्मण प्रसाद ब्रा. पता सा. गड़री भूमि स्वामी	64/252/1	0.0220
28	रामनिहोर मिश्रा पिता लालेशम मिश्रा जाति ब्रा. पता सा.मझगवां भूमि स्वामी	65/1	0.0160
29	राममुनि पिता रामायण प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मझगवां भूमि स्वामी	77	0.0240
30	राममुनि पिता रामायण प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.मझगवां भूमि स्वामी	79	0.0020
31	मु.दुलरिया बेवा मलुआ माधव,सरमन पिता मलुआ धोबी पता सा. गड़री भूमि स्वामी	80	0.1210
32	कल्ला, कोददा,बुद्धापिता सुदनिया ,ललिया ,रमकलिया पिता गैबिया,दुलरिया बेवा मलुआ,माधव,सरमन,मलुआ पिता मद्धू गौरी बुट्टी पिता उधवा जाति धोबी पता सा. गड़री भूमि स्वामी	81/2	0.0020
33	कल्ला, कोददा,बुद्धापिता सुदनिया ,ललिया ,रमकलिया पिता गैबिया,दुलरिया बेवा मलुआ,माधव,सरमन,मलुआ पिता मद्धू गौरी बुट्टी पिता उधवा जाति धोबी पता सा. गड़री भूमि स्वामी	82/2	0.0080
34	बेवा सविता पत्नी ज्ञानदत्त बीरेन्द्र,सतेन्द्र,मानेन्द्र ,हरेन्द्र पिता ज्ञानेन्द्र ब्रा. सा.मझगवां भूमि स्वामी	90/1/3/1	0.0450
35	श्रीमती गस्सू पत्नी अशोक कुमार शुक्ला सा.मझगवां भूमि स्वामी	90/1/3/2	0.0500
36	श्रीमती सरस्वती पत्नी रामप्रपन्न शर्मा सा.मझगवां भूमि स्वामी	93	0.0350
37	रमेशकुमार वल्द गिरजा प्रसाद ब्रा. सा मझगवां भूमि स्वामी	94/1	0.0100
38	अरविन्द कुमार पिता इन्द्रजीत मिश्रा. पता सा. कृष्णनगर सतना भूमि स्वामी	97	0.0260
		योग रकबा हे०में०	1.2080

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवां शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-143-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- बरा

(घ) क्षेत्रफल :- 4.4750 हेक्टेयर

पेज नं०।

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिद्यत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकवा हे0में0
1	श्रीमती सरोज सिंह पत्नी जगदीशसिंह सोमवंशी सा. चूंदकला भूमि स्वामी	139	0.0260
2	मुरलीधर पिता रामचरित्र तिवारी सा. चूंदखुर्द भूमि स्वामी	140/2	0.1120
3	शिवमूरत पिता रामचरित्र तिवारी सा. चूंदखुर्द भूमि स्वामी	143/1/1	0.1980
4	मुरलीधर पिता रामचरित्र तिवारी सा. चूंदखुर्द भूमि स्वामी	143/1/2	0.0300
5	राममूरत पिता रामचरित्र ब्राम्हण सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	143/2	0.1600
6	भैरम सिंह पिता छेदीलाल सिंह सोमवंशी सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	144/1	0.2800
7	आदित्यप्रताप सिंह तनय महाबीर सिंह सोम. सा. चूंदखुर्द भूमि स्वामी	144/2	0.2160
8	सुरेशसिंह पिता छेदी सिंह सोम. सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	144/3	0.2160
9	दलबीर सिंह पिता छेदी सिंह सोम. सा. चूंदखुर्द भूमि स्वामी	144/4	0.2230
10	छोटूसिंह पिता छेदी सिंह सोम. सा. चूंदखुर्द भूमि स्वामी	144/5	0.2170
11	श्रीमती गोमती पत्नी महाबीरसिंह सोम. सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	145/1/1	0.0420
12	भैरम सिंह पिता छेदीलाल सिंह सोमवंशी सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	146/1	0.0420.
13	रंजीता सिंह बेवा संतोषसिंह 1/2, सूरज सिंह पिता संतोषसिंह संरक्षक मां रंजीता सिंह बेवा संतोषसिंह 1/2 सोम. सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	146/2	0.0360
14	भैरम सिंह पिता छेदीलाल सिंह सोमवंशी सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	147/1	0.0140

ग्राम बरा तहसील - बिरसिंहपुर पृष्ठ नं. 2			
15	रंजीता सिंह बेवा संतोषसिंह 1/2, सूरज सिंह पिता संतोषसिंह संरक्षक मां रंजीता सिंह बेवा संतोषसिंह 1/2 सोम. सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	147/2	0.0280
16	भैरम सिंह पिता छेदीलाल सिंह सोमवंशी सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	148/1	0.0520
17	रंजीता सिंह बेवा संतोषसिंह 1/2, सूरज सिंह पिता संतोषसिंह संरक्षक मां रंजीता सिंह बेवा संतोष सिंह 1/2सोम. सा.चूंदखुर्द भूमि स्वामी	148/2	0.0360
18	हितेन्द्रसिंह पिता अमोल सिंह सा.चूंद खुर्द भूमि स्वामी	149/1/2/1	0.0830
19	मु.प्रभासिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह शशिभूषण सिंह, ब्रजभूषण सिंह पिता धीरेन्द्रसिंह सा. चूंदखुर्द भूमि स्वामी	149/1/2/2	0.0930
20	बुट्टी उर्फ बूटीबाई पिता जगन्नाथसिंह बरगाही सा.बरा भूमि स्वामी	183/1	0.1730
21	विनोदसिंह पिता गेंदमनसिंह सा. देह भूमि स्वामी	663/2	0.0960
22	तरुण सिंह, मोहित सिंह पिता चन्द्रप्रतापसिंह सा. बरा भूमि स्वामी	667	0.0100
23	राजमनसिंह पिता श्रीनिवास सिंह सा. बरा भूमि स्वामी	668/1	0.0100
	तरुणसिंह, मोहितसिंह पिता चन्द्रप्रतापसिंह सा. बरा भूमि स्वामी	668/2	
24	धर्मेन्द्रसिंह पिता राजमनसिंह सा.बरा भूमि स्वामी	670/1/1	0.1130
25	सतेन्द्रसिंह पिता राजमनसिंह सा.बरा भूमि स्वामी	670/1/2	0.1130
26	तरुणसिंह, मोहितसिंह पिता चन्द्रप्रतापसिंह सा. बरा भूमि स्वामी	670/2	0.2240
27	धर्मेन्द्रसिंह पिता राजमनसिंह सा.बरा भूमि स्वामी	671/1/1	0.0350
	सतेन्द्रसिंह पिता राजमनसिंह सा.बरा भूमि स्वामी	671/1/2	
	तरुणसिंह पिता चन्द्रप्रतापसिंह सा. बरा भूमि स्वामी	671/2/1	
	मोहितसिंह पिता चन्द्रप्रतापसिंह सा. बरा भूमि स्वामी	671/2/2	
	तरुणसिंह, मोहितसिंह पिता चन्द्रप्रतापसिंह सा. बरा भूमि स्वामी	671/2/3	
28	राजमनसिंह पिता श्रीनिवास सिंह सा. बरा भूमि स्वामी	680	0.0120
29	रणबहादुरसिंह पिता छोटेलाल सिंह बघेल पता सा. बरा भूमि स्वामी	681/2	0.3410
30	रणबहादुरसिंह पिता छोटेलालसिंह बघेल पता सा. बरा भूमि स्वामी	682	0.0280
31	रणबहादुरसिंह पिता छोटेलालसिंह बघेल पता सा. बरा भूमि स्वामी	683	0.0030
32	अखिलप्रतापसिंह पिता रणबहादुरसिंह बघेलसा. देह भूमि स्वामी	690/2	0.0190
33	सौखीलालसिंह पिता ददनसिंह राजपूत सा. बरा भूमि स्वामी	694/1	0.2670
	श्रीमती चंदादेवी पत्नीसूर्यभान चौधरी सा. गाँधीग्राम रामपुर चौरासी भूमिस्वामी	694/2	
34	सौखीलालसिंह पिता ददनसिंह राजपूत सा. बरा भूमि स्वामी	695/1	0.0160

ग्राम बरा तहसील - बिरसिंहपुर			पेज नं. 3
35	सौखीलालसिंह पिता ददनसिंह राजपूत सा. बरा भूमि स्वामी	697/1/1	0.1760
	श्रीमती चंदादेवी पत्नीसूर्यभान चौधरी सा. गाँधीग्राम रामपुर चौरासी भूमिस्वामी	697/1/2	
	बुटईया सिंह बेवा मनराजसिंह सा.बरा भूमि स्वामी 1/10, गणेश सिंह पिता मनराजसिंह 1/10, सुखेन्द्रसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, पुष्पेन्द्रसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, विनोदसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, बिमला पुत्री मनराजसिंह 1/10, उमेशसिंह पुत्री मनराजसिंह 1/10, नीलमसिंह पुत्री मनराजसिंह 1/10, गोल्डी पुत्री मनराजसिंह 1/10, मोहित सिंह पिता विजयबहादुर सिंह 1/20, नयनसिंह पिता विजयबहादुर सिंह 1/20, सा. बरा भूमि स्वामी मनराजसिंह पिता हीरालालसिंह राजपूत सा.बरा भूमि स्वामी	697/2	
36	बुटईया सिंह बेवा मनराजसिंह सा.बरा भूमि स्वामी 1/10, गणेश सिंह पिता मनराजसिंह 1/10, सुखेन्द्रसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, पुष्पेन्द्रसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, विनोदसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, बिमला पुत्री मनराजसिंह 1/10, उमेशसिंह पुत्री मनराजसिंह 1/10, नीलमसिंह पुत्री मनराजसिंह 1/10, गोल्डी पुत्री मनराजसिंह 1/10, मोहित सिंह पिता विजयबहादुर सिंह 1/20, नयनसिंह पिता विजयबहादुर सिंह 1/20, सा. बरा भूमि स्वामी	698/1/1	0.1880
	विजय सिंह पिता रामरतन सिंह राजपूत पता सा.बरा भूमि स्वामी	698/1/2	
	बुटईया सिंह बेवा मनराजसिंह सा.बरा भूमि स्वामी 1/10, गणेश सिंह पिता मनराजसिंह 1/10, सुखेन्द्रसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, पुष्पेन्द्रसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, विनोदसिंह पिता मनराजसिंह 1/10, बिमला पुत्री मनराजसिंह 1/10, उमेशसिंह पुत्री मनराजसिंह 1/10, नीलमसिंह पुत्री मनराजसिंह 1/10, गोल्डी पुत्री मनराजसिंह 1/10, मोहित सिंह पिता विजयबहादुर सिंह 1/20, नयनसिंह पिता विजयबहादुर सिंह 1/20, सा. बरा भूमि स्वामी	698/2/1	
	विजय सिंह पिता रामरतन सिंह राजपूत पता सा.बरा भूमि स्वामी	698/2/2	
37	रामरतन पिता टिरा जाति राजपूत पता सा. बरा भूमि स्वामी	699	0.0300
38	जगदीशप्रसाद पिता रामअनुराग ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	705/1	0.1210
39	सुराज बाई तनय कल्लू लोहार पता सा. देह भूमि स्वामी	705/2/2	0.1200

ग्राम बरा तहसील - बिरसिंहपुर			पेज नं. 4
40	चमेलीबाई पत्नी मंगलप्रसाद सोनार पता सा.देह । जनकलली पत्नी रमेशप्रसाद शुक्ला पता शक्ति विहार कालोनी सतना भूमि स्वामी	706/1	0.0150
	कुंजविहारी पिता मंगल प्रसाद सोनार पता सा. देह। जनकलली पत्नी रमेशप्रसाद शुक्ला पता शक्तिविहार कालोनी सतना भूमि स्वामी	706/2	
	बृजविहारी पिता मंगल प्रसाद सोनार पता सा. देह। जनकलली पत्नी रमेशप्रसाद शुक्ला पता शक्तिविहार कालोनी सतना भूमि स्वामी	706/3	
41	रघुवंशप्रसाद पिता कंधईलाल लोहार पता सा.देह भूमि स्वामी	721/1/1	0.0220
42	पुष्पेन्द्रसिंह उर्फ घनश्यामसिंह पिता गेंदमन सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	731	0.0040
43	पुष्पेन्द्रसिंह उर्फ घनश्यामसिंह पिता गेंदमन सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	732	0.0040
44	पुष्पेन्द्रसिंह उर्फ घनश्यामसिंह सिंह पिता गेंदमन सिंह पता सा.बरा भूमि स्वामी	733	0.0900
45	विनोद सिंह पिता गेंदमन सिंह पता सा0 बरा भूमि स्वामी	734	0.1410
रकबा हे0मे		4.4750	

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-144-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- पडुहार

(घ) क्षेत्रफल :- 3.6070 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्दियत सकूनत	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0में0
1	राजेन्द्र ,जीवनलाल ,मूर्ति पिता इन्द्रभान सुनीता बेवा सुशील सत्यम, शुभम,काजल पिता सुशील जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	230/1	0.0020
2	केदार प्रसाद पिता भगवानदीन जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	231	0.0670
3	लल्लूलाल रामचन्द्र पिता बालबिहारी जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	234/1	0.1870
	राजेन्द्र ,जीवनलाल ,मूर्ति पिता इन्द्रभान सुनीता बेवा सुशील सत्यम, शुभम,काजल पिता सुशील जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	234/2/1	
	सुमन पाण्डेय पति विष्णु पाण्डेय जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	234/2/2	
	शोभनाथ पिता वृन्दावन जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	234/3	
4	राजेन्द्र पिता सरजू प्रसाद व अरुणेन्द्र पिता राजेन्द्र प्रसाद मु. रामलली बेवा राजकुमार अजय पिता राजकुमार वीरेन्द्र कुमार पिता सरजू प्रसाद पता सा.बरौं भूमि स्वामी	235	0.0130
5	सम्पत कुमार पिता केदार प्रसाद जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	236/1	0.0100
6	विष्णु पिता केदार प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	236/2	0.0090
7	सम्पत कुमार पिता केदार प्रसाद जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	237/1	0.0180
8	विष्णु पिता केदार प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	237/2	0.0180
9	महेशप्राद पिता जमुना प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	249/2	0.0110
10	महेशप्राद पिता जमुना प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	250	0.0620
11	महेशप्राद पिता जमुना प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	251/2	0.0810

ग्राम पडुहार तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 2			
12	मु. प्रेमवती बेवा सौखीलाल,राजीव प्रसाद राजू मनोज,पिता सौखीलाल जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	252	0.0080
13	मु. प्रेमवती बेवा सौखीलाल,राजीव प्रसाद राजू मनोज,पिता सौखीलाल जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	427 / 2	0.0100
14	रामभोले पिता परमेश्वर दीन जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	428 / 2	0.0120
15	श्रीमती कौशिल्या पत्नी रामभोला जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	429	0.0160
16	रामभोले पिता परमेश्वर दीन जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	430 / 2	0.0120
17	चन्द्रपाल पिता परमेश्वर दीन जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	431	0.0700
18	चन्द्रपाल पिता परमेश्वर दीन जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	432	0.1010
19	रामरूप पिता कमला प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	433 / 1	0.0480
20	अरुणकुमार पुत्र काशी प्रसाद,राजेशकुमार पुत्र काशी प्रसाद , रामसोहावन पुत्र काशी प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	434	0.0260
21	रजनीश तनय जगदीश पाठक पता सकरवर भूमि स्वामी	603 / 1	0.0710
22	बृजेन्द्रप्रसाद तनय गोपनायक प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. रिमारी भूमि स्वामी	604	0.0260
23	बृजेन्द्रप्रसाद तनय गोपनायक प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. रिमारी भूमि स्वामी	605	0.0110
24	नन्हिया बेवा श्रीकृष्ण ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	606	0.0020
25	श्रीमती रामबाई उर्फ रम्मी गौतम पत्नी द्वारिका प्रसाद ब्रा0 पता सा0 पडुहार भूमि स्वामी	609 / 2	0.0040
26	राजकिशोर वल्द श्रीकृष्ण ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	610	0.0900
27	श्रीमती संगीता देवी पत्नी राजेश कुमार जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	625	0.0300
28	महेश प्रसाद पिता जमुना प्रसाद ब्रा0 पता सा0 पडुहार भूमि स्वामी	626 शा.न. 619 / 1 / 2	0.0730
	श्रीमती संगीता देवी पत्नी राजेश कुमार जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	626 शा.न. 619 / 2	
29	इन्द्रमणि पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा0 पता सा0 पडुहार भूमि स्वामी	627	0.0730
30	सुरेन्द्रकुमार, पिता तीरथ प्रसाद पयासी जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	628 / 1	0.0640
31	पुष्पराज पिता तीरथ प्रसाद पयासी जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	628 / 2	0.0540

ग्राम पडुहार तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 3			
32	शेखी पत्नी सुन्दरलाल ब्रा. पता सा. देह भूमिस्वामी	653/1/1/ 1	0.1550
	राजेन्द्र ,जीवनलाल ,मूर्ति पिता इन्द्रभान सुनीता बेवा सुशील सत्यम, शुभम,काजल पिता सुशील जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	653/1/1/ 2/1/1/1 /1	
	दरवारीलाल पिता सुन्दरलाल ब्रा. पता सा. देह भूमिस्वामी	653/1/1/ 2/1/1/1 /2	
	रामकृष्ण तनय सीताराम जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	653/1/1/ 2/1/2	
	रामनरेश पिता रामभजन चौकीदार पता पडुहार भूमि स्वामी	653/1/1/ 2/2	
	रामललोहर पिता रामरक्षा जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	653/1/2/ 3	
	शोभनाथ पिता वृन्दावन जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	653/1/2/ 5/2/1/1 /1/1	
	मु0 शकुन्तला बेवा रामस्वरूप सन्दीपकुमार,सन्जीव कुमार पिता रामस्वरूप दुर्गा,लक्ष्मी पुत्री रामस्वरूप ना.बली मां शकुन्तला ,रामनरेश पिता रामभजन कोटवार पता पडुहार भूमि स्वामी	653/2/1	
	मु0 शकुन्तला बेवा रामस्वरूप सन्दीपकुमार,सन्जीव कुमार पिता रामस्वरूप दुर्गा,लक्ष्मी पुत्री रामस्वरूप ना.बली मां शकुन्तला ,रामनरेश पिता रामभजन कोटवार पता पडुहार भूमि स्वामी	653/2/2	
33	मु0 मानवती बेवा श्यामबिहारी,व ब्रजबिहारी पिता श्यामबिहारी ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	659 शा.नं. 660	0.0760
34	राजललन वल्द सुदामा व मु. बेवा सुदामा जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	661	0.0040
35	राजललन वल्द सुदामा व मु. बेवा सुदामा जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	664शा.नं. 663/1/1	0.1060
	लालभाई पिता सुन्दरलाल जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	664शा.नं. 663/1/2	
	अच्छेलाल पिता सुन्दरलाल जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	664शा.नं. 663/2	
36	मु0 मानवती बेवा श्यामबिहारी,व ब्रजबिहारी पिता श्यामबिहारी ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	665/2	0.0320
37	रामललोहर पिता रामरक्षा जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	676/2	0.0270
38	मु0 शकुन्तला बेवा रामस्वरूप सन्दीपकुमार,सन्जीव कुमार पिता रामस्वरूप दुर्गा,लक्ष्मी पुत्री रामस्वरूप ना.बली मां शकुन्तला ,रामनरेश पिता रामभजन कोटवार पता पडुहार भूमि स्वामी	677/2	0.0850
39	अनिल कुमार पिता रामरक्षा जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	678	0.0450

ग्राम पडुहार तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 4			
40	अनिल कुमार पिता रामरक्षा जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	679	0.0380
41	मु०सुशीला बेवा बाबूलाल योगेश,अनूप पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	780/2/1	0.0020
42	रामभजन पिता मातादीन जाति वर्मा पता सा.देह भूमि स्वामी	782	0.0040
43	,रामआसरे रामप्रकाश ,रामनरेश, ललिया,पिता बल्देव प्रसाद ब्रा. सा.देह भूमि स्वामी	786/1/1	0.0410
44	राजकिशोर ,अशोककुमार पिता श्रीकृष्ण ब्रा. सा.देह भूमि स्वामी	786/1/2	0.0410
45	लवकुश प्रसाद ,लंकेश्वरप्रसाद,रामलखन संतोष कुमार ,अनिल कुमार पिता सोमेश्वर प्रसाद जाति ब्रा. . सा.देह भूमि स्वामी	786/2	0.0400
46	राजकुमार पिता भोलाप्रसाद ब्रा. सा.देह भूमि स्वामी	787	0.0380
47	मथुरा प्रसाद पिता भोलाप्रसाद ब्रा. पता सा.देह भूमि	788/2	0.0280
48	मु० मानवती बेवा श्यामबिहारी,व ब्रजबिहारी पिता श्यामबिहारी ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	789	0.0040
49	सौखीलाल पिता बृजलाल ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	827	0.0080
50	राजकुमार पिता भोला प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	833/1	0.0100
	मु.बेवा भोला प्रसाद ,महावीर मथुरा राजकुमार पुत्रगण व गुलाब मरी पुत्रियां पिता भोलाप्रसाद रामदुलारे पिता पता सा. देह भूमि स्वामी	833/2	
51	रामसखा ,रामजी प्रदीपकुमार पिता मंगलदीन श्रीमती सुनीता पत्नी कोदूलाल ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	835	0.0170
52	रामहृदय पिता बृजलाल ब्रा.पता सा. देह	836	0.0100
53	मु० सुशीला बेवा बाबूलाल योगेश,अनूप पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	838/1	0.0160
54	बद्री प्रसाद कल्याण प्रसाद गुलजारी लाल पिता रामदुलारे ब्रा. पता सा. देह भूमि	839/1	0.0020
55	बद्री प्रसाद कल्याण प्रसाद गुलजारी लाल पिता रामदुलारे ब्रा. पता सा. देह भूमि	840/1	0.1150
56	रामकृपाल पिता सीताराम प्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	841/2	0.0190
57	रामसखा पिता मंगलदीन ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	842	0.0280
58	मंगलदीन वल्द चिन्तामन जाति ब्रा. . पता सा. देह भूमि स्वामी	843	0.0390
59	मंगलदीन वल्द चिन्तामन जाति ब्रा. . पता सा. देह भूमि स्वामी	844	0.0110
60	जनार्दन प्रसाद पिता कालूराम जाति ब्रा. . पता सा. देह भूमि स्वामी	857	0.0170
61	रघुनाथ पिता कालूराम जाति ब्रा. . पता सा. देह भूमि स्वामी	872/2	0.0040

ग्राम पडुहार तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 5			
62	रामसखा रामजी प्रदीप कुमार पिता मंगलदीन श्रीमती सुनीता पत्नी कोदूलाल ब्रा. . पता सा. देह भूमि स्वामी	875/2	0.0240
63	सत्यनारायण पिता गंगाप्रसाद जाति ब्रा. . पता सा. देह भूमि स्वामी	876/2	0.0970
64	सत्यनारायण पिता गंगाप्रसाद व मु. मुतिनिया बेवा गंगाप्रसाद जाति ब्रा. . पता सा. पटना कला भूमि स्वामी	877	0.0480
65	गयाप्रसाद पिता रामरूप ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	887/2	0.0900
66	अवधनरेश रामनरेश बालिक रमाकान्त रामदास लक्ष्मीकान्त ना.वली सर. मां पंची बेवा मकसूदन ब्रा0 पता सा0 देह भूमि स्वामी	888	0.0700
67	रोशनलाल पिता सौखीलाल ब्रा0 पता सा 0 देह भूमि स्वामी	890/1	0.0350
68	मु0 रामबाई बेवा द्वारिका प्रसाद इन्द्रमणि राजेश, बृजेश पिता द्वारिका प्रसाद व केशकली पुत्री द्वारिका प्रसाद ब्रा0 पता सा 0 देह भूमि स्वामी	895/1	0.0040
69	म0प्र0 शासन	896	0.0280
70	राजबहादुर पुत्र शालिकराम ब्रा0 पता सा 0 देह भूमि स्वामी लक्ष्मणाचार्य उर्फ लवकुश पुत्र शालिकराम ब्रा0 पता सा 0 देह भूमि	897	0.0120
71	राजबहादुर पुत्र शालिकराम ब्रा0 पता सा 0 देह लक्ष्मणाचार्य उर्फ लवकुश पुत्र शालिकराम ब्रा0 पता सा 0 देह भूमि	898	0.0280
72	शिवकुमार पिता रामकरण जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	901	0.0220
73	सत्यनारायण पिता गंगाप्रसाद व मु. मुतिनिया बेवा गंगाप्रसाद जाति ब्रा. . पता सा. पटना कला भूमि स्वामी	907	0.0190
74	म0प्र0 शासन	908/1	0.0160
75	नरोत्तमलाल पुत्र छोटेलाल जाति ब्राम्हण पता पडुहार भूमि स्वामी	908/2	0.0160
76	सौखीलाल पिता बृजलाल ब्राम्हण पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	909	0.0220
77	महेन्द्र कुमार पिता शिवकुमार ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	917	0.0430
78	रामकिशोर तनय चुनकाई प्रसाद पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	918	0.0380
79	हनुमान प्रसाद पिता बिहारीलाल तिवारी पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	919	0.0160
80	अच्छेलाल पिता सौखीलाल ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	920/2	0.0330
81	अच्छेलाल पिता सौखीलाल ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	921/1	0.0240
82	महादेव पुत्र धुरमंगल पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	972/1	0.0030

ग्राम पडुहार तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 6			
83	रामलखन पुत्र धुरमंगल पता सा. पडुहार भूमि	972/2	0.0030
84	रमेश प्रसाद पुत्र धुरमंगल पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	972/3	0.0020
85	नीलम गौतम पत्नी गजेन्द्र प्रसाद गौतम पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	972/4	0.0080
86	नीलम गौतम पत्नी गजेन्द्र प्रसाद गौतम पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	972/5	0.0080
87	रामयस पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	974	0.0020
88	रामयस पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	979/1	0.0040
89	राजकुमारी बेवा मथुरा प्रसाद ,गोकुल राजेन्द्र पिता मथुरा ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	987	0.0440
90	राममनोहर पिता केदार प्रसाद ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	988	0.0310
91	सालिकराम पिता गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	989/2	0.0120
92	राजबहादुर पिता सालिकराम जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	990	0.0130
93	मु.लोली बेवा भागवत ,राजाप्रसाद ,कैलाश प्रसाद , शत्रुघ्न प्रसाद पिता भागवत ,लीला ,उर्मिला पिता भागवत प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	991/1	0.0050
94	रामयस पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	992	0.0140
95	रामयस पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	993	0.0040
96	रामयस पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	994	0.0290
97	रामयस पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	995/1	0.0500
	मु.लोली बेवा भागवत ,राजाप्रसाद ,कैलाश प्रसाद , शत्रुघ्न प्रसाद पिता भागवत ,लीला ,उर्मिला पिता भागवत प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	995/2	
98	शिवकुमार पिता रामकरण जाति ब्राह्मण पता पडुहार भूमि स्वामी	996	0.0190
99	मु.सुशीला बेवा बाबूलाल योगेश अनूप पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	997	0.0160
100	मु.सुशीला बेवा बाबूलाल योगेश अनूप पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	998	0.0460
101	रामयस पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	999/3	0.0080
102	सत्यनारायण वल्द गंगाप्रसाद व मुतिनिया बेवा गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पटनाकला भूमि स्वामी	1011	0.0310
103	सत्यनारायण वल्द गंगाप्रसाद व मुतिनिया बेवा गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पटनाकला भूमि स्वामी	1012	0.0210

ग्राम पडुहार तहसील-बिरसिंहपुर पेज नं. 7			
104	सत्यनारायण वल्द गंगाप्रसाद व मुतिनिया बेवा गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पटनाकला भूमि स्वामी	1013	0.0180
105	रामनिवास पिता रामकुमार जाति ब्रा. पता सा. कौड़िहाई भूमि स्वामी	1014/1	0.0320
106	कमलेश, उमानरेश,पिता रामजश जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	1017/2	0.0500
107	रामयश पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	1018	0.0060
108	रामयश पिता ब्रजनंदन जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	1019	0.0560
109	सौखीलाल पिता बृजलाल जाति ब्रा. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	1022	0.0040
110	राममनोहर पिता केदार प्रसाद गौतम. पता सा. पडुहार भूमि स्वामी	1023/1	0.0130
111	सत्यनारायण वल्द गंगाप्रसाद व मुतिनिया बेवा गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पटनाकला भूमि स्वामी	1024	0.0100
112	सत्यनारायण वल्द गंगाप्रसाद व मुतिनिया बेवा गंगाप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. पटनाकला भूमि स्वामी	1025	0.0190
रकवा हे०मे			3.6070

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्रों पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलोद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत 'मझगाँव शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-145-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- कोटर

(ग) ग्राम :- घोरकाट

(घ) क्षेत्रफल :- 5.7730 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वत्तियत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकवा हे0में0
1	विष्णुदत्त पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचलीकला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6	2	0.4880
	कीर्तनप्रसाद पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	गोविन्द प्रसाद पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	बाबूलाल पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	राजेन्द्रकुमार पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	रावेन्द्रकुमार पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
2	विष्णुदत्त पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचलीकला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6	4	0.0100
	कीर्तनप्रसाद पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह.बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	गोविन्द प्रसाद पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह.बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	बाबूलाल पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	राजेन्द्रकुमार पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
	रावेन्द्रकुमार पिता रामनिरंजन ब्रा. पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी 1/6		
3	छेदीलाल पिता रामसरोवर लोहार पता ग्राम पचली कला तह. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	5/1/2	0.1340

ग्राम घोरकाट तहसील – कोटर पेज नं. 2			
4	राजीवप्रसाद पिता नच्चूराम ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	6/1	0.1040
5	राजीवप्रसाद पिता नच्चूराम ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	7/1/2	0.0160
6	बृजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार, विद्या देवी पिता श्रीकान्त ब्रा० सा देह भूमि स्वामी	8	0.0180
7	अंगिरा प्रसाद पिता माधव प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	99/2	0.0820
8	सुशीला बेवा रामजी ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	99/3	0.0180
9	रामनिवास पिता रामलखन ब्रा. सा० घोरकाट भूमि स्वामी	103/1	0.0020
10	रामनिवास पिता रामलखन ब्रा. सा० घोरकाट भूमि स्वामी	105/1	0.0020
11	रामनिवास पिता रामलखन ब्रा. सा० घोरकाट भूमि स्वामी	106/1	0.0020
12	सोनेलाल पिता चुनकावन प्रजापति सा० घोरकाट भूमि स्वामी	107/1/1	0.1000
	संतोष पिता चुनकावन प्रजापति सा० घोरकाट भूमि स्वामी	107/1/2	
	बिहारीलाल पिता झल्ला कुम्हार सा० घोरकाट भूमि स्वामी	107/2/1/1	
	अच्छेलाल पिता चुनकवा कुम्हार सा० घोरकाट भूमि स्वामी	107/2/1/2	
	सरमनलाल पिता गिलुआ कुम्हार सा० घोरकाट भूमि स्वामी	107/2/2/1	
13	अच्छेलाल पिता चुनकवा कुम्हार सा० घोरकाट भूमि स्वामी	107/2/2/2	0.1520
	नीरज मिश्रा पिता विजयशंकर मिश्रा सा० घोरकाट भूमि स्वामी	108/1/1	
	छोटेलाल पिता रामशिरोमणि ब्रा. सा० घोरकाट भूमि स्वामी	108/1/2	
	पंकजकुमारमिश्रा पिता विजयशंकर मिश्रा सा० घोरकाट भूमि स्वामी	108/2/1	
14	छोटेलाल पिता रामशिरोमणि ब्रा. सा० घोरकाट भूमि स्वामी	108/2/2	0.0120
14	अनित्या पयासी पत्नी राकेश पयासी पता सा. घोरकाट भूमि स्वामी	114	0.0120
15	संपत कुमारी बेवा चुनकवा कुम्हार पता कोटर 1/4 भूमि स्वामी	115/1	0.1400
	सोनेलाल पिता चुनकवा कुम्हार सा. घोरकाट 1/4 भूमि स्वामी		
	संतोष पिता चुनकवा कुम्हार सा. घोरकाट 1/4 भूमि स्वामी		
	अच्छेलाल पिता चुनकवा कुम्हार सा. घोरकाट 1/4 भूमि स्वामी		
16	लालता प्रसाद पिता रामलखन ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	116/1	0.1910
	मु.दयादेवी बेवा अंजनी प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	116/2	
	मनीष कुमार पिता अंजनी कुमार ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		

ग्राम घोरकाट तहसील – कोटर पेज नं. 3			
17	रामनिवास पिता रामलखन ब्रा. सा0 घोरकाट भूमि स्वामी	117/1	0.1560
	मु.दयादेवी बेवा अंजनी प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/2	117/2	
	मनीष कुमार पिता अंजनी कुमार ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/2		
18	रामनिवास पिता रामलखन ब्रा. सा0 घोरकाट भूमि स्वामी	118/1	0.0600
19	मु.दयादेवी बेवा अंजनी प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/2	118/2	0.0850
20	जमुनाप्रसाद पिता दीनबन्धु काछी सा. देह भूमि स्वामी	121/1/1	0.0580
21	गिरजाप्रसाद पिता रामबहोरी ब्रा.सा. देह भूमि स्वामी	125	0.0170
22	गिरजाप्रसाद पिता रामबहोरी ब्रा.सा. देह भूमि स्वामी	126	0.2520
23	अंगिराप्रसाद पिता माधवप्रसाद ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	131	0.2680
24	श्यामलाल पिता रामनिवास ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	133	0.1880
25	धीरज मिश्रा पिता विजयशंकर मिश्रा सा. घोरकाट भूमि स्वामी	135/1	0.0930
26	छोटेलाल पिता रामशिरोमणि ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	135/2	0.0930
27	मुकुन्द बिहारी ,रामभवन पिता लालमन ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	136	0.1800
28	नारेन्द्र कुमार पिता रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	155/2	0.0140
29	अमृतलाल पिता रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	156/1	0.0530
30	नारेन्द्र कुमार पिता रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	156/2	0.0530
31	अमृतलाल पिता रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	158/1	0.0620
32	उमाकान्त पिता गिरजा प्रसाद ब्रा.सा.घोरकाट भूमि स्वामी	160/2	0.0120
33	कमलेश पिता लक्ष्मीकान्त ब्रा.सा. देह भूमि स्वामी	207/1	0.1200
34	विष्णुकमार पिता लक्ष्मीकान्त ब्रा0 सा.घोरकाट भूमि स्वामी	242	0.4500
35	बद्रीप्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	243/1	0.1780
	केदार प्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	रामहृदय पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	राजकुमारी पुत्री अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	पुष्पा पुत्री अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	चम्पा देवी पुत्री अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	जानकी पिता जगन्नाथ ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	नवलकिशोर पिता रामरूप ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
रामकिशोर पिता रामरूप ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी			
36	श्यामकली पति बद्रीप्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	243/2	0.0380

ग्राम घोरकाट तहसील - कोटर पेज नं. 4			
37	बृजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार, विद्या देवी पिता श्रीकान्त ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	250/1/1	0.1900
	राजेश कुमार पिता कमलाकान्त त्रिपाठी सा. देह भूमि स्वामी	250/1/2	
	विष्णुकान्त पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	250/1/3	
	राजकुमार पिता नीरजाकान्त ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/4	
	प्रद्युम्नकान्त पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/5	
	कोषा त्रिपाठी पति अरुणेन्द्र कुमार त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/5	250/1/6	
	पंकज कुमार पिता अरुणेन्द्रकुमार त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/5		
	ज्ञानेन्द्र कुमार पिता अरुणेन्द्रकुमार त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/5		
	अतुल त्रिपाठी पिता अरुणेन्द्रकुमार त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/5		
	अंजू पिता अरुणेन्द्रकुमार त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/5		
	राजेन्द्र कुमार पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/7	
	राममणि पिता रामगोपाल ब्रा. सा. अर्जुननगर पतेरी सतना	250/1/8	
	शान्ति पति भाईलाल ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/9	
	चन्द्रशेखर प्रसाद पिता भागवत प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/10	
	प्रकाश नारायण त्रिपाठी पिता रामाश्रय त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/2	250/1/11	
	मनीष त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/8		
	मनोज त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/8		
	मोनिका त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/8		
	मनोज त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/8		
	किरण त्रिपाठी बेवा महेन्द्र त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/8		
	प्रेमलाल त्रिपाठी पिता छोटे लाल त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/12	
	वरुणकान्त पिता रमाकान्त त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/13/1	
	तरुण कान्त पिता रमाकान्त भूमि स्वामी त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/13/2	
	मु. बुटनिया बेवा रंगलाल त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/14	
	संतोष कुमार पिता रंगलाल त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	प्रभा देवी पुत्री रंगलाल त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/15	
	श्यामकली पत्नी बद्रीप्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		
	बद्री प्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/16/1	
	केदार प्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/16/2	
	रामहृदय पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/16/3	
	रमाकान्त पिता गंगाप्रसाद त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/17/1	
	कृष्णकान्त पिता गंगाप्रसाद त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	250/1/17/2	
	मुगाबाई बेवा रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3	250/1/18	
	उर्मिला पुत्री रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3		
	प्रतिमा पुत्री रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3		
	जगदम्बा प्रसाद पिता नवल किशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3	250/1/19	
	मनकामना प्रसाद पिता नवल किशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3		
देवेन्द्र कुमार पिता नवल किशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3			
विष्णु कुमार पिता लक्ष्मी कान्त ब्रा. सा. घोरकाट	250/2		

ग्राम घोरकाट तहसील – कोटर पेज नं. 5		
	लक्ष्मीकान्त पिता वृन्दावन ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/1
	तुलसा देवी पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/2
	तुलसा देवी पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/3
	तुलसा देवी पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/4
	तुलसा देवी पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/5
	तुलसा देवी पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/6
	तुलसा देवी पिता अवधेश प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/7
	बलिकरण पिता गोरेलाल ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/8/1
	रामकरण पिता गोरेलाल ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/8/2
	भाईलाल पिता त्रिशूली प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/9
	चन्द्रशेखर प्रसाद पिता भागवत प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/10
38	प्रकाश नारायण त्रिपाठी पिता रामाश्रय त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/2	253/1/11
	मनीष त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/8	
	मनोज त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/8	
	मोनिका त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/8	
	मनोज त्रिपाठी पिता महेन्द्र त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/8	
	किरण त्रिपाठी बेवा महेन्द्र त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी 1/8	
	प्रेमलाल त्रिपाठी पिता छोटेलाल त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/12
	वरुणकान्त पिता रमाकान्त त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/13/1
	तरुण कान्त पिता रमाकान्त भूमि स्वामी त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/13/2
	मु. बुटनिया बेवा रंगलाल त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/14
	संतोष कुमार पिता रंगलाल त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी	
	प्रभा देवी पुत्री रंगलाल त्रिपाठी सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/15
	श्यामकली पत्नी बद्रीप्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	
	बद्री प्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/16/1
	केदार प्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/16/2
	रामहृदय पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/16/3
	रमाकान्त पिता गंगाप्रसाद त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/17/1
	कृष्णकान्त पिता गंगाप्रसाद त्रिपाठी सा. घोरकाट भूमि स्वामी	253/1/17/2
	मुगाबाई बेवा रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3	253/1/18
	उर्मिला पुत्री रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3	
प्रतिमा पुत्री रामकिशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3	253/1/19	
जगदम्बा प्रसाद पिता नवल किशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3		
मनकामना प्रसाद पिता नवल किशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3		
देवेन्द्र कुमार पिता नवल किशोर ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी 1/3	253/2	
विष्णु कुमार पिता लक्ष्मी कान्त ब्रा. सा. घोरकाट भूमि स्वामी		

ग्राम घोरकाट तहसील – कोटर पेज नं. 6			
39	राघवेन्द्र त्रिपाठी पिता प्रकाशनारायण त्रिपाठी सा. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	268	0.2320
40	राघवेन्द्र त्रिपाठी पिता प्रकाशनारायण त्रिपाठी सा. बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	269	0.0120
41	राजकुमार पिता बृम्हानंद ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	277 / 1	0.0200
42	श्रीमन पिता जैराम ब्रा. सा. देह भूमि स्वामी	277 / 2	0.0760
43	बालाप्रसाद पिता कल्लू ब्रा.सा. घोरकाट भूमि स्वामी	278 / 1	0.1320
44	रामयस पिता कल्लू ब्रा.सा. घोरकाट भूमि स्वामी	278 / 2	0.1200
45	इंद्रभान पिता कल्लू ब्रा.सा. घोरकाट भूमि स्वामी	278 / 3	0.1200
46	शोभनाथ पिता शम्भू काछी सा.घोरकाट भूमि स्वामी	279 / 2 / 1 / 2	0.0880
47	राजमन पिता हनुमान प्रसाद शुक्ला सा.घोरकाट भूमि स्वामी	282	0.0880
48	रामानुज पिता रामप्रसाद ब्रा. सा.घोरकाट भूमि स्वामी	284	0.1220
		योग	5.7730

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-146-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- कोटर

(ग) ग्राम :- करहीखुर्द

(घ) क्षेत्रफल :- 0.8420 हेक्टेयर

(1)

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिद्यत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	त्रिवेणी प्रसाद पिता रामफल ब्रा. सा. करही खुर्द भूमि स्वामी	382	0.0370
2	त्रिवेणी प्रसाद पिता रामफल ब्रा. सा. करही खुर्द भूमि स्वामी	383	0.0210
3	रामखेलावन पिता कामता यादव सा. करही खुर्द भूमि स्वामी	386	0.0980
4	त्रिवेणी प्रसाद पिता रामफल ब्रा. सा. करही खुर्द भूमि स्वामी	387	0.0410
5	त्रिवेणी प्रसाद पिता रामफल ब्रा. सा. करही खुर्द भूमि स्वामी	389	0.0680
6	ज्वालाप्रसाद पिता रामरक्षा पाठक सा. करही खुर्द भूमि स्वामी	390/1	0.0340
7	मु0 शकुन्तला बेवा रामबालक, अटलबिहारी, बृजबिहारी, कृष्णबिहारी, महेन्द्र, ध्रुवकुमार, सोना देवी पिता रामबालक ब्रा. सा0देह भूमि स्वामी	390/2	0.0420
8	विभेखानन्द पाठक पिता ज्वालाप्रसाद पाठक सा. करही खुर्द भूमि स्वामी	391/1/1/1	0.0120
9	मु0 शकुन्तला बेवा रामबालक, अटलबिहारी, बृजबिहारी, कृष्णबिहारी, महेन्द्र, ध्रुवकुमार, सोना देवी पिता रामबालक ब्रा. सा0देह भूमि स्वामी	391/1/2	0.0110
10	भोगिल सिंह पिता अयोध्या सिंह कुर्म. सा. अबेर भूमि स्वामी	393	0.0050
11	भोगिल सिंह पिता अयोध्या सिंह कुर्म. सा. अबेर भूमि स्वामी	396	0.0120
12	भोगिल सिंह पिता अयोध्या सिंह कुर्म. सा. अबेर भूमि स्वामी	397/1	0.0060

ग्राम करही खुर्द तहसील - कोटर (2)			
13	मनभरणसिंह पिता रामकिशोर सिंह कुर्मवंशी सा0 अबेर भूमि स्वामी	400	0.1170
14	राजेशप्रताप सिंह पिता भगवानदीन सिंह कुर्म. सा.	401/1	0.0160
15	धीरेन्द्रप्रताप पिता राजेन्द्र सिंह सा.अबेर भूमि स्वामी	401/2	0.0320
16	शैलेन्द्र सिंह पिता रामस्वरुप सिंह कुर्म. सा0अबेर भूमि स्वामी	401/3/1	0.0080
17	धीरेन्द्रप्रताप पिता राजेन्द्र सिंह सा.अबेर भूमि स्वामी	401/3/2	0.0080
18	शैलेन्द्र सिंह पिता रामस्वरुप सिंह कुर्म. सा0अबेर भूमि स्वामी	402/3/1	0.0420
19	धीरेन्द्रप्रताप पिता राजेन्द्र सिंह सा.अबेर भूमि स्वामी	402/3/2	0.0350
20	शैलेन्द्र सिंह पिता रामस्वरुप सिंह कुर्म. सा0अबेर भूमि स्वामी	403/3/1	0.0060
21	मनभरणसिंह पिता रामकिशोर सिंह कुर्मवंशी सा0 अबेर भूमि स्वामी	404/1/2	0.0440
22	मनभरणसिंह पिता रामकिशोर सिंह कुर्मवंशी सा0 अबेर भूमि स्वामी	405/1/2	0.0020
23	मनभरणसिंह पिता रामकिशोर सिंह कुर्मवंशी सा0 अबेर भूमि स्वामी	405/478/1/2	0.0020
24	रामप्रसाद पिता रघुवंशमणि ब्रा0 सा0 करही खुर्द भूमि स्वामी	406/2	0.0080
25	रामप्रसाद पिता रघुवंशमणि ब्रा0 सा0 करही खुर्द भूमि स्वामी	407/2	0.1060
26	हीरामणि पिता रामसुन्दर ब्रा.सा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी	408	0.0290
योग रकबा हे0 मे			0.8420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवौ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2023-24-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जनवरी 2025

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत सारोठ जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सारोठ जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-महलपुर प0ह0न0-10 ब0नं0-456 रा0नि0म0-सांवरी	1.देवराव पिता चिरकुटिया पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2.साहेबराव पिता चिरकुटिया पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	132/1 132/3	0.283 0.284	सारोठ जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में।
		कुल योग		02	0.567 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र.7916-रीडर-1-2024

धार, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

रेल मंत्रालय, पश्चिम रेलवे
(निर्माण संगठन) अधिसूचना

का.आ. 2719 (अ).- केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 2008 अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 03 में उल्लेखित उपखण्ड स्तंभ 4 में उल्लेखित जिलो के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में दाहोद-इन्दौर नई बडी लाईन वाया झाबुआ, सरदारपुर, धार एवं पीथमपुर (204.76 किलोमीटर) के लिये भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुसरण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। इसके पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ग्राम-रानीपुरा, पटवारी हल्का नंबर 197 तहसील-धार जिला-धार की यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले में दाहोद-इन्दौर नई बडी लाईन वाया झाबुआ, सरदारपुर, धार एवं पीथमपुर (204.76 किलोमीटर) परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है। ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा, के संबंध में अधिनियम की धारा 20(क) का प्रकाशन भारत के राजपत्र में सरल क्रमांक 4276 नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24 वर्ष 2024 को प्रकाशित किया गया। साथ ही दो दैनिक समाचार पत्र :- फ्रीप्रेस जनरल अंग्रेजी समाचार पत्र में दिनांक 02 नवंबर 2024 एवं टाईम्स नेशन अंग्रेजी समाचार पत्र में दिनांक 02 नवंबर 2024 को एवं पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 02 नवंबर 2024 प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन उपरांत प्रभावित हितग्राहियों द्वारा दिनांक 19.11.2024 को उपस्थित होकर, आपत्तियां प्रस्तुत की गईं। हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को समक्ष में सुना गया। उक्त आपत्तियों की जांच हेतु संबंधित विभाग एवं हल्का पटवारी का दल गठन कर, संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके आधार पर पुनः प्रभावित हितग्राहियों को संशोधित सूचना पत्र जारी कर, दिनांक 11.12.2024 को समक्ष में सुना गया। संयुक्त दल द्वारा दिनांक 11.12.2024 को पुनः संशोधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुनः प्रभावित हितग्राहियों को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 16.12.2024 को समक्ष में सुना गया। प्रभावित हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया गया। उक्त प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ग्राम-रानीपुरा में कुल रकबा-5.964 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होने से धारा 20(क) का प्रकाशन किया गया था। किंतु संयुक्त दल द्वारा दिनांक 18.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार/राजस्व अभिलेख अनुसार कुल रकबा 5.3257 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होने से धारा 20(ई) के प्रकाशन की कार्यवाही की गई है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जित की जावेगी। और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विकलांगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्णतः निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दाहोद-इन्दौर नई बडी लाईन वाया झाबुआ, सरदारपुर, धार एवं पीथमपुर (204.76 किलोमीटर) परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम :- धार, ग्राम-रानीपुरा, तहसील धार, जिला-धार (म.प्र.)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम तहसील	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			रिम
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सरस्वतीबाई बेवा परमानंद, ललीलाबाई पिता परमानंद जाति मारु निवासी ग्राम-तिरला तहसील व जिला-धार	157/3/1/1 157/4/1	0.1860 0.0280	0.0000 0.0000	0.1860 0.0280	0.1860 0.0280	0.0000 0.0000	0.1860 0.0280	
2	कैलाश पिता हिराजी जाति मारु निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	157/3/2/1 156/3	0.0580 0.1500	0.0000 0.0000	0.0580 0.1500	0.0580 0.0531	0.0000 0.0000	0.0580 0.0531	-
3	रामचन्द्र पिता नंदलाल जाति कुलमी निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	50	0.0890	0.0000	0.0890	0.0556	0.0000	0.0556	-
4	गोविन्द पिता शंकर जाति पटल्या निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	53/2 54/2	0.0230 0.0580	0.0000 0.0000	0.0230 0.0580	0.0180 0.0580	0.0000 0.0000	0.0180 0.0580	- -
5	धन्नालाल पिता शंकरलाल, रुखमाबाई बेवा कनीराम, मोहन, सोहन, राजेश, महेश, भागवंताबाई पिता कनीराम, छगन पिता शंकरलाल, प्रकाश, चरणसिंह, कैलाश, कांता पिता मांगीलाल राधाबाई बेवा मांगीलाल निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	53/1 54/1 55	0.0460 0.1160 0.1160	0.0000 0.0000 0.0000	0.0460 0.1160 0.1160	0.0040 0.0926 0.0368	0.0000 0.0000 0.0000	0.0040 0.0926 0.0368	- - -
6	धन्नालाल, छगन पिता शंकरलाल, प्रकाश, चरणसिंह, कांता, संतोष, निर्मला, प्रेमलता, कैलाश पिता मांगीलाल, राधाबाई बेवा मांगीलाल, मोहन, सोहन, राजेश, महेश, भागवंताबाई, मांगीलाल, तुलसीराम पिता कनीराम, पुजलीबाई बेवा कनीराम, रुखमाबाई बेवा कनीराम, निवासी	105/2 106/1/1 107	0.2500 1.2230 0.3200	0.0000 0.0000 0.0000	0.2500 1.2230 0.3200	0.2500 0.0470 0.1791	0.0000 0.0000 0.0000	0.2500 0.0470 0.1791	
7	सत्यनारायण पिता नानुराम जाति नाई निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	52/1	1.0120	0.0000	1.0120	0.2609	0.0000	0.2609	-
8	कैलाश पिता नानुराम निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	52/3 52/4	1.0120 0.2680	0.0000 0.0000	1.0120 0.2680	0.2410 0.1040	0.0000 0.0000	0.2410 0.1040	- -
9	सुभाष पिता गुलाबचंद जाति नाई निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	52/2/2	0.3370	0.0000	0.3370	0.0817	0.0000	0.0817	-
10	दीपक पिता गुलाबचंद जाति नाई निवासी ग्राम-रानीपुरा, पट्टा चौपाटी धार तहसील व जिला-धार	52/2/1	0.3380	0.0000	0.3380	0.0813	0.0000	0.0813	

11	संजय पिता गुलाबचंद जाति नाई निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	52/2/3	0.3370	0.0000	0.3370	0.0795	0.0000	0.0795
12	मोरसिंह पिता खुमसिंह जाति भील निवासी ग्राम-बाकलीकला तहसील व जिला-धार	57/1/2	0.5060	0.0000	0.5060	0.2051	0.0000	0.2051
13	रमेश, केसरबाई पिता अंबाराम, राजाराम, कालीबाई पिता नानुराम, सुरेश, कृष्णा, निर्मला, शकुंतला, कोमल पिता कालूराम जाति पटल्या निवासीयान ग्राम-रानीपुरा	58/1	0.6170	0.0000	0.6170	0.1514	0.0000	0.1514
14	कुलदीप पिता अमरसिंह निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	105/1/1	0.6670	0.0000	0.6670	0.4934	0.0000	0.4934
15	देविया पिता बुदिया जाति भील निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	106/2/1	0.3870	0.0000	0.3870	0.3870	0.0000	0.3870
16	शंकरलाल पिता गणपत जाति मारु निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	157/2/1	0.4470	0.0000	0.4470	0.3931	0.0000	0.3931
17	रामचन्द्र पिता चंदलाल जाति कुलमी निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	48	1.7970	0.0000	1.7970	0.0199	0.0000	0.0199
18	सिला पति भावसिंह जाति भील निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	58/2/1	0.5740	0.0000	0.5740	0.0818	0.0000	0.0818
		59/2/1	0.8150	0.0000	0.8150	0.2329	0.0000	0.2329
19	राधाबाई बेवा मांगीलाल जाति पटल्या निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	60/2	0.3790	0.0000	0.3790	0.0057	0.0000	0.0057
20	प्रकाश पिता भावसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	60/1	0.3790	0.0000	0.3790	0.0193	0.0000	0.0193
21	रमेश, भुरी पिता मनीराम, दिनेश, मुकेश पिता पुनमचंद, कालीबाई बेवा पुनमचंद, मांगुबाई बेवा रामा, शोभाराम पिता रामा, राधाबाई बेवा उदयसिंह, संध्या पिता उदयसिंह, दिलीप, साधना, यशोदाबाई पिता मुन्नालाल, रामीबाई बेवा मुन्नालाल, प्रदीप, गायत्री, शिवानी पिता उदयसिंह निवासी	60/3/1	1.2680	0.0000	1.2680	0.2804	0.0000	0.2804
22	राकेश, ममता, गंगाबाई पिता कैलाश, ताराचंद्र, सीताराम, राधेश्याम, शारदीबाई, आनंदीबाई, कमलाबाई पिता नारायण, हरिराम, बलराम, कृष्ण पिता उदयसिंह, सुगनाबाई बेवा उदयसिंह जाति पटल्या	61	1.4530	0.0000	1.4530	0.2795	0.0000	0.2795
23	सीता पिता काना जाति पटल्या निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	62/3/1	0.6010	0.0000	0.6010	0.1105	0.0000	0.1105
24	नाथी पिता काना निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	62/2	0.6300	0.0000	0.6300	0.2856	0.0000	0.2856
25	पन्नालाल पिता शंकरलाल जाति मारु निवासी ग्राम-रानीपुरा तहसील व जिला-धार	63/3/1	0.8280	0.0000	0.8280	0.4655	0.0000	0.4655
	कुल	-	17.558	0.0000	17.558	5.3257	0.0000	5.3257

क्र. 7920-रीडर-1-2024

धार, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

का.आ. 2719 (अ).- केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 2008 अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 03 में उल्लेखित उपखण्ड स्तंभ 4 में उल्लेखित जिलो के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में दाहोद-इन्दौर नई बडी लाईन वाया झाबुआ, सरदारपुर, धार एवं पीथमपुर (204.76 किलोमीटर) के लिये भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुसरण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। इसके पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ग्राम-गंगानगर, पटवारी हल्का नंबर 197 तहसील-धार जिला-धार की यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले मे दाहोद-इन्दौर नई बडी लाईन वाया झाबुआ, सरदारपुर, धार एवं पीथमपुर (204.76 किलोमीटर) परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है. ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा, के संबंध में अधिनियम की धारा 20(क) का प्रकाशन भारत के राजपत्र में सरल क्रमांक 4279 नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24 वर्ष 2024 को प्रकाशित किया गया। साथ ही दो दैनिक समाचार पत्र :- फ्रीप्रेस जनरल अग्रेजी समाचार पत्र में दिनांक 02 नवंबर 2024 एवं टाइम्स नेशन अग्रेजी समाचार पत्र में दिनांक 02 नवंबर 2024 को एवं राजएक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 03 नवंबर 2024 प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन उपरांत प्रभावित हितग्राहियों द्वारा दिनांक 19.11.2024 को उपस्थित होकर, आपत्तियां प्रस्तुत की गईं। हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को समक्ष में सुना गया। उक्त आपत्तियों की जांच हेतु संबंधित विभाग एवं हल्का पटवारी का दल गठन कर, संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके आधार पर पुनः प्रभावित हितग्राहियों को संशोधित सूचना पत्र जारी कर, दिनांक 11.12.2024 को समक्ष में सुना गया। संयुक्त दल द्वारा दिनांक 10.12.2024 को पुनः संशोधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुनः प्रभावित हितग्राहियों को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 16.12.2024 को समक्ष में सुना गया। प्रभावित हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया गया। उक्त प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ग्राम-गंगानगर में कुल रकबा-35.361 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होने से धारा 20(क) का प्रकाशन किया गया था। किंतु संयुक्त दल द्वारा दिनांक 19.12.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कुल रकबा 3.7703 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होने से धारा 20(ई) के प्रकाशन की कार्यवाही की गई है।

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जित की जावेगी। और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूचति में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विकलांगों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में पूर्णतः निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में दाहोद से इन्दौर जाने वाली नई बीजी लाईन परियोजना झाबुआ, सरदारपुर धार और पीथमपुर के मध्य से 204.76 किमी विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण जिले का नाम :- धार, ग्राम-गंगानगर, तहसील धार, जिला-धार (म.प्र.)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम तहसील	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			रि. मा. र्क
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कुचर हर्षवर्धन पिता सुरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी ग्राम-गंगानगर तहसील धार जिला-धार	103	0.4780	0.0000	0.4780	0.1353	0.0000	0.1353	
		104/1	0.5450	0.0000	0.5450	0.5279	0.0000	0.5279	
		105/2	0.2470	0.0000	0.2470	0.0112	0.0000	0.0112	
2	शांताबाई पति सुरेशचन्द्र, संजय पिता सुरेशचन्द्र जाति पाटीदार निवासी ग्राम-तिरला तहसील धार जिला-धार	152/1	0.2010	0.0000	0.2010	0.0646	0.0000	0.0646	-
		165	0.5950	0.0000	0.5950	0.0213	0.0000	0.0213	
3	गुलाब, आपसिंह, गीताबाई पिता सुखराम जाति भील निवासी ग्राम-तिरला तहसील धार जिला-धार	147/2/1	0.4810	0.0000	0.4810	0.2221	0.0000	0.2221	-
4	रामचन्द्र, सीताबाई, निर्मला, जुवान पिता नारायण, धर्मेन्द्र, गंगा, सपना, निशा पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी ग्राम-गंगानगर तहसील धार जिला-धार	147/1/1	0.3030	0.0000	0.3030	0.2371	0.0000	0.2371	-
5	अनसुय्या पति जगदीश, सुधा पति मधुसूदन, जगदीश पिता अंबाराम जाति कुलमी निवासी ग्राम-तिरला तहसील धार जिला-धार	154/1	0.2490	0.0000	0.2490	0.0415	0.0000	0.0415	-
		155/1	1.1720	0.0000	1.1720	0.4570	0.0000	0.4570	
		155/3	0.0750	0.0000	0.0750	0.1340	0.0000	0.1340	
6	मदन, सोहन, मोहन पिता मुन्नालाल जाति भील निवासी ग्राम-गंगानगर तहसील धार जिला-धार	156/2	1.2650	0.0000	1.2650	0.0060	0.0000	0.0060	-
7	संजय पिता सुरेशचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम-तिरला तहसील धार जिला-धार	168/2	1.3380	0.0000	1.3380	0.1239	0.0000	0.1239	-
8	रतनबाई देवा बाबुलाल, कमलेश, राजेश, दिनेश, रामकन्याबाई, गोदीबाई, अनुबाई पिता बाबुलाल जाति मारु निवासी ग्राम-गंगानगर तहसील धार जिला-धार	169/1	0.7440	0.0000	0.7440	0.4562	0.0000	0.4562	-
		169/3	0.6610	0.0000	0.6610	0.1500	0.0000	0.1500	
9	मेसर्स कोर्टीनम सीमेंट प्रा.लि.पंजीकृत कार्यालय 138 स्नेह नगर इन्दौर तर्फे प्रबंधक संचालक ओमप्रकाश पिता शंकरलाल मित्तल निवासी 112 जानकीनगर इन्दौर	173/1	0.0500	0.0000	0.0500	0.0064	0.0000	0.0064	
		138/1/1	0.4120	0.0000	0.4120	0.0279	0.0000	0.0279	
		138/2/1	0.3010	0.0000	0.3010	0.0376	0.0000	0.0376	
		138/3/1	0.2140	0.0000	0.2140	0.0452	0.0000	0.0452	
		138/4/1	0.1300	0.0000	0.1300	0.0276	0.0000	0.0276	
		136/1/1	0.1320	0.0000	0.1320	0.1314	0.0000	0.1314	
10	राजेश पिता प्रहलाददास जाति महाजन निवासी ग्राम-तिरला तहसील धार जिला-धार	125/2/1	0.1000	0.0000	0.1000	0.0991	0.0000	0.0991	
11	दिलीप पिता प्रहलाददास जाति महाजन निवासी ग्राम-तिरला तहसील धार जिला-धार	125/1/1	1.7700	0.0000	1.7700	0.3878	0.0000	0.3878	
12	विजय, अंबाराम पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम-गंगानगर तहसील धार जिला-धार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	96/1/1	0.4010	0.0000	0.4010	0.4003	0.0000	0.4003	
13	कोताबाई पति प्रकाशचन्द्र जाति भील निवासी ग्राम-गंगानगर तहसील धार जिला-धार	106/2/2	0.1850	0.0000	0.1850	0.0189	0.0000	0.0189	
	कुल	-	12.0490	0.0000	12.0490	3.7703	0.0000	3.7703	

रोशनी पाटीदार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पांडुर्णा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-1695-भू-अर्जन-2025

पांडुर्णा, दिनांक 4 जनवरी 2025

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	पांडुर्णा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-खेडीधान भोयर प.ह.नं. 33 ब.नं. 83 रा. नि.मं. तिगांव
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा - 1.368 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
कमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	352	0.943
2	359/3	0.425
	योग :-	कुल रकबा - 1.368 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत बैलेसिंग रिजर्वायर (पांडुर्णा बांध) निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबध्द कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड एवं <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) व प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग सौसर/पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-1696-भू-अर्जन-2025

पांडुर्णा, दिनांक 9 जनवरी 2025

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	पांडुर्णा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-नीलकंठ प.ह.नं. 50 ब.नं. 215 रा.नि.मं. पांडुर्णा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा - 2.382 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों
क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	208	0.025
2	209/1	0.333
3	209/2	0.023
4	296	0.090
5	300/1	0.430
6	286/2	1.011
7	286/3	0.120
8	302	0.350
	योग :-	कुल रकबा - 2.382 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत बैलेसिंग रिजर्वायर (पांडुर्णा बांध) निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबध्द कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड एवं <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) व प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग सौसर/पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-1697-भू-अर्जन-2025

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	पांडुर्णा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- मोरडोंगरी प.ह.नं. 62 ब.नं. 324 रा.नि.मं. पांडुर्णा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा - 59.530 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	4/1	0.643
2	4/2	0.526
3	4/3	0.567
4	4/4	0.586
5	4/5	0.547
6	7	0.400
7	8	1.931
8	19	0.263
9	20/1	0.146
10	21	0.040
11	277	0.291
12	278	2.760
13	9	0.830
14	16	0.652
15	52	0.182
16	53	0.380

17	20/2	0.227
18	20/3	1.133
19	20/4	0.228
20	20/5	0.228
21	20/6	0.227
22	22/1	0.130
23	25/2	0.607
24	28/3	0.230
25	22/2	0.130
26	25/1	0.600
27	28/2	0.260
28	22/3	0.370
29	25/3	0.643
30	28/1	0.390
31	23/1	0.300
32	27/1	0.445
33	27/3	0.335
34	23/2	0.578
35	24	0.400
36	27/4	0.405
37	27/2	0.372
38	61/1	0.350
39	61/3	0.190
40	62/2	0.012
41	62/3	0.016
42	62/4	0.016
43	62/5	0.016
44	62/6	0.030
45	99	0.850
46	101/1	0.470
47	106/4	0.025
48	101/2	0.380
49	102	0.560
50	106/1	0.180
51	113/1	0.059
52	106/2	0.090

53	106/3	0.090
54	113/2	0.029
55	113/3	0.029
56	114/1/2	0.110
57	108/1	0.054
58	108/2	0.054
59	108/3	0.054
60	110	0.140
61	112/1	0.061
62	112/2	0.061
63	112/3	0.060
64	109	0.320
65	111	0.178
66	114/1/1	0.151
67	114/2	0.140
68	117	0.070
69	303	2.047
70	307/1	0.100
71	309/1	0.626
72	309/2	0.312
73	310/1/1	0.780
74	310/1/2	0.414
75	310/1/3	0.436
76	310/2/1	1.180
77	310/2/2	0.450
78	310/3/1/1	0.390
79	313/1/1	0.325
80	310/3/1/2	0.390
81	313/1/3	0.320
82	310/3/2/1	0.425
83	313/4	0.405
84	310/3/2/2	0.424
85	313/1/2	0.405
86	310/4	0.607
87	311/1	0.235
88	311/9/2	0.240

89	312/5/3	0.194
90	311/2/1	0.078
91	311/4/1	0.135
92	311/8/1	0.135
93	312/3/1	0.069
94	312/7/1	0.029
95	311/2/2	0.078
96	311/4/2	0.135
97	311/8/2	0.135
98	312/3/2	0.070
99	312/7/2	0.028
100	311/2/3	0.079
101	311/4/3	0.135
102	311/8/3	0.135
103	312/3/3	0.070
104	312/7/3	0.028
105	311/3	0.462
106	311/6	0.476
107	311/7	0.259
108	312/1	0.162
109	312/4	0.324
110	311/5/1	0.100
111	312/2	0.162
112	312/5/1	0.170
113	312/5/5	0.190
114	311/5/2	0.175
115	311/9/1	0.237
116	312/5/4	0.190
117	311/5/3	0.150
118	312/5/2	0.170
119	312/8	0.308
120	312/6	0.486
121	312/9	0.308
122	312/10	0.405
123	312/11	0.676
124	312/12	0.312

125	313/2	1.477
126	317/2	0.546
127	313/3	0.405
128	313/5	1.692
129	317/1	0.494
130	313/6	0.607
131	313/7	0.030
132	314/1	0.385
133	315/1	1.023
134	320/1	0.609
135	324/1	1.011
136	326	0.591
137	314/2/1	0.140
138	315/2/1	0.790
139	323	0.198
140	320/2	0.609
141	324/2/2	0.511
142	328	0.324
143	329	0.397
144	335/1	0.360
145	314/2/2	0.410
146	315/2/2	0.602
147	321/1	0.252
148	321/3	0.405
149	321/5	0.829
150	321/2	0.364
151	321/4	0.421
152	321/6	0.946
153	332	0.441
154	333	0.263
155	336	0.255
156	335/2	0.250
157	335/3	0.300
	योग :-	कुल रकबा - 59.530 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत बैलेसिंग रिजर्वायर (पांडुर्णा बांध) निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड एवं <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) व प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग सौसर/पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-1737-भू-अर्जन-2025

पांडुर्णा, दिनांक 17 जनवरी 2025

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	पांडुर्णा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- खडकी प.ह.नं. 32 ब.नं. 17 रा.नि.मं. तिगांव
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा - 58.842 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
कमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	90	0.717
2	93/1	2.081
3	103/3	0.171
4	179/1	0.135
5	103/11	0.232
6	103/10	0.232
7	103/12	0.171
8	179/4	0.135
9	103/13	0.171
10	179/5	0.135
11	117/1	1.000
12	160/3	0.617
13	118/1/1	0.475
14	159/1/1	0.544
15	118/1/2	0.475
16	159/1/2	1.039
17	118/1/3	0.475

18	159/1/3	1.039
19	118/1/4	1.426
20	159/1/4	2.621
21	118/2/1	0.009
22	159/2/1	0.759
23	118/2/2	0.010
24	159/2/3	0.379
25	159/2/5	0.379
26	118/2/3	0.010
27	159/2/4	0.758
28	118/2/4	0.009
29	159/2/2	0.379
30	159/2/6	0.379
31	118/3	1.801
32	118/4	0.405
33	160/1	0.616
34	118/5	0.607
35	160/2	0.617
36	159/3	1.011
37	161/1	0.607
38	161/2	0.607
39	162/1	1.885
40	162/2	0.624
41	163	2.318
42	164	0.709
43	178/1	0.894
44	178/2	1.011
45	178/4	2.276
46	178/5	1.174
47	179/2	0.809
48	179/3	0.810
49	179/6	0.404
50	180/1	0.184
51	180/2	0.184
52	7/1	0.809
53	7/3	0.024

54	7/4	0.012
55	11/4	0.809
56	11/1	0.875
57	11/2	0.809
58	12	0.162
59	14/1	0.762
60	13	0.300
61	19	0.710
62	17	0.160
63	18/1	1.595
64	18/2	0.012
65	78	0.370
66	82/2	0.550
67	79/1	0.180
68	79/2	0.240
69	80	0.250
70	83	0.090
71	84	0.081
72	102/1/1	0.202
73	102/1/2	0.076
74	102/2/4	0.097
75	104/1/2	0.327
76	102/1/3	0.076
77	102/2/2	0.097
78	104/1/3	0.327
79	102/1/4	0.076
80	102/2/3	0.097
81	104/1/4	0.327
82	102/1/5	0.076
83	102/2/1	0.098
84	104/1/1	0.326
85	102/3	0.664
86	102/4	0.587
87	102/5	0.011
88	103/3	0.171
89	102/7	0.631

90	103/9	1.025
91	102/8	0.105
92	102/9	0.105
93	102/10	0.032
94	103/14	0.512
95	103/1	0.162
96	104/2	0.243
97	103/2	0.715
98	103/4	0.647
99	103/5	0.647
100	104/4	0.162
101	104/5	0.445
102	104/6	0.162
103	103/6	0.364
104	103/7	0.171
105	104/3	0.234
106	102/6	0.631
107	103/8	0.171
108	106	1.076
109	104/7	0.234
110	104/8	0.405
111	105	0.405
112	107/1	0.207
113	108/9	0.304
114	107/2	0.049
115	107/3	0.048
	योग :-	कुल रकबा - 58.842 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत बैलेसिंग रिजर्वार (पांडुर्णा बांध) निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड एवं <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) व प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग सौसर/पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय देव शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी, 2025

क्र.-बी-04-तीन-10-42-75 (सीधी-रामपुर नैकिन).- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B- 04-III-10-42-75.- The Judge named in the column No.(3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No.(2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No.(4) for holding Link Court:-

TABLE

S. No.	Place, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rampur-Naikin (Sidhi)	Shri Manish Kumar Shrivastava, II nd District & Additional Sessions Judge, Sidhi	10 Days

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार
(डिस्ट्रिक्ट इंसटब्लिशमेंट).

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024

क्र.-B-5933-दो-2-32-2022.- श्री मनीष शर्मा, फेकल्टि मेंबर (Jr.-I), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2024 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शर्मा, फेकल्टि मेंबर (Jr.-I),

एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश / शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनीष शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो फेकल्टि मेंबर (Jr.-I), एम.पी.एस.जे. ए. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

क्र.-B-6009-दो-2-84-2023.- श्री आशुतोष अग्रवाल, रजिस्ट्रार (Vig.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अग्रवाल, रजिस्ट्रार (Vig.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशुतोष अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (Vig.) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

क्र.-B-6046-दो-2-75-2022.- श्री अमित सिंह सिसौदिया, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2024 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमित सिंह सिसौदिया, ओ.एस.डी. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित / शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमित सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-6054-दो-2-40-2024.- श्री युगल रघुवंशी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 दिसम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री युगल रघुवंशी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री युगल रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-6066-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2024 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2025

क्र.-A-94-दो-2-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, जिला न्यायाधीश (Inspection), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2025 का पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कर्महे, जिला न्यायाधीश (Inspection), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कर्महे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला न्यायाधीश (Inspection) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-100-दो-2-128-2017.- श्रीमती संगीता यादव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (I.L.R. & Exam), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 5 जनवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता यादव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (I.L.R. & Exam), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (I.L.R. & Exam), के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी. एस.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2024.

क्र.-B-5601-दो-2-35-2020.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 22 से 28 नवम्बर 2024 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 28 नवम्बर 2024 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024.

क्र.-B-5898-दो-2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक

29 सितम्बर 2022 से 28 सितम्बर 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-5906-दो-2-75-2017.- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-5908-दो-2-35-2020.- श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 6 दिसम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-5910-दो-2-20-2021.- श्री संजय कृष्ण जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कृष्ण जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कृष्ण जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-5914-दो-2-57-2024.- श्री सुधीर कुमार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 29 जून 2022 से 30 जून 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-5916-दो-2-59-2024.- श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 25 से 28 दिसम्बर 2024 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अजहर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-8815-दो-2-40-2019.- श्री अभिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-8817-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्रीमती विभावरी जोशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय

उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i), (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्रीमती चौधरी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके खाते में 223 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 234 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 223 दिवस
में नगद भुगतान.
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज - 154(154/2= 77
दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन).

क्र.-C-8819-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्रीमती विभावरी जोशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-5970, दिनांक 11 अगस्त 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-C-8821-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्री आर.के. गुप्त, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i), (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री गुप्त की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2024 को उनके खाते में 299 दिवस के अर्जित

अवकाश एवं 506 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 299 दिवस
में नगद भुगतान.
- (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज - 02 (2/2= 01
दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन).

क्र.-C-8823-दो-2-22-2019.- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 6 से 10 दिसम्बर 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी, 2025.

क्र.-B-36-दो-2-55-2024.- श्री पी. सी. आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 से 30 दिसम्बर 2024 तक, छः दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित / शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. आर्य उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-39-दो-2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल,

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-55-दो-2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2024 तक के अर्जित/सार्वजनिक अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-B-57-दो-2-15-2023.-श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि के लिये एल. टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-B-60-दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 31 दिसम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 5 जनवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-B-62-दो-2-13-2024.-श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2024 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-64-दो-2-55-2022.-श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-66-दो-2-61-2024.-श्री अरविंद कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रायसेन को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरविंद कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-68-दो-2-34-2019.-श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नर्मदापुरम को दिनांक 23 से 27 दिसम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2024 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रियदर्शन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-70-दो-2-19-2015.- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि अजय प्रकाश मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-72-चार-8-42-1977 भाग-सोलह.- श्री एल.डी. सोलंकी, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 16 से 18 दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एल.डी. सोलंकी, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल.डी. सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-74-दो-2-37-2020.- श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2024 तक पांच दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-76-दो-2-62-2024.-श्री एम.एल. राठौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम.एल. राठौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.एल. राठौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी. एस.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

क्र.-A-8928.-उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के रिक्त पद पर 7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100-177500

(रूपये 15600-39100+ग्रेड पे रू. 5400/- छठवें वेतनमान) में, अस्थायी एवं स्थापनापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त कॉलम नंबर (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित समयवधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी :-

क्र	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विजय कुमार पवार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), खण्डपीठ इंदौर (मिनिस्ट्रीयल कॉडर)	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर
2.	श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), मुख्यपीठ जबलपुर (मिनिस्ट्रीयल कॉडर)	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
3.	श्री नंदलाल सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), मुख्यपीठ जबलपुर (मिनिस्ट्रीयल कॉडर)	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर

धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

क्र.-स्था.-7150.-श्री बी.पी.शर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण)
वृत्त ग्वालियर, को दिनांक 25 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2024 तक,

कुल 9 दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी.पी.शर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) वृत्त ग्वालियर, को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.पी.शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) वृत्त ग्वालियर, के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
राजीव के. पाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

क्र.-अवकाश-2078.-श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर, को दिनांक 12 से 21 नवम्बर 2024 तक, दस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.